



राहुल गांधी की फिर बढ़ सकती हैं मुश्किलें

मानहानि केस
सात जून को अदालत में पेशी का फरमान
सांसदी जाने के बाद खाली किया था बंगला

नई दिल्ली। कांग्रेस नेता राहुल गांधी एक बार फिर मुश्किलों में फंस सकते हैं। सात जून को उन्हें मानहानि मामले में बंगलूरु की अदालत में पेश होने के लिए कहा गया है।

भाजपा नेता ने राहुल के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है। इससे पहले, 23 मार्च 2023 को सूट की सीजेएम कोर्ट ने राहुल गांधी को दो साल की सजा सुनाई थी। उन्हें मोदी सरकार को लेकर की गई टिप्पणी के कारण सजा सुनाई गई थी। अगले ही दिन 24 मार्च को लोकसभा सचिवालय ने उनकी सदस्यता जाने का आदेश जारी कर दिया। नियम के अनुसार, अगर किसी सांसद



या विधायक को दो साल या इससे अधिक की सजा होती है तो उसकी सदस्यता चली जाती है। राहुल के साथ भी ऐसा ही हुआ। हालांकि, बाद में राहुल को सुप्रीम कोर्ट से राहत मिल गई। अदालत ने उनकी सजा पर रोक लगा दी। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने 22 अप्रैल को अपना आधिकारिक बंगला खाली कर दिया। कहा कि यह सच बोलने के लिए चुकाई गई कीमत है। उन्होंने कहा कि कुछ दिन तक 10 जनपथ पर अपनी मां के आवास पर रहेंगे। इससे पहले, 27 मार्च को लोकसभा सचिवालय ने पूर्व कांग्रेस प्रमुख राहुल गांधी को 22 अप्रैल तक अपना आधिकारिक आवास खाली करने को कहा था। 2019 में मोदी उपनाम को लेकर की गई टिप्पणी के मामले में 23 मार्च को सूट की सीजेएम कोर्ट ने धारा 504 के तहत राहुल को दो साल की सजा सुनाई थी।

542 लोकसभा सीटों का 'पोल ऑफ पोल्स', 9 एजिट पोल में भाजपा 334, कांग्रेस को 136 सीटें

एनडीए 348/334 **इंडिया 145/136**



नई दिल्ली। लोकसभा चुनाव के सातों फेज की वोटिंग खत्म, नतीजे 4 जून को आएंगे। लेकिन उससे पहले तमाम न्यूज चैनलों और ऐप्सों के एजिट पोल। 9 एजिट पोल के अब तक आए डेटा के मुताबिक, पोल ऑफ पोल्स में भाजपा को 334, कांग्रेस को 136 और अन्य को 50 सीटें मिलती दिख रही हैं। गठबंधन की बात करें तो एनडीए को 348 और इंडिया को 148 सीटों का अनुमान है। 12 राज्यों का डेटा अभी नहीं आया है। हिंदी पट्टी के राज्य उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, दिल्ली में भाजपा को एकतरफा बढ़त का अनुमान बताया गया है। इन राज्यों की 90 प्रतिशत से ज्यादा सीटों पर भाजपा की जीत तय मानी जा रही है। एमपी की 29 सीटों में से भाजपा को 28 से 29 और वहीं राजस्थान में भी 23 से 25 सीटें

राहुल-अखिलेश की जोड़ी का नहीं दिख रहा कमाल
रायबरेली से चुनाव लड़ रहे हैं। इस बीच, स्मृति ईरानी अमेठी पर फिर से कब्जा करने की कोशिश कर रही हैं। इंडिया टीवी-सीएनएक्स एजिट पोल के मुताबिक भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) 62-68 सीटें जीत सकती है, समाजवादी पार्टी को 10-16 सीटें मिल सकती हैं, कांग्रेस को 1-3 सीटें, राष्ट्रीय लोक दल (आरएलडी) को 2 सीटें, अपना दल को 2 सीटें मिलने की उम्मीद है। उत्तर प्रदेश में लोकसभा सीटों की अधिकतम संख्या 80 है। यह किसी भी राजनीतिक दल के लिए सबसे महत्वपूर्ण राज्य है जो लोकसभा चुनावों में बढ़त लेना चाहता है।

मिलने का अनुमान है। उत्तरप्रदेश में 69 से 74 और छत्तीसगढ़ में 11 की 11 सीटें आ सकती हैं। बंगाल में उलटफेर होता दिख रहा है। यहां भाजपा को 26 से 31 सीटें मिलने के आसार हैं। चुनाव के दौरान भास्कर के 100 रिपोर्टर 542 सीटों तक गए और हवा का रुख समझा। हर राज्य के पॉलिटिकल एक्सपर्ट्स, सीनियर जर्नालिस्ट, आम लोग से वहां के राजनीतिक हालात, उससे बनने वाले समीकरण, बड़े मुद्दे और राज्य-केंद्र की योजनाओं के अस्पर् के बारे में पूछा और उसे समझा।

पिकअप ने छह को कुचला, चार की मौत

दुर्घटना
दो गंभीर, पिकअप चालक को लोगों ने पीटा

बदायूं। बदायूं के बिसौली कोवाली क्षेत्र के गांव पैगा भीकमपुर में शनिवार दोपहर करीब 2.30 बजे बड़ी घटना हो गई। तेज रफ्तार पिकअप वाहन ने सड़क किनारे पेड़ की छंब में थान पर बैठे छह लोगों को कुचल दिया, जिससे चार लोगों की मौत हो गई, जबकि दो लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। ग्रामीणों ने घायलों को आनफानन अस्पताल पहुंचाया। जानकारी के मुताबिक गांव पैगा भीकमपुर निवासी ब्रह्मपाल (40), रामप्रकाश (47), ज्ञानचंद्र (37), धनपाल (50), रामवरी (45) समेत कई ग्रामीण शनिवार दोपहर आंबला-



बिसौली मार्ग पर स्थित अपने गांव में सड़क किनारे पेड़ के नीचे थान पर बैठे थे। उसी दौरान आंबला की ओर से आए तेज रफ्तार पिकअप वाहन ने छह लोगों को कुचल दिया। घटना होते ही चौख-पुकार मच गई। गांव के तमाम लोग मौके पर जुट गए। ग्रामीणों ने पिकअप चालक को पकड़ लिया और उसकी जमकर पिटाई लगा दी। घटना की सूचना मिलने के बाद थाना पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने चालक को छुड़ने की कोशिश की तो गुस्सा लोगों ने पुलिसकर्मियों को भी पीटा दिया।

8 राज्यों की 57 सीटों पर वोटिंग खत्म, चार जून को आरणा परिणाम बंगाल में बंपर वोटिंग, बिहार में छाई सुस्ती

लोकसभा चुनाव
बलिया में वोट देने पहुंचे बुजुर्ग की मौत
बंगाल में ईवीएम तालाब में फेंकी, 5 बजे तक 58 प्रतिशत मतदान

नई दिल्ली। लोकसभा चुनाव-2024 के सातवें और अंतिम फेज की वोटिंग पूरी हो गई है। 1 जून को 7 राज्यों और 1 केंद्र शासित प्रदेश की 57 सीटों पर वोटिंग हुई। चुनाव आयोग के वोटर टर्नआउट एप के मुताबिक शाम 5 बजे तक 58.34 प्रतिशत वोटिंग हुई। सबसे ज्यादा 69.89 प्रतिशत वोटिंग पश्चिम बंगाल में और सबसे कम 48.86



प्रतिशत वोटिंग बिहार में हुई है। इसके अलावा ओडिशा में विधानसभा चुनाव के लिए 62.46 प्रतिशत वोटिंग हुई। 4 राज्यों की 9 विधानसभा सीटों पर भी उपचुनाव के लिए मतदान हुआ। बलिया में वोट देने पहुंचे एक बुजुर्ग की पोलिंग बूथ पर मौत हो गई। डॉक्टरों का कहना है कि बुजुर्ग की मौत गर्मी की वजह से हुई। सातवें चरण में भी पश्चिम बंगाल से हिंसा को खबरें आई हैं। पश्चिम बंगाल के भांगर में सीपीआई (एम) और आईएसएफ के कार्यकर्ताओं ने टीएमसी समर्थकों पर बम से हमले का आरोप लगाया है। वहीं राज्य के मुख्य निर्वाचन कार्यालय ने ट्वीट करके बताया कि जयनगर के बेनीमाधवपुर स्कूल के पास सेक्टर ऑफिसर से भीड़ ने रिजर्व ईवीएम और कागजात लूट लिए। 1 सीयू, 1

यूपी के 13 सीटों पर पड़े 55.60 प्रतिशत वोट

फौसरी वोटों के साथ वंदेही टोप पर, सलेमपुर रहा फिसलू
उत्तर प्रदेश में सातवां चरण मतदान के लिहाज से सभी चरणों में पांचवें स्थान पर रहा। इस चरण की 13 सीटों पर कुल 55.60 प्रतिशत वोट पड़े। सबसे ज्यादा वंदेही और सबसे कम मतदान सलेमपुर में हुआ। सातवें चरण में वर्ष 2019 के चुनाव की तुलना में 2.77 प्रतिशत कम वोट पड़े। सातवें चरण की 13 सीटों में महाराजगंज, गोरखपुर, कुशीनगर, देवरिया, बांसगांव (सुरक्षित), घोसी, सलेमपुर, बलिया, गाजीपुर, चंदौली, वाराणसी, मिर्जापुर और रावर्टसगंज (सुरक्षित) पर शनिवार को मतदान हुआ। सातों चरण में सबसे ज्यादा मतदान पहले चरण में रहा। मत प्रतिशत के लिहाज से चौथे चरण में शामिल मतदाता दूसरे और पांचवें चरण के मतदाता तीसरे स्थान पर रहे। सबसे कम मतदान छठे चरण में रहा। यूपी के मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवदीप शिवाय ने बताया कि शनिवार को हुए मतदान के दौरान विभिन्न लोकसभा क्षेत्रों से 236 शिकायतें आईं। सबसे ज्यादा 41 शिकायतें बलिया जिले से आईं। देवरिया से 34 और वाराणसी से 28 शिकायतें आईं। उन्होंने बताया कि जहां से भी ईवीएम या वीवीपेट संबंधी शिकायतें आईं, वहां तत्काल इन्हें बदलने की कार्रवाई की गई। सभी जगहों पर चुनाव शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हुआ। यहां बता दें कि वर्ष 2019 में सातवें चरण की सीटों पर 58.37 प्रतिशत मत पड़े।

मौसम ने ली करवट

नई दिल्ली। दिल्ली-एनसीआर के कई इलाकों में शनिवार को मौसम ने अचानक करवट ली। तेज हवा के साथ बारिश की बूंदों से लोगों को भीषण गर्मी से थोड़ी राहत मिली। गुरुगाम में मध्यम बारिश हुई, जिससे लोगों को दिनभर की तपिश से कुछ राहत का एहसास हुआ। हालांकि धूलभरी आंधी चलने से रास्ते पर चल रहे लोगों की काफी परेशानी हुई। प्रादेशिक मौसम विज्ञान केंद्र के मुताबिक तेज हवा चलने से राजधानी का पारा 43 डिग्री दर्ज हुआ। जबकि यह आंकड़ा शुक्रवार को 45.8 रिकॉर्ड हुआ था। मौसम विभाग ने एक दिन पहले ही अंदेशा जता दिया था कि शनिवार से दक्षिण पश्चिम विक्षोभ के सक्रिय होने से मौसम करवट लेगा। ऐसे में हल्की बारिश होगी। इससे पहले शुक्रवार को दिनभर सूरज की तपिश और लू के थपेड़ों से लोग बेहाल नजर आए थे। गर्मी से बचने के लिए एलसी मुंबई पुलिस ने चार लोगों को गिरफ्तार किया है। मुंबई पुलिस ने चार लोगों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार किए गए चारों आरोपी लॉरेंस बिस्नोई गिरोह के सदस्य हैं। अब इस मामले में एक नई अपडेट

मेरे शरीर का हर कण देश के नाम: मोदी 45 घंटे की साधना पूरी, ध्यान के बाद पीएम नरेंद्र मोदी का संदेश

आस्था
प्रसिद्ध विवेकानंद रॉक मेमोरियल में की साधना
दूसरे दिन भगवा गमछे में दिखे थे पीएम मोदी

कन्याकुमारी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का तीन दिवसीय ध्यान पूरा हो गया है। पीएम मोदी पिछले 45 घंटे से कन्याकुमारी के विवेकानंद रॉक मेमोरियल में ध्यान कर रहे थे। वे तीन दिन ध्यान मंडपम में ही रहे। इस ध्यान मंडपम की खास बात यह है कि यह वही स्थान है, जहां स्वामी विवेकानंद ने देश भ्रमण के बाद तीन दिनों तक ध्यान किया था। यहीं उन्होंने विकसित भारत का सपना देखा था। ऐसी मान्यता है कि इस स्थान पर देवी पार्वती ने एक पैर पर



खड़े होकर साधना की थी। केंद्रीय मंत्री निर्मला सीतारमण ने ध्यान के बाद पीएम मोदी द्वारा लिखा एक नोट साझा किया। पीएम ने नोट में लिखा कि यह मेरा सौभाग्य है कि आज वर्षों बाद भी भारत स्वामी विवेकानंद के मूल्यों और आदर्शों का प्रतीक है। मुझे इस पवित्र स्थान पर ध्यान करने का अवसर मिला। मां भारती के चरणों में बैठकर, मैं फिर से अपने संकल्प की पुष्टि करता हूँ कि मेरे जीवन का हर

पीएम मोदी गुरुवार को कन्याकुमारी पहुंचे थे। प्रधानमंत्री धोती पहने दक्षिण भारत की पारंपरिक पोशाक में दिखे। उन्होंने ऑफ-व्हाइट रंग का शॉल ओढ़ रखा था। कन्याकुमारी पहुंचने के बाद भगवती अम्मन मंदिर में प्रार्थना और पूजा-अर्चना की। बता दें, आम चुनाव का प्रचार धमने के बाद पीएम मोदी हर बार आध्यात्मिक यात्रा पर जाते हैं और 2019 के चुनाव प्रचार के बाद वे केदारनाथ गए थे और साल 2014 में वे शिवजी महाराज से संबंधित प्रतापगढ़ गए थे। भारत दर्शन के दौरान विवेकानंद ने आम लोगों की तकलीफ, दर्द, गरीबी, आत्म सम्मान और शिक्षा की कमी को नजदीक से जाना था। समुद्र तट से करीब 500 मीटर दूर स्थित चट्टान पर विवेकानंद 24 दिसंबर 1892 को तैर कर पहुंचे थे। 25 से 27 दिसंबर तक उन्होंने इसी चट्टान पर ध्यान किया था।

मल्लिकार्जुन खरगे का दावा, 295 सीटें जीतेंगे

बैठक
टीवी पर एजिट पोल की बहस में भी शामिल होगी कांग्रेस
23 नेता शामिल हुए ममता नहीं पहुंची



नई दिल्ली। कांग्रेस प्रमुख मल्लिकार्जुन खरगे ने शनिवार को आम चुनाव संपन्न होने के बाद भविष्य की कार्य योजना पर चर्चा के लिए नई दिल्ली में अपने आवास पर गठबंधन नेताओं की बैठक का संचालन किया। खरगे ने कहा कि आज हमारी ढाई घंटे तक बैठक हुई, हमने कई मुद्दों पर बात की, खासकर चुनाव पर। हमने चुनाव के दौरान गठबंधन की कमजोरी पर बात की और हमने जो सबक सीखा उस पर चर्चा हुई। हमने मतगणना वाले दिन की तैयारी पर भी चर्चा की। उन्होंने

से कम 295 सीटें जीतेंगे। यह लोगों का सर्वेक्षण है और इसके आधार पर हमें 290 से अधिक सीटें मिल रही हैं। खरगे ने कहा कि आज हमारी ढाई घंटे तक बैठक हुई, हमने कई मुद्दों पर बात की, खासकर चुनाव पर। हमने चुनाव के दौरान गठबंधन की कमजोरी पर बात की और हमने जो सबक सीखा उस पर चर्चा हुई। हमने मतगणना वाले दिन की तैयारी पर भी चर्चा की। उन्होंने

सलमान खान की कार पर हमले का प्लान, चार अरेस्ट

साजिश
पाकिस्तान से भी जुड़े तार
व्हाट्सएप और सोशल मीडिया में घुसपैठ कर लगाया पता

मुंबई। बॉलीवुड के दबंग अभिनेता सलमान खान की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। उनकी जान को लगातार खतरा बना हुआ है। एक बार फिर लॉरेंस बिस्नोई गैंग द्वारा अभिनेता को जान से मारने की साजिश रची जा रही थी, लेकिन पुलिस ने बिस्नोई गैंग के इस मंसूबे को नाकाम कर दिया। नवी मुंबई पुलिस ने चार लोगों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार किए गए चारों आरोपी लॉरेंस बिस्नोई गिरोह के सदस्य हैं। अब इस मामले में एक नई अपडेट



सामने आई है। पुलिस ने आरोपियों के सोशल मीडिया और व्हाट्सएप पर हो रही बातचीत पर नजर रखते हुए उनके इरादों पर पानी फेर दिया। नवी मुंबई पुलिस की ओर से बताया गया है कि लॉरेंस बिस्नोई गिरोह तुर्की में बनी जिगाना पिस्तौल से अभिनेता सलमान खान को मारने की तैयारी कर रहा था, जिसका इस्तेमाल पंजाबी गायक सिद्धू मुसेवाला की हत्या में भी किया गया था।

केजरीवाल को कोर्ट से तत्काल राहत नहीं

नई दिल्ली। अदालत ने शनिवार को दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल द्वारा दिल्ली आबकारी नीति मामले से संबंधित उनके खिलाफ दर्ज धन शोधन मामले में चिकित्सा आधार पर अंतरिम जमानत की मांग करने वाली याचिका पर तुरंत राहत प्रदान करने से इनकार करते हुए अपना आदेश सुरक्षित रख लिया। यानि रविवार कसे केजरीवाल को तिहाड़ जेल में आत्मसमर्पण करना ही होगा। राउज एवेन्यू कोर्ट की न्यायाधीश कावेरी बाबेजा ने कहा कि आदेश पांच जून को सुनाया जाएगा। गौरतलब है कि केजरीवाल को कल जेल जाना है क्योंकि लोकसभा चुनाव के लिए प्रचार करने के लिए सुप्रीम कोर्ट द्वारा उन्हें दी गई अंतरिम जमानत आज समाप्त हो रही है। केजरीवाल की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता एन हरिहरन ने आज ट्रायल कोर्ट से अनुरोध किया कि इस पहलू के मद्देनजर मामले में पहले ही फैसला कर लिया जाए।

जम्मू हादसा

अंजली के शव को लेकर पति और ससुरालीजनों में नहीं बन रही थी सहमति

शोक
अंजली के शव को लेकर पति और ससुरालीजनों में नहीं बन रही थी सहमति
मथुरा। तोरुंगरी मथुरा से करीब 20 लोग वैष्णो देवी की यात्रा के लिए जम्मू गए थे। इनकी बस दो दिन पहले गुरुवार की दोपहर 12 बजे फुंडा राष्ट्रीय राजमार्ग पर अखनूर के टूंगी मोड़ पहुंची। यहां से जम्मू से शिवखोड़ी धाम जाते समय हादसा हो गया। बस अनियंत्रित होकर खाई में गिर गई। हादसे में कई लोगों की मौत हो गई, जबकि कई गंभीर रूप से घायल हैं। शनिवार को 11 शव अंडमान एक्सप्रेस ट्रेन से मथुरा जंक्शन पहुंचे। यहां से संबंधित गांव ले जाए गए। खबर मिली तो मृतकों के घरों में लोगों का

घरों में मची चीख पुकार, हर आंख दिखी नम

ट्रेन से 11 शव लाए गए मथुरा जंक्शन



जमावड़ हो गया। घरवालों का रो रोकर बुरा हाल है। गांव के लोग परेशान परिजन को ढंढस बंधाते रहे। जम्मू के अखनूर हादसे में 22 लोगों की मौत हुई है। शनिवार शाम ट्रेन संख्या 16032 अंडमान एक्सप्रेस से 11 लोगों के शव शाम 6 बजकर 3 मिनट पर जंक्शन के प्लेटफार्म नंबर आठ पर पहुंचे। सभी शवों को कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच एंबुलेंस में रखवाया गया। फिर उन्हें अधिकारियों की निगरानी में गंतव्य के लिए रवाना कर दिया गया। अंडमान

हादसे में नया अलीगढ़ निवासी अंजली की मौत हुई है। अंजली ने नगला बरी जावरा मांट निवासी धनु प्रकाश से पहली पत्नी के रहते हुए दूसरी शादी की थी। अंजली का 10 साल का बेटा है। जो इन दिनों ननिहाल में है। धनु प्रकाश ने बताया कि अंजली 22 मई को अपने मायके नया अलीगढ़ गई थी। बेटा यश भी उसके साथ गया था। वहां से अंजली अपने ताऊ सुख और तैयरी भाई संजय के साथ उसे बिना बताए वैष्णो देवी के दर्शन करने चली गईं। बेटे यश को ननिहाल में छोड़ गईं। उन्हें बहन प्रेमवती ने मेरठ से फोन कर हादसे की जानकारी दी। धनु प्रकाश, अंजली के शव को अपने साथ ले जाना चाहते थे लेकिन अंजली के भाई गजेन्द्र ने इस बात का विरोध किया। मामला उलझते देख अधिकारियों ने अंजली के शव को जंजेद के साथ अलीगढ़ के लिए रवाना कर दिया।

छात्रवृत्ति के लिए छात्र-छात्राओं की बायोमेट्रिक उपस्थिति जरूरी

अब तक 75 प्रतिशत उपस्थिति जरूरी होती थी अब बायोमेट्रिक उपस्थिति से छात्र-छात्राओं की उपस्थिति का आंकड़ा दर्ज किया जाएगा। छात्रवृत्ति के लिए बैकअप भी हो चुकी है। जिला समाजकल्याण अधिकारी सुधांशु शेखर ने बताया कि पूर्व दशम और दशमोत्तर छात्रवृत्ति की रूपरेखा तैयार हो रही है। उन्होंने बताया कि छात्रवृत्ति के मास्टर डटा में वही इंटर कालेज शामिल होंगे जिनको यूजयस कोड एलाउ होगा। इसके अलावा डिग्री कालेजों के लिए 1%एआईएसएचई कोड अनिवार्य किया गया है। अगर यह कोड नहीं होगा तो शिक्षण संस्थान मास्टर डटा में शामिल नहीं होंगे। यह कोड होने पर ही पोर्टल पर डटा दिखेगा। उन्होंने यह भी बताया कि छात्रवृत्ति के लिए छात्र-छात्राओं की उपस्थिति दर्ज करने को अब बायोमेट्रिक

अवधानामा संवाददाता

लखीमपुर खीरी। शैक्षिक सत्र 2024-25 के लिए छात्रवृत्ति की तैयारी शुरू हो गई है। छात्रवृत्ति आवेदन के लिए कई संशोधन किए जा रहे हैं। इसमें छात्र-छात्राओं की बायोमेट्रिक उपस्थिति जरूरी होगी। वही मास्टर डटा में शामिल होने के लिए इंटर कालेजों का यूजयस कोड और डिग्री कालेजों के लिए .एआईएसएचई कोड होना जरूरी है। स्टेट नोडल, जिला नोडल और संस्था के नोडल अधिकारियों की

40 हजार बच्चों को नहीं मिल पाएगा डीबीटी का लाभ

अवधानामा संवाददाता

लखीमपुर खीरी। ग्रीष्मकाल के बाद जून के अंतिम सप्ताह में परिषदीय स्कूल खुल जाएंगे। स्कूल खुलने से पहले बच्चों को यूनियन और जूते-मोजे के लिए धनराशि भेजी जानी है, लेकिन 40 हजार बच्चों को डीबीटी का लाभ नहीं मिल पाएगा। उनके आधार कार्ड नहीं बने हैं। आधार कार्ड के बिना डीबीटी का लाभ देना बेसिक शिक्षा विभाग के सामने भी चुनौती है। परिषदीय स्कूलों के बच्चों को हर साल नई यूनियन के लिए 1200 रुपये डीबीटी के माध्यम से दिए जाते हैं। शिक्षक प्रवेश लेते समय बच्चे और माता पिता का आधार कार्ड, बैंक पासबुक, फोटो, जन्म प्रमाण पत्र सहित अन्य जरूरी कागजात मांगे जाते हैं। डटा पोर्टल पर अपलोड किया जाता है। पोर्टल पर डटा फीड होने के बाद शासन की ओर से डीबीटी के माध्यम से धनराशि भेजी जाती है। 1200 रुपये से 600 रुपये यूनियन के लिए, स्कूल बैग के लिए 175, जूते-मोजे के लिए 125,

स्वेटर के लिए 200 और स्टेनरी के लिए 100 रुपये दिए जाते हैं। यह राशि पहले उन्हें बच्चों के अभिभावकों को मिलती है, जिनका आधार नंबर उपलब्ध होता है। बताते हैं कि अभी तक 44477 छात्र-

छात्राओं के पास आधार कार्ड नहीं है। इस वजह से दिक्कत आ रही है। हाल ही में महानिदेशक स्कूल शिक्षा कंचन वर्मा ने एक रिपोर्ट जारी की है। जिसमें सबसे ज्यादा खीरी के बच्चों के पास आधारकार्ड न होने

की बात कही गई है। उन्होंने बीएसए प्रवीण कुमार तिवारी को निर्देश जारी करते हुए कहा है कि आधार सत्यापन जल्द से जल्द पूरा कराएँ, ताकि बच्चों को समय से सहायता राशि उपलब्ध कराई जा सके।

एक हजार से अधिक गांवों में बिजली आपूर्ति शुरू

लखीमपुर खीरी। बृहस्पतिवार को आई आंधी से शहर के साथ ही जिले के करीब 1500 गांवों को बिजली उप हो गई थी। पूरे दिन कर्मचारी फाल्ट दुरुस्त करने में जुटे रहे। लगभग एक हजार से अधिक गांवों की बत्ती को दुरुस्त कर सप्लाई शुरू करा दी है, लेकिन अभी भी करीब 250 से 300 गांव ऐसे हैं, जहां बिजली आपूर्ति शुरू नहीं हो सकी है। बेहजम के करीब 50 गांव, महवागंज क्षेत्र के 40 गांव, गोला क्षेत्र के 30 से 40 गांव हैं, जहां बिजली सप्लाई नहीं मिल सकी है। वहीं कैमहरा विद्युत उपकेंद्र क्षेत्र में भद्रा फीड, लकेसर फीड एवं कैमहरा कस्बा समेत लगभग 60 गांवों की बिजली गुल है। रकुंदीपुर से ओदरहना तक 33 हजार की पूरी लाइन गिरी पड़ी है। कई गांवों में अभी तक काम तक शुरू नहीं हो सका। विभागीय अधिकारी कह रहे हैं कि लाइनों को दुरुस्त किया जा रहा है। जिले में बृहस्पतिवार रात आधी के कारण विद्युत लाइनों पर पेड़ गिरे और खंभे टूटने से लखीमपुर, गोला, सिकंदराबाद, मोहम्मदी, बेहजम, मझगई आदि क्षेत्रों के 1500 से ज्यादा गांवों की बिजली आपूर्ति बाधित हो गई थी। विद्युत निगम पेट कटवाकर लाइनों को दुरुस्त करने में जुटा है। एक हजार से अधिक गांवों में बिजली आपूर्ति शुरू कर दी गई है।

इलाज करने आए झोलाछप पर विवाहिता ने लगाया छेड़छड़ करने का आरोप लखीमपुर खीरी। एक विवाहिता ने बीमारी का इलाज करने आए झोलाछप पर इलाज के बहाने छेड़छड़ करने का आरोप लगाया है। पीड़ित की शिकायत पर पुलिस ने आरोपी के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है। गांव की नवविवाहिता ने पुलिस को शिकायती पत्र देकर बताया उसे तेज बुखार आ जाने पर गांव के झोलाछप मुनीष कुमार को दवाई के लिए बुलाया था। शाम 8 बजे करीब उसका पति खेत की रखवाली कर रहा था। तभी आए झोलाछप ने छेड़छड़ शुरू कर दी। विवाहिता के विरोध करने पर मौके पर आई उसकी सास को जान से मार डालने की धमकी देकर चला गया। घटना की शिकायत 1090 पर की जहां लाइन बिजली बताता रहा। कोतवाली पहुंचकर नामित आरोपी के खिलाफ शिकायती पत्र दिया पुलिस ने आरोपी के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है।

पुलिस ने महिला स्मैक

तस्कट को किया गिरफ्तार

सहारनपुर। बेहट कोतवाली

पुलिस ने नशीले पदार्थों की तस्करी करने वालों के खिलाफ अभियान चलाते हुए एक महिला को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने पकड़ी गई महिला के पास 10 ग्राम अवैध स्मैक व 4220 रूपए नकद बरामद किए हैं। पकड़ी गई महिला का पुलिस ने एनडीपीएस एक्ट की संगीन धाराओं में चालान कर न्यायालय में पेश कर दिया है। बेहट कोतवाली प्रभारी निरीक्षक योगेश शर्मा ने बताया कि उप निरीक्षक रोहित कुमार, महिला उप निरीक्षक भावना एवं कांस्टेबल कुलदीप सिंह को साथ लेकर ग्राम पथरवा से पाजरायपुर मार्च पर चौकंग कर रहे थे।

चौकंग के दौरान उन्होंने एक महिला को संदिग्ध अवस्था में घूमते हुए रोककर तलाशी ली तो उसके पास से लगभग 10 ग्राम अवैध स्मैक एवं 4220 रूपए नकद बरामद हुए। स्मैक के बरामद होने पर कुड़वा से पूछताछ की तो उसने अपना नाम शबाना पत्नी असलम निवासी ग्राम पथरवा थाना कोतवाली बेहट बताया।

हत्या के प्रयास में वांछित दो आरोपी चढ़े पुलिस के हठ

सहारनपुर। थाना नकुड़ पुलिस

ने हत्या के प्रयास में वांछित चल रहे 02 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से घटना में प्रयुक्त 01 लोहे का सरिया बरामद किया है।

गौरतलब रहे कि 11 मई को आस मोहम्मद पुत्र इकरार निवासी ग्राम मन्ना माजरा थाना कैराना जिला शामली ने थाना नकुड़ पर लिखित तहरीर देकर आरोपी वैशर पुत्र इलियास, कामिल पुत्र जंगा, मन्वर पुत्र इलियास, अनवर पुत्र इलियास व तसव्वर पुत्र इलियास निवासीग्राम टिडौली थाना नकुड़ पर एकराय होकर जान से मारने की नीयत से हत्य में लाठी डण्डे व सरिये लेकर उसकी बहन के घर में घुसकर बहन व जीजा को गोली गलौच कर मारपीट करते हुए उसकी बहन के साथ अश्लीलता करने, बहन की टांग तोड़ देने व जान से मारने की धमकी देने के सम्बन्ध में थाना नकुड़ पर विभिन्न धाराओं में मुकदमा पंजीकृत कराया था।

शान-ए शौकत के साथ संपन्न हुआ शहीद मर्द

अवधानामा संवाददाता

सतांव, रायबरेली। कोंसा ग्राम पंचायत के अंतर्गत अमवन में हर साल की तरह इस साल भी लगने



वाले शहीद मर्द बाबा के मेले में कड़ी सुरक्षा के साथ व्यापक इंतजाम किए गए। जिसमें अमवन गांव में शुक्रवार को जायरीनों की भीड़ जुकड़ से ही जूटना प्रारंभ हो गई थी। इस मेले को आपसी भाईचारे और संप्रदायिक सौहार्द का प्रतीक माना जाता है जिसमें मुस्लिम और हिंदू दोनों संप्रदाय के लोग शामिल होते हैं। शहीद मर्द बाबा की याद में

ग्राम अमवन में जलसे और उर्स का आयोजन किया जाता है। इस मेले में दूर दराज से आए हिंदू मुस्लिम सभी ने शहीद मर्द बाबा से दिली तमन्ना पूरी करने की मांग दोनों हाथों को

बाबा का सालाना उर्स

ताहिर चिरती शेरगढ़ बरेली और आलिया इंडियन सुंदर नगरी दिल्ली के मध्य रात दस बजे से सवाल जवाब शुरू हुआ जो सुबह करीब पांच बजे तक चलता रहा जिसमें दूर दराज से आए सभी मेहमानों ने कव्वाली और लगे मेले का खूब आनंद उठाया शेरगढ़ बरेली की सरजमा से चलकर आए ताहिर चिरती की जायरीनों ने जमकर प्रशंसा की और कहा ऐसे कार्यक्रमों में ताहिर चिरती जैसा ही कव्वाल होना क्षेत्र में इस्लाम को आगे बढ़ाने और इस्लाम के प्रति मोहब्बत का पैगाम देना।

इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में पूर्व प्रधान तिलक सिंह, वर्तमान प्रधान गिरिजा शंकर लोधी, मुन्ना बाजपेई, अशोक बाजपेई, त्रिनेदी त्रिवेदी, डॉक्टर राजेंद्र, कव्वाली में उद घोसक गगन मिश्रा, सनेही दीक्षित, शशि त्रिवेदी, मनीष पाण्डे, मोहम्मद जाफर उर्फ कद्दू, अमवन कमेटी, एवं धारी संख्या में महिला पुरुष मौजूद रहे।

चाकू के हमले से घायल युवक की उपचार के दौरान मौत

अवधानामा संवाददाता

सहारनपुर। थाना गंगोह क्षेत्रान्तर्गत दिनदहाड़े चाकूओं से गोदकर घायल हुए युवक ने आज उपचार के दौरान दम तोड़ दिया। पुलिस ने मृतक के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। उधर पुलिस ने एक हत्यारोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है।

उल्लेखनीय है कि गंगोह कोतवाली क्षेत्रान्तर्गत लखनौती एक युवक को चाकू मारकर घायल कर दिया था, जिसे उपचार के लिए प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया था जहां से हालत गम्भीर होने के चलते उसे हायर सेंटर रेफर कर दिया था जहां आज उसकी उपचार के दौरान मौत हो गई। मौत की सूचना पाते ही पुलिस जिला चिकित्सालय पहुंची और मृतक के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। उधर घटना के बारे में

जानकारी देते हुए एसएसपी डा. विपिन ताड़ा ने बताया कि गंगोह क्षेत्रान्तर्गत प्राम लखनौती में जीते कल एक युवक को चाकू मारकर घायल कर घटना को अंजाम दिया गया था। इलाज के दौरान युवक की मृत्यु हो जाने के प्रकरण में पुलिस द्वारा की जा रही कार्यवाही के संबंध में सहारनपुर के एसएसपी डॉ. विपिन ताड़ा ने जानकारी देते हुए बताया कि प्रकरण में तत्काल मुकदमा दर्ज किया गया था। उसमें गिरफ्तारी भी की गई है। आज सुबह सूचना प्राप्त हुई है कि जो युवक घायल था उसकी मृत्यु हो गई है। एसएसपी डॉ. विपिन ताड़ा ने जानकारी कि दोनों युवकों में घटनास्थल पर किसी बात को लेकर कहासुनी हो गई थी जिसमें की तेश में आकर एक युवक ने दूसरे युवक पर चाकू से हमला कर दिया। घटना को अंजाम देने के बाद अभियुक्त मौके से फरार हो गये थे।

सीआईएस ने साधारण सभा व संवाद बैठक का किया आयोजन

अवधानामा संवाददाता

सहारनपुर। चैम्बर ऑफ इंडस्ट्रीज एंड सर्विसेज की नए सत्र 2024-



25 की साधारण सभा की बैठक संवाद का आयोजन किया गया, जिसमें उद्योगों के प्रोत्साहन एवं सुरक्षा, सावधानी, बचाव एवं घटना होने पर उचित कार्यवाही पर विचार-विमर्श किया गया। दिल्ली रोड स्थित बैटुक का शुभारम्भ अध्यक्ष रविंद्र मिगलानी संस्था की प्रार्थना के साथ कर अतिथियों एवं संस्था पदाधिकारियों ने संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित करके किया। इस अवसर पर मुख्य अतिथि मुख्य अतिथि डा. विपिन ताड़ा, एसपी सिटी अभिमन्यु मांगलिक, संस्था

संरक्षक महापौर डा. अजय कुमार सिंह, एडमिशनल कमिश्नर-ग्रेड-1 जीएसटी एस. पी. सिंह, संयुक्त आयोग उद्योग श्रीमती अंजू रानी,

उपायुक्त उद्योग वी. के. कौशल, आईसीआईसीआई बैंक के सीबीएच मधुर सिन्हा ने अपने विचार व्यक्त करते हुए एक कक्षा उद्योग को प्रोत्साहित किए जाने के लिए हम सबको मधुर सम्बंध बनाने होंगे क्योंकि दोनों ही वर्ग एक दूसरे के पूरक हैं। इस दौरान संस्था के महासचिव अमित चौधरी ने संगठन की गतिविधियों पर प्रकाश डाला। अध्यक्ष रविंद्र मिगलानी ने कहा कि संगठन का उद्देश्य है कि प्रत्येक सदस्य से कांजसिलिंग कमेटी के सदस्यों के माध्यम से निरंतर व प्रत्यक्ष सम्पर्क रहे। इस दौरान

आगामी 14 जून को औद्योगिक इकाइयों में कार्यरत श्रमिकों, उनके परिजनों स्वास्थ्य की जांच हेतु स्वास्थ्य शिविर आयोजित किए जाने तथा वृक्षारोपण पर कार्यशाला का आयोजन करने का निर्णय लिया गया। इस दौरान अध्यक्ष रविंद्र मिगलानी ने बताया कि संस्था को इनकम टैक्सेशन 12ए में छूट मिल चुकी है।

इस अवसर पर संस्था संरक्षक अमर गुप्ता, चेयरमैन एच. एस. चड्ढा, वरिष्ठ उपाध्यक्ष संजय कपूर, कोषाध्यक्ष विजय वशिष्ठ ने भी अपने विचार व्यक्त किए। संस्था से जुड़े सदस्यों को प्रमाण पत्र व कॉलर पिन और अंग वस्त्र देकर सम्मानित किया गया। इस दौरान अपर महासचिव घनश्याम माहेश्वरी, संयुक्त कोषाध्यक्ष गौरव जैन कोऑर्डिनेटर संजय गुप्ता उपाध्यक्ष दिनेश माहेश्वरी, संजीव मोना, प्रवीण गुप्ता अमित टक्कर, मयंक अरोड़ा, अशोक अरोड़ा, राजेश अरोड़ा, आदित्य तनेजा, शोएब खान, दीपक रहेजा आदि मौजूद रहे।

मानवी हत्याकाण्ड की जांच क्राइम ब्रांच से कराने की मांग



अवधानामा संवाददाता

सहारनपुर। मानवी हत्याकाण्ड की जांच क्राइम ब्रांच में ट्रांसपर किये जाने तथा मुकदमे को फस्ट टैऊर कोर्ट में चलाने की मांग को लेकर आज गुर्जर समाज का एक प्रतिनिधिमंडल एसएसपी से मिला। थाना कुतुबशेर क्षेत्रान्तर्गत ग्राम बीतिया निवासी राकेश कुमार पुत्र स्व.इसम सिंह ने एसएसपी को सौंप शिकायती पत्र में बताया कि उसकी भतीजी मानवी तोमर की गत 22 मई को घर से कालेज जाते समय सागर पुत्र देवेन्द्र निवासी ग्राम डेरिया रिखौटी थाना मुंडली मेरठ ने गर्दन रेंतकर निर्मम हत्या कर दी थी। पुलिस ने आरोपी को हिरासत में लेकर जेल भेज दिया। परिजनों ने बताया कि सम्बन्धित विवेचक द्वारा सही प्रकार

नाबालिग युवती को भगा ले जाने वाला आरोपी चढ़ा पुलिस के हठ

सहारनपुर। नाबालिग युवती को बहला पुसलाकर भगा ले जाने के मामले में वांछित चल रहे एक अभियुक्त को पुलिस ने आज गिरफ्तार कर उसके कब्जे से युवती को सकुशल बरामद कर लिया।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डॉ.विपिन ताड़ा के निर्देश पर चलाये जा रहे अभियान के तहत आज थाना बेहट पुलिस ने नाबालिग युवती को बहला पुसलाकर भगा ले जाने वाले वांछित आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। गौरतलब रहे कि विगत 8 मई को युवती के पिता ने थाना बेहट पुलिस को दी तहरीर में बताया था कि उसकी नाबालिग पुत्री को आरोपी रिंकू पुत्र शोभा राम निवासी चुड़हुड़ थाना बेहट बहला पुसलाकर भगा ले गया है। जिस पर पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी।

पदमश्री भारत भूषण ने साधकों को सिखायी योगिक क्रियाएं

अवधानामा संवाददाता

सहारनपुर। पद्मश्री योग गुरु भारत भूषण के सानिध्य में योग साधकों ने विभिन्न योग क्रियाओं का पूर्वाभ्यास किया। योग गुरु ने कहा कि ध्यान हास की सर्वोच्च अवस्था है। जिसमें हंसी का शोर तो नहीं होता लेकिन हमारा रोम रोम पुलकित हो उठता है। पद्मश्री योग गुरु भारत भूषण आज बेरीबाम स्थित मोक्षाथतन योग संस्थान में साधकों और नेशन बिटल्डस अकादमी के छात्रों को योग एवं उपयोग कार्यशाला को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने बताया कि आधे घंटे का शव आसन 3 घंटे की नींद के बराबर और 20 मिनट का सघन ध्यान 5 घंटे की नींद के बराबर आराम देता है। यानी हम प्रतिदिन शवासन करने से इसके अन्य लाभों के अलावा 3 घंटा और ध्यान करने से 5 घंटा प्रतिदिन अपने चर्किंग अवसर ऐसे बढ़ा सकते हैं कि दिन के 24 घंटे 29 घंटे बन जाए। आज

छोटे बच्चों को गहरे शव आसन में देख सभी हतप्रभ रह गए। शव आसन इतना गहरा था कि बाहर के शोर का भी उन पर कोई असर नहीं था, इस पर योग गुरु ने कहा कि बच्चों व साधकों के झूठ फेब वह आडंबर मुक्त जीवन के कारण ही अर्थात् साधकों को गहरे शव आसन हो पता है, जबकि आमजन के लिए यम व नियम का अलगा प्रशिक्षण देकर उनकी मानसिकता को अर्थात् साधकों को अर्थात् सनना होता है। योगगुरु ने कहा कि योगाभ्यास के लिए खर्च किया गया समय एक ऐसा इन्वेस्टमेंट है जो कई गुना होकर हमें मिलता है और अपने अन्तःकरण, दृष्टिकोण, गुणवत्ता और खुबसूरती बोनास में मिल जाते हैं। उन्होंने इस विशेष शिविर के माध्यम से संक्रामक साधक बनने का आवाहन किया और कहा कि अपने आचरण, दृष्टिकोण, गुणवत्ता और मुस्कुराहट भरी सेवा से उन्हें अन्य अन्तःकरण के लिए प्रेरणा स्रोत बने की मिसाल कायम करनी होगी।

पांवधोई नदी की सफाई कर नदी तटों को संरक्षित करें: नगरायुक्त

अवधानामा संवाददाता

सहारनपुर। नगरायुक्त संजय चौहान ने पांवधोई नदी क्षेत्र में अतिक्रमण कर अवैध रूप से बनाये गए मकानों को नोटिस देकर कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने नदी सीमा में अवैध निर्माण के प्रति लोगों को सचेत करने के लिए सिंचाई विभाग को भी बोर्ड लगाने के लिए कहा है। नगरायुक्त ने पांवधोई के उद्गम शंकलापुरी से डमोला तक पांवधोई नदी का निरीक्षण किया और नदी की सफाई व उसके तटों को संरक्षित करने के लिए अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए। नगरायुक्त ने पांवधोई पर बनाये जा रहे दोनों पुलों तथा डमोला नदी पर बनाये जा रहे नये पुल और भूतेश्वर रोड पर नाला सफाई तथा राकेश सिनेमा के निकट नदी सफाई का भी निरीक्षण किया।

नगरायुक्त संजय चौहान आज सुबह नगर निगम, स्मार्ट सिटी, जलकल व सिंचाई विभाग के

अधिकारियों के साथ पांवधोई के उद्गम स्थल शंकलापुरी पहुंचे और



स्थिति की जानकारी ली। उन्होंने शंकलापुरी रोड पर जुलमगढ़, विश्वास नगर में पांवधोई नदी के किनारे नदी क्षेत्र में अतिक्रमण कर अवैध रूप से बनाये गए मकानों और काटी जा रही कॉलोनिनों को देखकर हैरानी जताते हुए अपर नगरायुक्त राजेश यादव को निर्देश दिए कि वे कालोनाइजिंग तथा नदी क्षेत्र में अवैध निर्माण कर रहे लोगों को नोटिस देकर कार्रवाई कराएं। उन्होंने अवैध निर्माण के प्रति लोगों को सचेत करने के लिए सिंचाई विभाग को भी नदी सीमा पर बोर्ड

लगाने को कहा। उन्होंने कहा कि एनजीटी की गाइड लाइन है कि

नदी तट से एक सौ मीटर तक कोई निर्माण कार्य न किया जाए। बाबा लालदास बाड़ा घाट का निरीक्षण करते हुए उन्होंने नाबालाल दास घाट क्षेत्र को और अधिक विकसित करने तथा घाट क्षेत्र में साफ-सफाई के उपरांत बोट चलवाने का भी सुझाव दिया। उन्होंने नदी का सफाई कार्य तेजी से कराने के निर्देश के साथ ही धोबीघाट से डमोला तक नदी में पोकलेन आदि मिश्रित कर उतारने के लिए स्थान चिन्हित कर सप्टे बनवाने के निर्देश मुख्य अभियंता

निर्माण बी के सिंह को दिए। उन्होंने अपर नगरायुक्त मृत्युंजय को नदी में झुक आये पेड़ों की कटाई-छंटाई कराने के लिए भी कहा। नगरायुक्त ने पांवधोई नदी पर पुल दालमण्डी व पुल सज्जीमण्डी के निकट बनाये जा रहे दोनों पुलों का भी निरीक्षण किया। उन्होंने सेतु निगम के अधिकारियों से कहा कि पुलों के नीचे नदी तल पर जो निर्माण सामग्री पड़ी है उसे बाहर निकाल कर नदी को सफाई कराएं।

नगरायुक्त ने राकेश सिनेमा के निकट नदी सफाई कार्य का भी अवलोकन किया और नदी सफाई के सम्बंध में आवश्यक निर्देश दिए। पांवधोई व डमोला के संगम स्थल के निकट डमोला पर निर्माणाधीन पुल का निरीक्षण करते हुए उन्होंने यूपीपीसीएल को रिटेनिंग वॉल की मिट्टी हटाने तथा सेतु निगम अधिकारियों को कार्य जल्दी पूरा कर पुल के नीचे पड़े लोहे की शटरिंग का सामान उठाने के निर्देश दिए।

लड़की भगाने के मामले में नामजद

आरोपी ने फंदा लगाकर की आत्महत्या

लखीमपुर खीरी। नीमागांव थाना क्षेत्र में एक शख्स ने फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। वह लड़की भगाने के मामले में नामजद आरोपी था। उसका शव शनिवार को पेड़ पर फंदे से लटका मिला। बताया जा रहा है कि पुलिस की कार्रवाई के डर से उसने ऐसा कदम उठाया है। नीमागांव थाने के गांव बहादुरपुर निवासी नल्यू (55) ने शुक्रवार की रात फंदा लगाकर जान दे दी। शनिवार सुबह उसका शव गांव से काफी दूर मितीली सीमा क्षेत्र में पेड़ पर फंदे से लटका मिला। आरोपी के साथ उसकी पत्नी सहित चार लोगों के विरुद्ध नाबालिग लड़की को भगाने में शामिल होने के आरोप में कुछ दिनों पहले मुकदमा दर्ज हुआ था। इसके बाद से वह परेशान था। गांव में चर्चा है कि हाल ही में पुलिस का वीडियो वायरल हुआ था, जिसमें महिला अफसर आरोपी को पिटाई लगा रही है। नल्यू को यह वीडियो किसी ने दिखाया, जिससे वह डर गया और फांसी लगा ली। हालांकि वीडियो देख आत्महत्या करने की बात सिर्फ चर्चा में है। पुलिस मामले को छानबीन कर रही है। शव पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है।

राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन 13 जुलाई को

रायबरेली। उत्तर प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, लखनऊ के निर्देशानुसार व मा0 जन्मद न्यायाधोश/अध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, रायबरेली तरण सम्मेलन के दिशा-निर्देशन में दिनांक 13 जुलाई 2024 को दीवानी न्यायालय, रायबरेली में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जा रहा है। अपर जिला जज/सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण अनुपम शौक के द्वारा बताया गया कि राष्ट्रीय लोक अदालत में व्यापक स्तर पर बैंचों से सम्बन्धित प्री-लिटिगेशन नोटिस, बीमा से सम्बन्धित मामले, राजस्व से संबंधित मामले, विद्युत से संबंधित मामले, जल से संबंधित मामले, सर्विस में वेतन एवं भत्ते से सम्बन्धित, श्रम से सम्बन्धित, मोटर दुर्घटना से सम्बन्धित, पारिवारिक मामले एवं अन्य छोटे-मामलों का निस्तारण किया जाएगा। लोक अदालत में निस्तारण हेतु किसी प्रकार का शुल्क देय नहीं है। लोक अदालत में निस्तारण होने पर निर्णय के विरुद्ध कोई अपील नहीं होती है तथा मामला अन्तिम रूप से निस्तारित हो जाता है। सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा बताया गया कि 13 जुलाई 2024 को आयोजित होने वाली राष्ट्रीय लोक अदालत में अधिक से अधिक वादों का निस्तारण कराये। राष्ट्रीय लोक अदालत के संबंध में अधिक जानकारी जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, रायबरेली के छजलापुर स्थित कार्यालय में किसी भी कार्य दिवस में उपस्थित होकर प्राप्त की जा सकती है।

रालोद खेल प्रकोष्ठ की महानगर कार्यकारिणी घोषित

सहारनपुर। राष्ट्रीय लोकदल खेल प्रकोष्ठ के महानगर अध्यक्ष अरविंद मलिक ने प्रदेश अध्यक्ष दीपक तोमर के निर्देश पर महानगर कमेटी की घोषणा करते हुए विवेक राणा को वरिष्ठ उपाध्यक्ष, मौ.आरिफको महासचिव बनाया है। सभी नवनि्युक्त पदाधिकारियों से पार्टी को और अधिक मजबूती प्रदान करने का आह्वान किया। हकीकत नगर राष्ट्रीय लोकदल कैम्प कार्यालय पर आयोजित मासिक बैठक में राष्ट्रीय लोकदल खेल प्रकोष्ठ के महानगर अध्यक्ष अरविंद मलिक ने मनोज मलिक, विपिन राठी, पपन कुमार, दीपक कुमार को सचिव बनाया है। साथ ही रूपेश कुमार, मौ.इकबाल, राजेश, सादाब को सदस्य बनाया है। रालोद खेल प्रकोष्ठ के राष्ट्रीय अध्यक्ष चौ.नीरपाल सिंह ने नवनि्युक्त पदाधिकारियों का स्वागत करते हुए,बधाई देते हुए कहा कि राष्ट्रीय लोकदल हर वर्ग की पार्टी है। रालोद में हर वर्ग का सम्मान है।हमारे नेता जयंत चौधरी जाति, धर्म से बहुत ऊपर उठकर राजनीति कर रहे हैं। बिना भेदभाव के सबको पद और सम्मान दे रहे हैं।पार्टी को और मजबूत करने के लिए हम सभी को मेहनत करनी होगी। उन्होंने कहा कि किसान, मजदूर, गरीब, महिलाओं और युवाओं का सम्मान रालोद में ही सुरक्षित है। इस दौरान रालोद अल्पसंख्यक के जिलाध्यक्ष शमीम अहमद, चौ.अरविंद मलिक, पवन कुमार, नीरज राणा, दीपक दियोल आदि उपस्थित रहे।

विरासत कॉरीडोर को और विकसित करें

सहारनपुर। नगरायुक्त/सीईओ स्मार्ट सिटी संजय चौहान ने विरासत कॉरीडोर को और अधिक विकसित करने पर जोर दिया। उन्होंने स्मार्ट सिटी अधिकारियों को बाबा लालदास बाड़ा आश्रम के प्रवेश द्वारों, पुनवारी आश्रम व हाजीशहाह कमाल आदि ऐतिहासिक स्थलों को विकटोरिया लाईट एवं फ्लाड लाईट लगाकर उनका सौंदर्यीकरण और संरक्षित करने के निर्देश दिए। उन्होंने घाट के आसपास नदी के किनारों पर उा आये घास व झाड़-झंखाड़ आदि को साफकराने के निर्देश अपर नगरायुक्त/उद्यान प्रभारी मृत्युंजय को दिए।

पोकलेन ड्राइवर को किया पुरस्कृत

सहारनपुर। नगरायुक्त संजय चौहान ने राकेश सिनेमा के निकट पुल के नीचे कूड़ा-कचरा एवं झाड़-झंखाड़ एकत्रित देख पहले उसे साफकराने के निर्देश दिए। नदी में उतरी पोकलेन के ड्राइवर खालिद ने नगरायुक्त के आदेशों का पालन करते हुए पोकलेन को घुमाकर एक ही झटके में सारा कचरा बाहर निकाल दिया। नगरायुक्त ने इस पर खुश होकर पोकलेन ड्राइवर खालिद को पांच सौ रुपये का नकद पुरस्कार देते हुए कहा कि यह कूड़ा उनकी नजर में खटक रहा था, लेकिन पोकलेन ड्राइवर ने बड़े सधे अंदाज में उसकी सफाई की है।

देशी पिस्टल के साथ एक आरोपी दबोचा

सहारनपुर।थाना कुतुबशेर पुलिस ने एक अभियुक्त को गिरफ्तार कर उसके कब्जे से एक देशी पिस्टल व जिंदा कारतूस बरामद किया है। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डॉ.विपिन ताड़ा के निर्देश पर अपराधियों की धरपकड़ को चलाये जा रहे अभियान के अंतर्गत थाना कुतुबशेर पुलिस ने मुखव्तर की सूचना पर एक शातिर बदमाश मोहसिन पुत्र मकसूद निवासी गांव तिसंग थाना झिंशाना जन्पद शामली को कुम्हारहेड़ा भट्टे के पास से गिरफ्तार किया है। जिसके कब्जे से एक देशी पिस्टल, एक जिंदा कारतूस व एक आल्टो गाड़ी बरामद हुयी है। पुलिस ने आरोपी का चालान काटकर जेल भेज दिया है।

कुशीनगर में 57.29% मतदान, नौ डीएम व एसपी ने परिवार के साथ किया मतदान, बूथों का किया निरीक्षण



मतदान के लिए कतार में खड़े मतदाता

अवधानामा ब्यूरो

कुशीनगर। लोकसभा चुनाव के सातवें व अंतिम चरण का मतदान शनिवार को शांतिपूर्ण माहौल में शाम छह बजे तक 57.29 फीसदी मत डालकर मतदाताओं ने नौ प्रत्याशियों के भाग्य ईवीएम में कैद कर दिया।

अब इन प्रत्याशियों के भाग्य का पिटारा 4 जून खुलेगा। इस बीच किस प्रत्याशी के सर जीत का सेहरा बंधेगा मतदाताओं में चर्च खूब हो रही है। बता दें कि कुशीनगर से भाजपा से विजय दूबे लगातार दुसरी बार चुनाव लड़ रहे हैं जहां गठबंधन प्रत्याशी से सीधी टक्कर है। बता दें कि कुशीनगर संसदीय क्षेत्र में शनिवार को सुबह सात बजे 2633 बूथों पर कड़ी सुरक्षा के बीच मतदान शुरू हुआ। इसमें कुल 57.29 फीसदी मतदाता अपने

मतदान स्थलों का डीएम व एसपी लेते रहे जायजा शांतिपूर्ण रहा मतदान

मतदानकर्मियों ने चुनाव सम्मान करने के बाद ली राहत की सांस

मताधिकार का प्रयोग किया जिसमें पुरुष-महिला के साथ थर्ड जेंडर शामिल हैं। विधान सभावार मतों पर नजर दौड़ाएं तो खड्डा विधानसभा में सर्वाधिक 60.18 प्रतिशत मतदाताओं ने वोट डाले हैं जबकि हाटा विधानसभा में 56.36 फीसदी कुशीनगर विधानसभा में 55.45 पड़रौना विधानसभा में 57.52 प्रतिशत व रामकोला विधानसभा में 55.93 फीसदी मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया है। कहना



मतदेय स्थलों का जायजा लेते डीएम व एसपी

सपा ने कुर्मी-सैथवार को साधने के लिए अजय प्रताप को मैदान में उतारा

सपा मुखिया अखिलेश यादव ने सैथवार अजय प्रताप सिंह को मैदान में उतारा है। सबसे यह है कि कुशीनगर क्षेत्र कुर्मी-सैथवार बहुल है। यहां कुर्मी-सैथवार समाज को साधने के लिए सपा ने गठबंधन से अजय को प्रत्याशी बनाकर भाजपा को घेरने की कोशिश की है। नतीजतन लडाईं आपने-सामने की है। भाजपा ने इसकी काट के लिए राज्यसभा सदस्य व पूर्व केंद्रीय गृह राज्यमंत्री आरपीएन सिंह को आगे किया है। अब देखना दिलचस्प होगा कि आरपीएन सिंह कुर्मी-सैथवार बिरादरी को भाजपा के पाले में करने में कितना सफल होते हैं।

न होगा कि वर्ष 2024 के लोकसभा चुनाव में कुल कुल प्रत्याशी चुनाव मैदान में हैं, जिसमें भाजपा से विजय कुमार दूबे, गठबंधन से सपा प्रत्याशी अजय प्रताप, बसपा से शुभ नारायण चौहान व राष्ट्रीय शोषित पार्टी से स्वामी प्रसाद मौर्य, सुभाषवादी भारतीय समाजवादी पार्टी से वेद प्रकाश मिश्रा, भारतीय लोकनायक पार्टी से सुनील शुक्ला, आजाद अधिकार सेना पार्टी से हरिकेश, निर्दल से अमीय उपाध्याय, निर्दल से रामचंद्र सिंह शामिल हैं। गौरतलब है कि कुशीनगर लोकसभा सीट पर जीत की हैटिक लगाने के लिए भाजपा ने वर्तमान सांसद विजय कुमार दूबे को लगातार दुसरी बार प्रत्याशी बनाया है। विजय दूबे से पहले वर्ष 2014 में राजेश पांडेय यहां से भाजपा के सांसद बने थे।

कुशीनगर। जिला निर्वाचन अधिकारी उमेश मिश्रा, पुलिस अधीक्षक धवल जायसवाल ने शनिवार को प्रातः नजदीकी मतदान केंद्र पर अपने परिवार के साथ मताधिकार का प्रयोग किया, तथा आमजन व मीडिया बंधुओं के माध्यम से समस्त जनपदवासियों से अपने मत का प्रयोग करने की अपील की, तत्पश्चात जनपद में हो रहे लोकसभा चुनाव को सफुल संभव करार जाने के दृष्टिगत भ्रमणशील रह कर विधानसभा गोखामी तुलसीदास इण्टरमीडिएट कालेज



अपने परिवार के साथ मतदान करने का बाद डीएम व एसपी

अवधानामा ब्यूरो

पड़रौना मतदान केंद्र का भ्रमण कर, शांति एवं कानून-व्यवस्था बनाए रखने हेतु संबंधित को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। इसी प्रकार राजकीय बालिका इण्टरमीडिएट कालेज पड़रौना उदित नारायण इण्टर कालेज पड़रौना में बने स्ट्रॉंग रूम का भ्रमण/निरीक्षण कर सुरक्षा व्यवस्था व जनसमूह को नियंत्रित करने के लिए सम्बन्धित को बैरिकेटिंग कर पर्याप्त पुलिस बल लगाने हेतु आवश्यक आदेश निर्देश दिए गए। बेसिक माडल स्कूल (पीओपी) हाटा मतदान केंद्र का भ्रमण कर, शांति एवं कानून-व्यवस्था बनाए रखने हेतु संबंधित को आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए।

तेज रफ्तार पिकअप अनियंत्रित होकर पलटी

कोशींबी अवधानामा संवाददाता। कड़ा घाम था ना क्षेत्र के गिरधरपुर गढ़ी के पास एक तेज रफ्तार पिकअप अनियंत्रित होकर पलट गई है लेकिन हादसे में पिकअप चालक बाल बाल बच गया है बताया जाता है कि हीरा कोल्ड स्टोर सैनी से बर्फ लादकर पिकअप चालक रावबरेली जा रहा था जैसे ही गिरधरपुर गढ़ी के पास पहुंचा अनियंत्रित होकर पिकअप पलट गई है वाहन के पलटने ही मौके पर लोगों के भीड़ लग गई मामले की सूचना पुलिस को दी गई है सूचना पाकर घटना स्थल में पुलिस भी पहुंच गई है हालांकि चालक को घोट नहीं आई है।



स्ट्रॉंग रूम का प्रेक्षक, डीएम व एसपी ने किया निरीक्षण

कुशीनगर। जिला निर्वाचन अधिकारी उमेश मिश्रा व पुलिस अधीक्षक कुशीनगर धवल जायसवाल द्वारा लोकसभा चुनाव-2024 के दृष्टिगत उदित नारायण इण्टर कालेज पड़रौना में बने स्ट्रॉंग रूम का भ्रमण/निरीक्षण कर सुरक्षा व्यवस्था व जनसमूह को नियंत्रित करने के लिए सम्बन्धित को बैरिकेटिंग कर पर्याप्त पुलिस बल लगाने हेतु आवश्यक आदेश निर्देश दिए गए। इस दौरान अपर जिलाधिकारी कुशीनगर वैभव मिश्रा, अपर पुलिस अधीक्षक कुशीनगर श्री रिदेश कुमार सिंह सहित अन्य अधिकारी/कर्मचारीगण मौजूद रहे।

बुजुर्गों का सहारा बने मतदानकर्मियों- लोकसभा चुनाव के मतदान के दौरान प्रार्थमिक विद्यालय लीलाधर छात्रा बृथ संख्या 105 थाना नेबुआ नौरंगिया जनपद कुशीनगर पर पुलिस कर्मियों ने मानवता और ड्यूटी के धर्म की मिसाल पेश करते हुए पुलिसकर्मियों ने बुजुर्ग महिला का सहारा बनकर उन्हें बूथ तक पहुंचाया गया। इस सहायकीय कार्य के लिए एक महिला ने जगदल कुशीनगर पुलिस को धन्यवाद ज्ञापित किया।

पॉलिसी धारकों को मद्दग पीला करके स्वागत हुआ



लखनऊ अवधानामा संवाददाता। भारतीय जीवन बीमा निगम आशियाना लखनऊ के एजेंट एसोसिएशन के पदाधिकारी कार्यालय में पॉलिसी धारकों को मद्दग पीला करके स्वागत किया गया। भारतीय मानवाधिकार परिवार के सदस्य केके श्रीवास्तव ने सूचना दी। केके श्रीवास्तव ने बताया कि एजेंट एसोसिएशन के पदाधिकारी साथ में मौजूद रहे जिनका नाम आरती सिंह, यशोदा, नंदन जायसवाल, सुनील राय, पीयूष बाजपेई, अरुण शुक्ला, प्रभा शोडे, मनीष श्रीवास्तव, आकाश विक्रम सिंह, गौरव मालवीय, सोनकर गुप्ता, पी सख्खा साथ में एजेंट सभी भाई सभिमिलित रहे इस भीषण गर्मी में नौतपा चल रहा है।

गणना कार्मिक गर्मी की चुनौती के साथ मतगणना सम्बन्धी दायित्वों का निर्वहन बेहतर ढंग से निष्पक्षता के साथ करें

मैनपुरी अवधानामा संवाददाता। प्रगारी अधिकारी कार्मिक, मुख्य विकास अधिकारी नेहा बंधु ने कलेक्ट्रेट सभागार में लोकसभा सामान्य निर्वाचन-24 की मतगणना को सम्भर करने के लिए तैनात कार्मिकों के द्वितीय प्रशिक्षण को सम्बोधित करते हुए कहा कि आप सबके सामने निर्वाचन की अंतिम प्रक्रिया को निष्पक्ष, शांतिपूर्ण एवं जूटिहित सम्भर करने की जिम्मेदारी है, आप सब इस जिम्मेदारी को बखूबी निभाएं, कलेक्ट्रेट जूटि से परिणाम वोट कटते समय सावधानी बरतें, प्राप्त मतों के अंकन में गलती से भी गलती न हो, सभी गणना पर्यवेक्षक, गणना सहायक सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा कि परिणाम बटन दबाकर वोटों की गिनती का डिस्टेन्स इससे पूर्व 17-सी के भाग-गण में सावधानी से अंकित करें साथ ही मौजूद गणना एजेंट को भी दिखाएं, मतगणना सम्बन्धी उपलब्ध कथये गये प्रारूप के समस्त कॉलम स्पष्ट शब्दों में साफ-साफ भरे जाएं, प्रत्येक गणना शीट पर गणना सुपरवाइजर के स्पष्ट हस्ताक्षर अनिवार्य हैं इसलिए सभी गणना सुपरवाइजर इसका विशेष ध्यान रखें, मतगणना समाप्ति के उपरान्त मतगणना कार्मिक सहायक रिटर्निंग अधिकारी से अनुमति प्राप्त करने के पश्चात ही गणना परिसर छोड़ें।

सूचना

परमजीत सिंह पुत्र गुरुबचन सिंह नि. गुरुद्वारा रोड, कुतुबशेर, स. पुर मो.नं. 9837101534 ने थाना को सूचना दी कि संपत्ति स्थित घरामी मण्डी, गुरुद्वारा रोड के मूल बैनामा सं.953 दि. 21.01.1969 जो श्रीमती मुन्नी देवी पत्नी स्व.रामप्रसाद ने सरदार गुरुबचन सिंह पुत्र स.बुद्ध सिंह के पक्ष में किया था का अन्तिम पेज गुम हो गया है काफ़ी ढूँढ नहीं मिली यदि मिले तो संपर्क करें ट.पंकज सिंह एड.141, सिविल कोर्ट, सहारनपुर.मो.9675983535

सूचना

इत्तिलानामा दरखास्त हुसूल हुसूल मुशहर मन्सूरी डिस्मिस नालिश (आर्डर 9 कायदा 9) अदालत सिविल जज सीनियर डिविजन सहारनपुर। प्र. वाद सं. 82 सन 2023 जनेश्वर प्रसाद आदि बनाम नमेश्वर प्रसाद आदि बनाम विकास, एलआईसी दम्बर के पास श्रद्धिकेश उत्तराखंड मोबाइल नम्बर 9719764545, 7895454511 हरगह मुददाअलेह मजकूरूससदर ने इस अदालत में दरखास्त हुसूल हुसूल मुशहर मन्सूरी डिडी एक तरफा मुवरिखा जो मुकदमा मजकूरूससदर में सादिर हो चुकी है पेश की है। लिहाजा आपको इतला दी जाती है कि आप इस अदालत में तारीख 3 माह 7 सन 2024 असासलतन या बजरीये वकील अदालत हाजा या बजरीये मुख्तार मजाज हरब जाब्ता और वाकिफ हाल मुकदमा के हाजिर वजह (अगर कोई हो) जाहिर करे कि नाम व बुद वही की दरखास्त वयों न मजूर की जाये। आज दिनांक 31 माह 5 सन 2024 ई0 को जारी किया गया।

आज्ञा से मुसरिम सिविल जज सीनियर डिवीजन, सहारनपुर।

सूचना

अदालत मा.सिविल जज सीनियर डिविजन सहारनपुर। प्र. वाद सं. 99 सन 2024। कन्वूटर स. 282 सन 2024 श्रीमति रेनु पत्नी स्व। राजेश सिंह 2 कु. आरुणियायु 14 वर्ष पुत्री स्व.राजेश सिंह द्वारा सभी माता वा कुदरती संरक्षिका रेनु पत्नी राजेश सिंह नि.मकान सभ 75 आई टी रोड गवालिया, सहारनपुर आवेदक... (बनाम) 1 दिनेश पुत्र स्व. अमर सिंह 2 योगेश पुत्र स्व. अमर सिंह नि. आई टी रोड, गवालिया, सहारनपुर 3- आम जनता विपक्षीगण, दरखास्त मुसुमा रेनु आदि वास्ते हुसूल सटीफिकेट वसूल कर किफायत द्वारा दरखास्त मुसुमा रेनु मुतवाफन श्रीमती लीलावती व अमर सिंह अपने बसूजिव ऐक्ट 7 सन 1889 ई0 बीच उक्त ने दरखास्त हुसूल सटीफिकेट गुजरानी है और तारीख 22 माह 07 सन 2024 ई0 वास्ते समाअत दरखास्त के मुकरर हुई है। लिहाजा यह इहार जारी किया जाता है जिस किसी ने अस्थाय दरखास्त के उज हो या असासलतन वा वतन वा बजे सुबह अदालत सिविल जज सीनियर डिविजन सहारनपुर कतारीख मुकरर हाजिर होकर अपना पेश करे। रसूया इनकजाय तारीख मजकूर के फिर उछ किसी का गुना न जायेगा। हाजिर हुसूल मुनासिब निरस्य दरखास्त मजकूर से सादिर होगा। आज 30 मई 2024 को जारी किया।

आज्ञा से मुसरिम

लोकतंत्र का महापर्व:

सातवें चरण में आठ राज्यों की 57 सीटों पर मतदान करने वालों की झलकियां कैमरे में कैद



सातवें चरण में कुशीनगर के मतदान के झलकियां



बूथ संख्या 347 प्राथमिक विद्यालय गडहिया पाठक तमकुही लोकसभा क्षेत्र देवरिया पर विधायक पी एन पाठक ने अपनी मां के साथ वोट किया



हाटा के बूथ संख्या 273 पर अपने परिवार के साथ मतदान करने बाद हाटा विधायक मोहन वर्मा



व्हील चेयर से मतदान केंद्र वोट डालने जाते बुजुर्ग

संवेदनशील और अति संवेदन बूथों पर रही कड़ी चौकसी

अवधानामा ब्यूरो

कुशीनगर। जिले के 161 संवेदनशील और 52 अति संवेदनशील बूथों पर कड़ी चौकसी रही। यहां सुरक्षा की जिम्मेदारी पैरामिलिट्री फोर्स पर है। 20 कनपी सीपीएमएफ, सीआईएसएफ व पंजाब पुलिस के जवान तैनात किए गए हैं। इसके अलावा पुलिस की ओर से क्यूआरटी भी भ्रमण पर रहे। मतदान



के दौरान भ्रमणशील रहे सेक्टर व जोनल मजिस्ट्रेट: मतदान के दौरान 17 जोनल मजिस्ट्रेट, 217 सेक्टर मजिस्ट्रेट तैनात किए गए थे। 21

संवेदनशील और अति संवेदन बूथों पर रही कड़ी चौकसी

सेक्टर मजिस्ट्रेट और सात जोनल मजिस्ट्रेट रिजर्व में रहे। आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन संबंधी शिकायतें सी-वीजिल पर दर्ज करा सकते थे। सभी जोनल एवं सेक्टर मजिस्ट्रेटों को अपने जोन एवं सेक्टर में भ्रमणशील रहे।

बस स्टेशन परिसर में लगा शीतल फिल्टर पेयजल मशीन खराब

यात्रियों को गर्मी में पेयजल के लिए हो रही है परेशानी

अवधनामा संवाददाता

डुमरियागंज सिद्धार्थनगर। डुमरियागंज रोडवेज बस स्टेशन पर यात्रियों को शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराने के उद्देश्य से नगर पंचायत डुमरियागंज द्वारा लगभग दो वर्ष पूर्व लगाया गया शीतल फिल्टर पेयजल मशीन लगभग डेढ़ वर्षों से खराब पड़ा हुआ है। जिसके चलते यात्रियों को इस भीषण गर्मी में शुद्ध पेयजल के लिए परेशान होना पड़ रहा है। नगर पंचायत डुमरियागंज द्वारा यात्रियों की सुविधा के लिए बस स्टेशन डुमरियागंज के परिसर में शीतल फिल्टर पेयजल मशीन लगाया गया था। यात्रियों को शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराने के उद्देश्य से स्थापित उक्त फिल्टर मशीन लगने के कुछ महीने बाद ही खराब हो गया। लेकिन नगर पंचायत प्रशासन द्वारा उसे अब तक ठीक नहीं कराया गया है। जिसके कारण इस भीषण गर्मी में यात्रियों को पेयजल के लिए इधर-उधर



भटकना पड़ रहा है। जिससे यात्रियों में आक्रोश व्याप्त है। दर्जनों बार लोगों द्वारा इसकी शिकायत नगर पंचायत प्रशासन से की गयी। लेकिन फिर भी उक्त खराब पड़ी मशीन को ठीक नहीं कराया गया। जिसके कारण लोगों को इस भीषण गर्मी में शुद्ध पेयजल के लिए तरसना पड़ रहा है। स्थानीय लोगों में ताज मोहम्मद, अजय कुमार, हमीदुल्लाह, विजय कुमार, फिरोज खान आदि लोगों ने मशीन को ठीक कराये जाने की मांग की है।

पार्टी के नेताओं एवं कार्यकर्ताओं की मेहनत एवं जनता के सहयोग से होगी भारी जीत: अनूप

अवधनामा संवाददाता

सिद्धार्थनगर। मुख्यालय स्थित सपा जिला कार्यालय पर जिला कार्य समिति की मासिक बैठक शनिवार को पार्टी के वरिष्ठ जिला उपाध्यक्ष अनूप कुमार यादव की अध्यक्षता में संपन्न हुई। बैठक में 4 जून दिन मंगलवार को मतगणना के दिन मतगणना स्थल पर समाजवादी पार्टी के सभी नेताओं एवं कार्यकर्ताओं को मतगणना स्थल पर उपस्थित रहने के लिए निर्देशित किया गया। बैठक की अध्यक्षता कर रहे अनूप यादव ने कहा कि लोकसभा क्षेत्र डुमरियागंज से हम अपने इंडिया गठबंधन तथा समाजवादी पार्टी के नेताओं एवं कार्यकर्ताओं की मेहनत एवं जनता के सहयोग से भारी जीत दर्ज करेंगे पूरे देश एवं प्रदेश में परिवर्तन की लहर चल रही है जनता ने इंडिया गठबंधन तथा समाजवादी पार्टी



के प्रत्याशियों को एक तरफा वोट देकर इंडिया गठबंधन के पक्ष में अपना समर्थन दिया है। जनता ने हमारे घोषणा पत्र तथा हमारे नेताओं पर विश्वास करते हुए देश और संविधान बचाने के चुनाव में अपना समर्थन दिया है। इस जन विरोधी सरकार का सफाया तय है। राष्ट्रीय महासचिव महिला सभा चमन आरा रायनी ने

जनता ने एक तरफा हमारे प्रत्याशी को भारी समर्थन देकर हमारी जीत को कर दिया है सुनिश्चित : चमन आरा

मतगणना स्थल के आसपास अपने सहयोगियों के साथ मौजूद रहे। बैठक का संचालन जिला प्रवक्ता/ जिला सचिव अब्दुल कलाम सिद्दीकी ने किया। प्रदेश सचिव राममिलन भारती, चंद्रमणि यादव, मोहम्मद इदरीश पटवारी, सोनू यादव, चंद्रजीत यादव, जोखन चौधरी, रमजान अली, बृजभान यादव, सर्व देव यादव, चंद्रहास यादव, दिनेश यादव, लवकुश, लव कुश सहानी, राकेश यादव, अनिल यादव, अतीकुर्रहमान खान, नीरज चौरसिया, मोइनुद्दीन, चंचल यादव, राधेश्याम जयसवाल आदि उपस्थित थे।

टीन सेड पर जूट का बोरा डालने के साथ ही शाम को पशुओं को नहलाएं पशु सेवक: आलोक दत्त उपाध्यक्ष

अवधनामा संवाददाता

डुमरियागंज सिद्धार्थनगर। तेज धूप व गर्मी को देखते हुए गोशाला के टीन सेड पर जूट का डालने, साथ ही शाम को गोवर्षियों को नहलाएं पशु सेवक। यह बातें खंड विकास अधिकारी भनवापुर आलोक दत्त उपाध्यक्ष ने क्षेत्र के गोशालाओं का निरीक्षण के दौरान प्रधान व पशु सेवकों को निर्देशित करते हुए कहा। खंड विकास अधिकारी भनवापुर आलोक दत्त उपाध्यक्ष ने ब्लाक क्षेत्र के बिजौरा, नावडीह व मधुकरपुर चौबे गांव में स्थित गोआश्रय केंद्रों का निरीक्षण किया।



जिससे वह अपनी प्यास बुझा सके। गर्मी के दौरान किसी पशु को को समस्या हो तो तत्काल प्रभावी पशु चिकित्साधिकारी भनवापुर या हमें सूचित करें जिससे तत्काल उक्त पशुओं को चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराया जा सके। इसी क्रम में एडीओ पंचायत संजय पटेल ने बभनी, जीवाराई व परसोहिया तिवारी गोशाला का एपीओ अब्दुल क्युम ने रमवापुर राउत गोशाला तथा महलिनिया खुर्द, कटौतिया गोकुल व तरहर गोशाला का निरीक्षण एडीओ आईएम्बी सुनील

कुमार ने निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान उपस्थित प्रधान, सचिव के साथ ही, पशु सेवकों को निरंतर पशुओं को गर्मी व लू से बचाव के लिए दिए गये निर्देशों के पालन कर समस्या होने पर तुरंत पशु चिकित्साधिकारी या बीडीओ भनवापुर को सूचित करने को कहा, साथ ही किसी गोशाला में लापरवाही पाए जाने पर संबंधित के खिलाफ कार्रवाई की चेतावनी भी दी। इस दौरान राउत गोशाला तथा महलिनिया खुर्द, रवींद्र यादव, श्याम बहादुर यादव, धीरेंद्र यादव आदि उपस्थित रहे।

गैर इरादतन हत्या के पांच आरोपितों को भेजा न्यायालय



बढ़नी सिद्धार्थनगर अवधनामा संवाददाता। डेब्रूआ थानाक्षेत्र के गडरखा में बुधवार की रात रंजित को लेकर दो पक्षों में हुई मारपीट के दौरान गंभीर रूप से घायल वर्षीय अब्दुल मजीद पुत्र हदीस (45) वर्ष की मेडिकल कालेज में इलाज के दौरान शुक्रवार को मौत हो जाने के मामले में पुलिस ने कार्यवाही करते हुए गैर इरादतन हत्या के पांच आरोपितों को आज गिरफ्तार कर न्यायालय भेज दिया गया। थानाध्यक्ष डेब्रूआ शशांक सिंह ने बताया कि डेब्रूआ पुलिस टीम द्वारा शनिवार को थाना स्थानीय पर पंजीकृत मु0अ0सं0 94/2024 धारा 147,148,149, 323, 504, 506, 452, 304 भा0द0वि0 से संबंधित रविंद्र पुत्र रामदीन, पंकज पुत्र रामदीन, जगदीश पुत्र रामकिशुन, आशीष पुत्र सुमिरन, हेरेंद्र पुत्र रामदीन निवासी गण गडरखा थाना डेब्रूआ को आला-कल्ल चार अदद अदद लाठी व एक अदद लोहे की राड के साथ गिरफ्तार माननीय न्यायालय भेज दिया गया है। गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम में थानाध्यक्ष डेब्रूआ शशांक सिंह, उ0नि0 योगेश कुमार मणि, चन्द्र प्रताप सिंह, हे0का0 हेमराज वर्मा, का0 दिलीप, सौरभ सिंह, अनिल कुमार, अजय यादव आदि मौजूद रहे।

अधीक्षक ने टीकाकरण सत्र का किया निरीक्षण

अवधनामा संवाददाता

डुमरियागंज सिद्धार्थनगर। भनवापुर क्षेत्र के रमवापुर उर्फ नेबुआ में शनिवार को अधीक्षक सीएचसी सिरसिया डॉ.शैलेंद्र मणि ओझा के द्वारा छाया एकीकृत टीकाकरण सत्र स्थल का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान स्वयं डॉ.ओझा ने टीकाकरण सत्र पर सेवा देने वाली एएनएम उर्मिला के कार्यों के सत्यापन हेतु डियू गर्भवती महिला प्रीति 23 वर्ष, सरिता 25 वर्ष, इंद्रावती 26 वर्ष, पतिला 31 वर्ष तथा रेनु देवी 22 वर्ष का रकचाप, हीमोग्लोबिन, वजन, पेट आदि का जांच करते हुए एएनएम के कार्य को क्रॉस चेक किया गया तथा सेवाओं के विषय में महिलाओं से साक्षात्कार किया, कार्य सही पाए जाने पर अधीक्षक ने एएनएम उर्मिला को तारीफ करते हुए आगे भी नियमानुसार कार्य करने के लिए निर्देशित किया। डॉ.ओझा ने नागेंद्र कुमार, ध्रुवचंद्र तथा आशा बहू शिव कुमारी के साथ ग्राम वासियों को टीकाकरण तथा प्रसव पूर्व समय से



बच्चों और गर्भवती को सभी स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदान किया जाए और टीकाकरण से कोई भी लाभार्थी वंचित न रहे : डॉ. शैलेंद्र

भनवापुर ब्लॉक के रमवापुर उर्फ नेबुआ में आयोजित टीकाकरण सत्र पर पहुंचे डॉ. शैलेंद्र मणि ओझा

औचक निरीक्षण के दौरान अधीक्षक ने किया एएनएम के कार्य का सत्यापन किया

सभी जांचें करने के लिए जागरूक किया। उन्होंने बताया कि बच्चों और गर्भवती महिलाओं को सभी स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदान किया जाए और टीकाकरण से कोई भी लाभार्थी वंचित न रहे। इस दौरान आंगनवाड़ी तथा टीकाकरण के एक दिन पूर्व ड्यू लिस्ट बनाकर बुलावा पर्ची वितरण के लिए आदेशित किया गया।

एक बार फिर प्रचंड बहुमत वाली मोदी सरकार बननी तय: योगी

सातवें चरण के चुनाव में वोट डालने के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का दावा

अवधनामा संवाददाता

गोरखपुर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि देश की जनता जनार्दन के प्रबल समर्थन और आशीर्वाद से 4 जून को जब लोकसभा चुनाव के अलग अलग चरणों में हुए मतदान का फैसला आया तो एक बार फिर प्रचंड बहुमत से मोदी सरकार बननी तय है।



जनता ने विकसित और आत्मनिर्भर भारत के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रति विश्वास व्यक्त करते हुए भारतीय जनता पार्टी को भरपूर आशीर्वाद दिया है। लोकसभा चुनाव के अंतिम चरण में शनिवार सुबह मतदान करने के बाद पत्रकारों से बातचीत करते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि लोकतंत्र के महापर्व लोकसभा चुनाव 2024 के अंतिम चरण का चुनाव आज देश के 8 राज्यों की 57 सीटों पर हो रहा है। इसमें

उत्तर प्रदेश समेत पूरे देश में जनता जनार्दन ने भाजपा व मोदी जी को दिया है भरपूर समर्थन और आशीर्वाद : सीएम

ध्यान में रखते हुए कहा जा सकता है कि 4 जून को जब जनता जनार्दन का फैसला आया तो देश के अंदर आत्मनिर्भर भारत, विकसित भारत, विभासत भी-विकास भी, गरीबों के प्रति संवेदना भी और युवा पीढ़ी के उज्वल भविष्य के लिए जिन लोगों ने, जिन पार्टियों ने, जिन सरकारों ने काम किया है, उनको जनता का पूरा आशीर्वाद प्राप्त हो रहा है। जनता को यह सुखद अनुभूति होगी देश में मोदी जी एक बार फिर से प्रचंड बहुमत के साथ सरकार बनाएंगे और उत्तर प्रदेश इसमें अपनी भूमिका का पूरी मजबूती से निर्वहन करेंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि सभी लोगों ने 10

वर्षों में बदलते हुए भारत को तथा पिछले 7 वर्षों में डबल इंजन की सरकार में नए उत्तर प्रदेश का दर्शन किया है। यहां युवाओं के लिए, किसानों के लिए, व्यापारियों के लिए, महिलाओं के लिए और समाज के हर तबके के लिए सुस्था, सम्मान और विकास की भावना से जो कार्य मोदी जी के नेतृत्व में हुआ है, उससे जनता का आशीर्वाद मोदी जी को भारतीय जनता पार्टी को पूरे प्रदेश के अंदर देश के अंदर प्राप्त हुआ है और हो रहा है।

सीएम योगी ने प्रतिकूल मौसम के बावजूद मतदाताओं के उत्साह के लिए हृदय से उनका आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि इस समय तामाम 50 डिग्री का आसपास जा रहा है। इसके बावजूद मतदान के लिए जनता का उत्साह कम नहीं रहा। बल्कि जनता ने और आगे बढ़कर लोकतंत्र को मजबूत करने में अपना योगदान दिया है। सीएम ने कहा कि 50 डिग्री का टेंपरेचर कभी यहां लोगों ने नहीं देखा। प्रकृति परीक्षा ले रही है। प्रकृति की इस परीक्षा में हम सबको खरा उतरना होगा। जनता जनार्दन को अपने आप को साबित करना होगा कि अग्नि परीक्षा के इस दौर में हम लोकतंत्र को और मजबूत करेंगे। उन्होंने कहा कि हालांकि आज सातवें चरण के मतदान के दिन प्रातः काल मौसम बहुत सुहावना हो गया है। मतदाताओं से अपील है कि सुहावने मौसम का किन्दा लेकर मतदान करें। सीएम ने कहा कि जाति, मत महजब से ऊपर उठकर विकसित और आत्मनिर्भर भारत की संरचनाओं को साकार करने के लिए, आगामी तीन वर्षों में देश को दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनाने के लिए, सभी नागरिकों के जीवन में खुशहाली लाने के लिए जनता जनार्दन का आशीर्वाद मोदी जी और भाजपा को प्राप्त हो रहा है।

हजूर रईसुल औलिया का 40वां कुल शरीफ साहिबे सज्जाद सरकार गुलज़ार ए मिह्त की सरपरस्ती में एअनिकाद हुआ



लखनऊ अवधनामा संवाददाता। शैखुल मशाएख आरिफे बिल्लाह रईसुल औलिया हजरत अल्लामा मौलाना अल्हाज सय्यद शाह हबीब अहमद वास्ती कादरी रज्जुकी इस्माईली जैदी हुसैनी रज्जी अल्लहु तआला अन्हु का 40 वां उर्स ए पाक औलिया मस्जिद में साहिब ए सज्जादा मखदुसुल मशाएख वारिस ए जुब्बा ए मौला ए कायनात सरकार गुलज़ार ए मिह्त की सरपरस्ती में एअनिकाद हुआ नमाज़ ए अख की अदायेगी के बाद सरकार गुलज़ार ए मिह्त ने मशाएख मसौली शरीफ की बारागांहुल गण पोशी की रसम अदा फरमाई फिर सरकार गुलज़ार ए मिह्त ने मश्रिब की नमाज़ की इमामत फरमाई बाद ए नमाज़ ए मश्रिब मद्दाहाने रसूल ए अकरम ने बड़े अच्छे अंदाज़ में सरकार आला हजरत के नातिया दीवान से कलाम पेश किए। फिर साहिब ए सज्जादा सरकार गुलज़ार ए मिह्त ने कुल शरीफ का आगाज़ फरमाया और साहिबे सज्जादा मखदुसुल मशाएख सरकार गुलज़ार ए मिह्त की की दुआ पर महफिल का एखतिमाम हुआ और इस हसीन मौके पर कसरी तादाद में अवामे अहले सुन्नत ने शिकत फरमा कर साहिबे उर्स के फेज़ान से मालामाल हुए।

शॉर्ट सर्किट से परचून की दुकान में लगी आग

फर्रुखाबाद। थाना कादरीगट क्षेत्र में शहर के नकसा रोड पर रहल गट्टे की जर्मल स्टोर की दुकान है। रात करीब 10 बजे रहल गट्टे दुकान बंद करके घर चला। तभी रात लगभग रात साढ़े 11 बजे शॉर्ट सर्किट से जर्मल स्टोर की दुकान में आग की लपटें निकलते देखकर दुकान मालिक को सूचना दी। इसके बाद दुकान मालिक मौके पर पहुंचा तो जर्मल स्टोर की दुकान धू-धू कर जल रही थी। सूचना कुछ समय बाद फायर ब्रिगेड की गाड़ी भी मौके पर पहुंच गयी। स्थानीय लोगों ने व फायर ब्रिगेड की गाड़ी ने कड़ी मशकत के बाद आग पर काबू पाया। पड़ोसी दुकान मालिक के मामा के पुत्र ने बताया कि बुआ के पुत्र की जर्मल स्टोर की दुकान थी। शॉर्ट सर्किट से आग लगी थी, लगभग 10 लाख रुपये का सामान जलकर राख हो गया है। थाना कादरीगट थानाध्यक्ष अवध नारायण पांडेय भी पुलिस बल के साथ मौके पर छटे रहे। देखने वालों की भीड़ लगी रही। पड़ोसी दुकानदार संजय मिश्रा और कन्हैया ने आग की आशंका से अपनी दुकानों से समान निकालकर बाहर कर लिया।

ज़िला निर्वाचन अधिकारी ने मतगणना स्थल का किया निरीक्षण

अवधनामा संवाददाता

अंबेडकरनगर। जिला निर्वाचन अधिकारी अविनाश सिंह द्वारा मतगणना 04 जून 2024 को सकुशल संपन्न करने के दृष्टिगत मतगणना स्थल राजकीय इंजीनियरिंग कॉलेज अकबरपुर का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान उप जिला निर्वाचन अधिकारी डॉ सदानंद गुप्ता, विधानसभा अकबरपुर, कटेहरी, टांडा, आलापुर, जलालपुर के सहायक रिटर्निंग ऑफिसर मौके पर उपस्थित रहे। जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा प्रत्येक विधानसभा के मतगणना स्थल का निरीक्षण किया गया तथा आवश्यक सुविधाओं के लिए संबंधित विभाग के अधिकारियों को निर्देशित किया गया।

भीषण गर्मी को देखते हुए जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा मुख्य चिकित्सा अधिकारी को निर्देशित किया गया कि प्रत्येक प्लेजर पर एक अस्थाई अस्पताल स्थापित किया जाए साथ ही साथ हर विधानसभा के मतगणना स्थल पर चिकित्सक नियुक्त किया जाए। निरीक्षण के दौरान जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा अधीक्षण अभियंता विद्युत को निर्देशित किया गया कि मतगणना के दौरान निर्वाह विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित किया जाए, साथ ही साथ प्रत्येक विधानसभा वार अधिकारियों की ड्यूटी लगाकर विद्युत

संबंधित समस्त व्यवस्थाओं को सुनिश्चित किया जाए। जिससे सुचारू रूप से मतगणना संपन्न कराया जा सके। जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा आलापुर विधानसभा के मतगणना स्थल हाल की वातानुकूलित व्यवस्था देखकर संपन्नता व्यक्त की गई। जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा पीने के पानी, छाया सहित अन्य आवश्यक आवश्यकताओं के लिए संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया गया। जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा मीडिया गैलरी का भी निरीक्षण किया गया और वहां की व्यवस्थाओं के लिए आवश्यक दिशा निर्देश दिया गया गर्मी को देखते हुए सभी स्थानों पर कूलर, एअरकॉन्डिशनर लगाए हेतु निर्देशित किया गया। निरीक्षण के दौरान जिला निर्वाचन अधिकारी तथा पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा निर्देशित किया गया कि भीड़भाड़ वाले स्थान पर मिस्ट फैन(हवा के साथ पानी फेकना) छत एवं दीवारों पर पानी डालने की व्यवस्था की जाए तथा गर्मी से बचाव हेतु टंडा पानी और ओआरएस घोल की व्यवस्था की जाए। निरीक्षण के दौरान मौके पर उप जिला निर्वाचन अधिकारी डॉ. सदानंद गुप्ता, मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉ. राजकुमार, अधीक्षण अभियंता विद्युत, अधिशाषी अभियंता प्रांतीय खंड लोक निर्माण विभाग, अपर पुलिस अधीक्षक, जिला सूचना अधिकारी तथा अन्य अधिकारी/कर्मचारी मौके पर उपस्थित रहे।

शीतल जल व इलोकट्रोल का किया गया वितरण



अम्बेडकरनगर अवधनामा संवाददाता। नौतपा के दौरान गर्मी के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए आम जनमानस को क्षमण के दौरान भीषण गर्मी से राहत प्रदान करने हेतु जरूरत मंद लोगों को इलेक्ट्रोल व पानी का वितरण किया गया साथ ही गर्मी से बचने के उपाय भी बताए गए। किसी प्रकार की समस्या होने पर तत्काल पुलिस को सूचना देने हेतु बताया गया मीडिया से चर्चा करते हुए एस ओ शिवांगी त्रिपाठी ने बताया कि अम्बेडकर नगर जिले में भी पानी 46 डिग्री को छू रहा है. ऐसे में भीषण गर्मी में आमजन को राहत देने हेतु मालीपुर पुलिस द्वारा शुभारंभ किया गया है।

मालीपुर पुलिस ने वांछित अभियुक्त को किया गिरफ्तार



अम्बेडकरनगर अवधनामा संवाददाता। जनपद थाना मालीपुर द्वारा लगातार गिरफ्तारी जारी। जनपद के थाना मालीपुर पुलिस टीम द्वारा 01 वांछित अभियुक्त को गिरफ्तार कर मा न्यायालय भेजा गया। पुलिस अधीक्षक डॉ0 कोस्तुभ द्वारा अपराध तथा अपराधियों पर प्रभावी अंकुश लगाये जाने के लिये चलाये जा रहे अभियान के क्रम में पुलिस के मुताबिक अपर पुलिस अधीक्षक (पूर्वी) तथा क्षेत्राधिकारी जलालपुर महोदय के कुशल पर्यक्षण में थानाध्यक्ष शिवांगी त्रिपाठी थाना मालीपुर के नेतृत्व में दिनांक 31.05.2024 को समय 11.55 बजे दौरान क्षेत्र क्षमण मुखबीर खास की सूचना पर उ0नि0 विनोद कुमार पाण्डेय द्वारा स्थान खजुरी रेलवे क्रासिंग से पहले मु0अ0सं0 137/2024 धारा 323/504/506/452/354 भादवि व 7/8 पावसो एक्ट से सम्बन्धित वांछित अभियुक्त शेरबहादुर निषाद पुत्र राधेश्याम निषाद नि0आम सेरपुर उमरन थाना मालीपुर उम करीब 24 घंटे को 15 साल की लड़की से जबरदस्ती बात करने के लिए परेशान करता था तथा कई बार दबाव भी बना चुका था 24 घंटे के अंदर गिरफ्तारी रिमांड लेकर जेल भेजा गया।

मतगणना से सम्बन्धित किसी सूचना एवं शिकायत हेतु कन्ट्रोल रूम संचालित

सिद्धार्थनगर अवधनामा संवाददाता। भारत निर्वाचन आयोग द्वारा प्रकाशित आर ओ हेल्पडुक के पैरा 15.5.2 में मतगणना से 72 घण्टे पूर्व जिला निर्वाचन अधिकारी कार्यालय में मतगणना से सम्बन्धित किसी सूचना एवं शिकायत को प्राप्त करने हेतु कन्ट्रोल रूम संचालित किये जाने के निर्देश के अनुपालन में लोक सभा सामान्य निर्वाचन-2024 के अन्तर्गत लोक सभा क्षेत्र 60- डुमरियागंज की मतगणना सकुशल संपन्न कराने हेतु जनपद के विकास भवन स्थित सभागार में कन्ट्रोल रूम (24म7 घण्टे) संचालित है, जिसका टेलीफोन नम्बर 05544-220006 एवं हेल्पलाईन नं0 1950 है। उक्त कन्ट्रोल रूम पर मतगणना से सम्बन्धित से कोई भी सूचना / शिकायत उपलब्ध करायी जा सकती है। इसके अतिरिक्त अन्य किसी भी तरह की जानकारी ली जा सकती है। उक्त आशय की जानकारी प्रभावी अधिकारी कंट्रोल रूम भी एस यादव द्वारा दिया गया है।

भयावह है यह गर्मी-लू

तमतामती गर्मी और भीषण लू की चपेट में आधा भारत है, लिहाजा मौसम भयावह हो गया है। करीब 50 शहरों में तापमान 46-47 डिग्री सेल्सियस को पार कर चुका है। राजधानी दिल्ली में कुछ इलाके ऐसे हैं, जहां पारा 48 डिग्री तक पहुंच गया है। राजधानी क्षेत्र गुरुग्राम, फरीदाबाद, नोएडा में भी तापमान करीब 47 डिग्री सेल्सियस रहा है। राजस्थान के फलोदी में लगातार तीसरे दिन तापमान 49 डिग्री को पार कर गया। यह देश का सबसे ज्यादा गरम इलाका रहा। ये सामान्य तापमान नहीं है, क्योंकि एक हद के बाद गर्मी और लू के ये थपेड़े जानलेवा साबित हो सकते हैं। देश में एक तरफ चिलचिलाती गर्मी है, तो दूसरी ओर पश्चिमी तट पर 'रेलम तुफान' ने थपेड़े मारते हुए बहुत कुछ बर्बाद किया है। कई जगहों में भी गर्मी है। तेज हवाएं चल रही हैं और खूब बारिश का आलम है। यह विरोधाभास एक ही देश के भीतर देख रहा है। यहीं जलवायु परिवर्तन का दुष्प्रभाव है। दिल्ली ही नहीं, बंगलुरु, चेन्नई, हैदराबाद, मुंबई जैसे महानगरों में 'ताप प्रभाव और सूचकांक' स्पष्ट दिख रहा है। यह विज्ञान एवं पर्यावरण केंद्र की रपट का सारांश है। यहां पर कंकरीट या पक्का निर्माण बढने के साथ ही हरित क्षेत्र पहले की तुलना में कम हुए हैं। इसके कारण रात के समय भी तापमान में अपेक्षित गिरावट नहीं आ रही है। गर्मी का ऐसा प्रचंड प्रभाव है कि सड़कों पर दौड़ रहे वाहनों के टायर पिघल रहे हैं। नतीजतन दुर्घटनाएं हो रही हैं। इस उबलती गर्मी के मानवीय दुष्प्रभाव भी हैं।

प्रख्यात पत्रकार 'लैसैट' ने अध्ययन किया है कि यह मौसम मधुमेह, हृदय रोग, रक्तचाप और किडनी के मरीजों के लिए बेहद गंभीर दुष्प्रभाव वाला है। चिकित्सकों का मानना है कि लोगों को काम से बाहर जाना उनकी विवशता है, लिहाजा प्रचंड गर्मी से लोग 'डिहाइड्रेशन' का शिकार हो रहे हैं। उससे किडनी की कार्यक्षमता सीधे ही प्रभावित होती है। उससे कई और बीमारियां बढ़ सकती हैं। हालात ऐसे होते जा रहे हैं कि दिल्ली सरकार के सभी 26 अस्पतालों में 2-3 बिस्तर आरक्षित किए जा रहे हैं। लोकनायक जयप्रकाश अस्पताल में 5 बिस्तर आरक्षित करने का फैसला लिया गया है। मौसम विभाग के महानिदेशक डॉ. मुंजुंजय महापात्र का आकलन है कि तमतामती गर्मी जून में भी भयावह होगी, क्योंकि इस बार गरम लू के दिन दोगुना होंगे। सबसे ज्यादा असर दिल्ली, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, उर, गुजरात और मध्यप्रदेश आदि राज्यों में दिखेगा। उत्तर-पश्चिम राज्यों में जून में सामान्य रूप से गरम लू के 3 दिन होते हैं, लेकिन इस बार कम्बोबे 6 दिन रहने की आशंका है।

रात का तापमान भी 4-6 डिग्री अधिक रहेगा। गर्मी के साथ-साथ उमस भी बढ़ेगी। विज्ञान एवं पर्यावरण केंद्र की रपट के मुताबिक, शहरों में नमी ज्यादा होने और तापमान में बढ़ोतरी के चलते वहां का मौसम पहले से ज्यादा असहनीय होता जा रहा है। इस पर तुरंत प्रबंधन अनिवार्य है। हरित क्षेत्र में बढ़ोतरी, जलाशयों के निर्माण के साथ-साथ भवनों की संरचना में ऐसे बदलाव लाए जाने चाहिए, जिससे वे तापमान के ज्यादा अनुकूल हो सकें। ऐसे गरम मौसम में चिकित्सकों की सलाह है कि इस मौसम में कई वायरस और बैक्टीरिया सक्रिय हो जाते हैं। कई बार ऐसा होता है कि गर्मी में कुछ खाने के बाद उल्टी आने लगती है या फिर पेट में जलन होने लगती है। यह पाचन-तंत्र की गड़बड़ी का पहला संकेत है, लिहाजा गर्मियों में तरबूज और खरबूजे का पर्याप्त सेवन करना चाहिए। इन फलों में पानी होता है। ये शरीर को हाइड्रेटेड रखते हैं। ऐसे मौसम में नारियल का पानी, खीरा, दही, पुदीना, आम, लीची, आड़ू, संतरा, मौसमी, खुबानी, अनानास, अनार आदि भी फायदेमंद होते हैं। बटरहाल, रम प्रकृति की ताकत को भूल बैठें हैं, लिहाजा गर्मी-लू विस्फोट जैसे लग रहे हैं।

आत्मनिर्भरता ही मनुष्य के स्वाधीनता की प्रेरणा

'पराधीन सपने हूँ सुख नहीं' यह लोकोक्ति हर स्वामीमानों आदमी और को महान बनने तक निरंतर मेहनत कर किताने लिखने का का श्रम करना स्वतंत्रता प्रेमी व्यक्ति को याद रहती है। स्वावलंबन या आत्मनिर्भरता ही मनुष्य को स्वाधीन बढने की प्रेरणा देती है।



संजीव ठाकुर

आत्मनिर्भरता की स्थिति में व्यक्ति अपनी इच्छाओं को अपनी सुविधा अनुसार पूरा कर सकता है, इसके लिए दूसरों की तरफ मुंह ताकने की जरूरत नहीं पड़ती है। आत्मनिर्भरता केवल मनुष्य के लिए व्यक्तिगत रूप से ही जरूरी नहीं है, बल्कि राष्ट्र के लिए भी अति आवश्यक है। एक स्वतंत्र राष्ट्र अपनी जनता को अपनी क्षमता के अनुसार सारी सुविधाएं तथा अन्य जीवन उपयोगी साधन उपलब्ध करा सकता है। भारत स्वतंत्रता के बाद हरित क्रांति सातवें दशक के प्रारंभ के बाद ही खाद्यान्न के मामले में आत्मनिर्भर बन सका, इसके साथ ही भारत में खुरहाली की स्वाभाविक तौर पर वृद्धि हुई, पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने भी कहा था कि एक राष्ट्र की शक्ति उसकी आत्मनिर्भरता में है दूसरों से उधार लेकर काम चलाने में नहीं; पाकिस्तान की स्थिति बिल्कुल ऐसी ही है वह अभी तक स्वतंत्रता के बाद से 75 वर्ष के बाद भी संपूर्ण रूप से आत्मनिर्भर नहीं हो पाया है, वह कर्ज से डूब गया है और अपने देश में खर्चा चलावने के लिए पूरी दुनिया से उधार मांगते हुए घूम रहा है। पाकिस्तान आत्मनिर्भर नहीं होने का एवं उधार की जिंदगी जीने का एक बहुत बड़ा उदाहरण है। जबकि भारत देश विज्ञान, टेक्नोलॉजी, मेडिकल साइंस, इंजीनियरिंग और कृषि सेवा, खनिज, स्पेस रिसर्च में पूर्णता आत्मनिर्भर होकर विकसित देशों के बराबर खड़ा हुआ है। यह देशवासियों और देश के लिए अत्यंत गौरव का विषय है। आत्मनिर्भरता या स्वावलंबन किसी भी देश की प्रगति विकास तथा और उसके नागरिकों की जिंदगी की जिजीविषा है जिससे वह सघर्ष कर आगे बढ़ता है। इतिहास गवाह है कि किसी भी महान लेखक

को महान बनने तक निरंतर मेहनत कर किताने लिखने का का श्रम करना पड़ा एवं आत्मनिर्भरता की स्थिति में विचार कर अपने विचारों को लिपिबद्ध करना पड़ा तब जाकर वह महानता की श्रेणी को प्राप्त कर सका। इसी तरह कोई छात्र अपने जीवन में सफलता प्राप्त करना चाहता है तो उसे स्वयं परीक्षा में शामिल होना पड़ेगा एवं परीक्षा में मनोवांछित सफलता प्राप्त कर उसे स्वयं अध्ययन करना होगा। इसी प्रकार जीवन के हर क्षेत्र में भी मनुष्य को आत्मनिर्भर होकर मेहनत कर दीक्षित सफलता प्राप्त करनी पड़ेगी।

हमारा देश भारत भी आजादी के बाद से आत्मनिर्भरता की ओर अग्रिम आता आज स्थिति यह है कि वह विश्व में विकास राष्ठी की श्रेणी में आ खड़ा हुआ है। तमाम महापुरुषों के जीवन से भी हमें आत्मनिर्भरता तथा स्वावलंबन की शिक्षा मिलती रहती है। महात्मा गांधी अपना कार्य स्वयं किया करते थे। जोस्वामी तुलसीदास जी ने भी दैव दैव आलसी पुकारा है, तब जाकर उनकी जिंदगी पटरी पर आई और हमें परिश्रम कर आत्म निर्भर होने की शिक्षा प्रदान की थी। दूसरों पर निर्भरता हमें दूसरों का अनुसरण करने के लिए मजबूर करती है। दूसरों पर निर्भर होने से हमें के अनुरूप ही जीवन जीने के लिए बाध्य होना पड़ता है। पराधीनता हमारा आत्मविश्वास सृजनशीलता सोचने की शक्ति को नष्ट कर देती है। गुलामी एक अभिशाप होती है, आत्मनिर्भरता की कमी हमें किंकर्तव्यमूढ़ बना देती है। दूसरों की कृपा पर जीने वाला व्यक्ति जीवन के अक्षय आनंद से वंचित रहता है। खुद के परिश्रम श्रम से अग्रसर होता है। वहीं सदैव अपने अंदर के आत्मविश्वास, डिग्री हुई क्षमताओं मनोबल का सहारा लेकर आत्मनिर्भर या स्वावलंबी बनने का प्रयास हमेशा करते रहना चाहिए।

स्वामी, प्रकाशक, मुद्रक व सम्पादक तकदीस प्रामिता रिजवी ने गुप-5 प्रकाशन, 55-बी, वजीर पल्ले रोड, लखनऊ से मुद्रित करवाकर प्रथम तत्व, मस्जिद नूर महील, साकेत हस्तली, नरही, लखनऊ से प्रकाशित किया।

दूसरी भी लेख में कोई विवाद के लिए 'अवधानामा' जिम्मेदार नहीं होगा, इसकी जिम्मेदारी लेखक की है। किसी भी समाचार के विवाद के लिए न्याय क्षेत्र लखनऊ ही होगा।

पोलिटिकल एडिटर : ए.एम. मोहम्मद

स्वानीय संपादक

मोहम्मद आलम रिजवी

RNI No UPHIN/2010/31173

टेली फैक्स नं. : 2288091, 4065716

avadhnamahindi@gmail.com,

नाए शहरों के तापमान तेजी से बढ़ रहे हैं। पहले से बसे महानगरों की तुलना में ये ज्यादा तेजी से गर्म हो रहे हैं। जलवायु परिवर्तन पर बनी संयुक्त राष्ट्र की संस्था आईपीसीसी ने कहा है कि अगर ग्लोबल वार्मिंग को नहीं रोका गया तो इसके गंभीर परिणाम हो सकते हैं। संस्थान की ओर से वर्ष 2018 में जारी रिपोर्ट में कहा गया है कि दुनियाभर के देशों को इस पर तुरंत लगाम लगाने की जरूरत है। अगर ऐसा नहीं होता है तो 2030 तक धरती के कई हिस्से रहने लायक नहीं होंगे। रिपोर्ट कहती है कि अगर तापमान 1.5 डिग्री सेल्सियस भी बढ़ता है तो इससे वंचित और कमजोर आबादी सबसे ज्यादा प्रभावित होगी।

जल रही धरती, इसके दोषी हम सब हैं

आम चुनाव की सातवें आखिरी चरण वोटिंग से एक दिन पहले उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर से दुखद खबर सामने आई। यहां हीट स्ट्रोक से चुनाव झूटी में लगे 12 सहित 20 लोगों की मौत हो गई। वहीं 30 से अधिक लोगों का इलाज मंडलीय अस्पताल समेत अन्य चिकित्सालयों में चल रहा है। बीते दिनों बिहार के स्कूलों में 300 छात्र अत्यधिक गर्मी से बेहोश हो गए? शिक्षक और पूर्व सांसद तक अचेत हो गए। अंततः मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को सभी स्कूल बंद करने का आदेश पत्रा में पड़ा। प्रधानमंत्री मोदी की जनसभा को कवर करता हुआ एक टीवी पत्रकार भी बेहोश हो गया। यह दौरा है कि प्रधानमंत्री ने तुरंत अपनी टीम के लोगों को उसकी मदद करने को कहा। इसमें कोई दो राय नहीं है कि जलवायु परिवर्तन और प्रकृति से अनावश्यक छेड़छाड़ और अत्यधिक दोहन के जानलेवा दुष्परिणाम अब साफ तौर पर दिखने लगे हैं। पिछले लगभग एक महीने से देश के एक दर्जन से ज्यादा प्रदेशों चिलचिलाती गर्मी से जनमानस बेहाल है। दिल्ली ही नहीं, बंगलुरु, चेन्नई, हैदराबाद, मुंबई जैसे महानगरों में 'ताप प्रभाव और सूचकांक' पुराने रिकॉर्ड तोड़ रहा है। गर्मी का ऐसा प्रचंड प्रभाव है कि सड़कों पर दौड़ रहे वाहनों के टायर पिघल रहे हैं। नतीजतन दुर्घटनाएं हो रही हैं। इस उबलती गर्मी के मानवीय दुष्प्रभाव भी हैं। विशेषज्ञों के



डॉ. आशीष वशिष्ठ

अनुसार, भारतीय शहरों का स्वरूप पिछले कुछ दशकों में काफी बदला है। यहां की हरियाली में दिनों-दिन कमी आ रही है। धड़ल्ले से पेड़ काटे जा रहे हैं। इमारतों की संख्या बढ़ रही है। घरों में एसी का इस्तेमाल बढ़ रहा है। पक्की सड़कों का विस्तार तेजी से हो रहा है। और यही वजह है कि तापमान भी उसी रफ्तार में बढ़ रहा है। ऐसे में शहर को अब अर्बन हीट आइलैंड या फिर हीट आइलैंड कहा जाने लगा है। अगर हवा की गति कम है तो शहरों को अर्बन हीट आइलैंड नहीं होगा। रिपोर्ट कहती है कि अगर तापमान 1.5 डिग्री सेल्सियस भी बढ़ता है तो इससे वंचित और कमजोर आबादी सबसे ज्यादा प्रभावित होगी। उन्हें भोजन की कमी, आमदनी, महंगाई, आजीविका के साधन, स्वास्थ्य और जनसंख्या विस्थापन की समस्याएं झेलनी पड़ सकती हैं।

भारत उन देशों की कतार में खड़ा है जो इससे सबसे ज्यादा प्रभावित होंगे। देश की आबादी बढ़ी है और यहां आर्थिक रूप से असमानता ज्यादा है। रिपोर्ट जिस अस्थिरता की बात कर रही है, अगर वो नहीं रोकी गयी तो भारत पर इसका असर विनाशकारी हो सकता है - न केवल सामाजिक रूप से बल्कि राजनीतिक रूप से भी। अगर स्लोबल वार्मिंग की वजह से समुद्र का जल स्तर बढ़ता है तो देश के कई हिस्से बर्बाद हो जाएंगे। तटीय क्षेत्रों में रहने वाले और आजीविका के लिए समुद्र पर निर्भर रहने वाले लोग सबसे ज्यादा प्रभावित होंगे। हालांकि, रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि अभी दर नहीं हुई है। अगर तापमान को बढ़ने से रोका गया तो संभावित क्षति को कम

जलोबल वार्मिंग की दस्तक देने के बावजूद विकसित व संपन्न देश पर्यावरण संतुलन के प्रयास करने तथा आर्थिक सहयोग देने से बच रहे हैं। ऐसा नहीं है कि मौसम की मार से कोई विकसित व संपन्न देश बचा हो, लेकिन प्राकृतिक संसाधनों के क्रूर दोहन से औद्योगिक लक्ष्य पूरे करने वाले ये देश अब विकासशील देशों को बर्बाद दे रहे हैं। निश्चित रूप से बढ़ता तापमान उन लोगों के लिये बेहद कष्टकारी है, जो पहले ही जीवनशैली से जुड़े रोगों एवं समस्याओं से जूझ रहे हैं। जिनकी रोग प्रतिरोधक क्षमता असाध्य रोगों की वजह से चूक रही है। अधिकतम पात्र 52.9 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया जो देश के इतिहास का सबसे ज्यादा तापमान है। राजस्थान के चुरु और फलोदी आदि का पारा तो 50 के आसपास या ऊपर ही चल रहा है। जैसलमेर आदि स्थानों पर गर्मी इतने तेज है कि धरती तवे की तरह तप रही है, लोगों ने पापड़ सेक कर या आमलेट बनाते हुए दृश्य सोशल मीडिया पर दिखाये हैं। पानी की कमी, बिजली कटौती और गर्म लू के कारण बीमारी के हालात गंभीर होते जा रहे हैं। इतनी तेज गर्मी में पेयजल की उपलब्धता, बिजली की आपूर्ति व ट्रिपिंग की समस्या से निजात पाना मुश्किल हो रहा है। सवाल यह है कि इस भीषण लू या यों कहे कि हीटवेव के लिए बहुत कुछ हम और हमारा शरीरकण और विकास के नाम पर प्रकृति को विनष्ट करने में हमने कोई कमी नहीं छोड़ी है। पेड़ों की खासतौर से छायादार पेड़ों की अंधाधुंध कटाई एवं गांवों में हो या शहरों में आंख मीचकर कंक्रीट के जंगल खड़े करने की होड़ के दुष्परिणाम प्रकृति एवं पर्यावरण की विध्वंसिता के रूप में सामने हैं। जल संग्रहण के परंपरागत स्रोतों को नष्ट करने में भी हमने कोई गुरेज नहीं शरीरकण की होड़ रहेगी, तब तक पर्यावरण असंतुलन एवं गर्मी का प्रकोप ऐसे ही विनाश का कारण बनता रहेगा।

इस बार बढ़ती गर्मी ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिये हैं जो हमारे लिए चौंकारने से ज्यादा गंभीर चिंता की बात है। राजधानी दिल्ली के एक इलाके में

लोकप्रभा चुनाव के प्रचार की गर्मी भले ही समाप्त हो गयी हो लेकिन प्रकृति से जुड़ी गर्मी सी-डेड सौ वर्षों का रिकॉर्ड तोड़ते हुए कहर बरपा रही है। दिल्ली का पारा 50 डिग्री से तो ज्यादा हो रहा है। देश के 17 से अधिक शहरों में तापमान उच्चतम स्तर पर चल रहा है। यह एक तरह का प्राकृतिक आपातकाल है। हीटवेव या यों कहे कि लू के थपेड़ों ने जनजीवन को मौत के मुहाने पर खड़ा कर दिया है। लू या हीटवेव या तापघात के कारण देश के विभिन्न हिस्सों में मौत के समाचार भी आ रहे हैं। तस्वीर का एक पहलू यह है कि अभी तक सही मायने में हमारे देश में हीटवेव को डिजास्टर मैनेजमेंट में पूरी तरह से शामिल नहीं किया गया है। वैज्ञानिक बता रहे हैं कि शहरों में



ललित गर्ग

हीट आइलैंड बन रहे हैं, जिसके लिए मुख्य रूप से सीमेंट-तारकोल और कृत्रिम बातानुकूलित (एसीवाली) जीवनशैली जिम्मेदार है। कंक्रीट और तारकोल के जंगलों का विस्तार करने को जब तक हम अपनी जरूरत समझते रहेंगे तब तक हरे-भरे जंगलों को कटने से कोई नहीं रोक सकेगा। दुनिया की तीसरी आर्थिक महाशक्ति बनने की ओर अग्रसर देश जब तक जीडीपी के विकास को माँगता, बेहिसाब औद्योगीकरण एवं शरीरकण की होड़ रहेगी, तब तक पर्यावरण असंतुलन एवं गर्मी का प्रकोप ऐसे ही विनाश का कारण बनता रहेगा।

इस बार बढ़ती गर्मी ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिये हैं जो हमारे लिए चौंकारने से ज्यादा गंभीर चिंता की बात है। राजधानी दिल्ली के एक इलाके में

जलोबल वार्मिंग की दस्तक देने के बावजूद विकसित व संपन्न देश पर्यावरण संतुलन के प्रयास करने तथा आर्थिक सहयोग देने से बच रहे हैं। ऐसा नहीं है कि मौसम की मार से कोई विकसित व संपन्न देश बचा हो, लेकिन प्राकृतिक संसाधनों के क्रूर दोहन से औद्योगिक लक्ष्य पूरे करने वाले ये देश अब विकासशील देशों को बर्बाद दे रहे हैं। निश्चित रूप से बढ़ता तापमान उन लोगों के लिये बेहद कष्टकारी है, जो पहले ही जीवनशैली से जुड़े रोगों एवं समस्याओं से जूझ रहे हैं। जिनकी रोग प्रतिरोधक क्षमता असाध्य रोगों की वजह से चूक रही है। ऐसा ही संकट बुद्धों के लिये भी है, जो बेहतर चिकित्सा सुविधाओं व सामाजिक सुरक्षा के अभाव में जीवनत्यापन कर रहे हैं। वैसे एक तथ्य यह भी है कि मौसम के चरम पर आने, यानी चढ़ावे बाढ़ हो, शीत लहर हो या फिर लू हो, मरने वालों में अधिकांश गरीब व कामगार तबक के लोग ही होते हैं। जिनका जीवन गर्मी में बाहर निकले बिना या काम किये बिना चल नहीं सकता। निष्कर्षतः कह सकते हैं कि उन्हें

अधिकतम पात्र 52.9 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया जो देश के इतिहास का सबसे ज्यादा तापमान है। राजस्थान के चुरु और फलोदी आदि का पारा तो 50 के आसपास या ऊपर ही चल रहा है। जैसलमेर आदि स्थानों पर गर्मी इतने तेज है कि धरती तवे की तरह तप रही है, लोगों ने पापड़ सेक कर या आमलेट बनाते हुए दृश्य सोशल मीडिया पर दिखाये हैं। पानी की कमी, बिजली कटौती और गर्म लू के कारण बीमारी के हालात गंभीर होते जा रहे हैं। इतनी तेज गर्मी में पेयजल की उपलब्धता, बिजली की आपूर्ति व ट्रिपिंग की समस्या से निजात पाना मुश्किल हो रहा है। सवाल यह है कि इस भीषण लू या यों कहे कि हीटवेव के लिए बहुत कुछ हम और हमारा शरीरकण और विकास के नाम पर प्रकृति को विनष्ट करने में हमने कोई कमी नहीं छोड़ी है। पेड़ों की खासतौर से छायादार पेड़ों की अंधाधुंध कटाई एवं गांवों में हो या शहरों में आंख मीचकर कंक्रीट के जंगल खड़े करने की होड़ के दुष्परिणाम प्रकृति एवं पर्यावरण की विध्वंसिता के रूप में सामने हैं। जल संग्रहण के परंपरागत स्रोतों को नष्ट करने में भी हमने कोई गुरेज नहीं शरीरकण की होड़ रहेगी, तब तक पर्यावरण असंतुलन एवं गर्मी का प्रकोप ऐसे ही विनाश का कारण बनता रहेगा।

इस बार बढ़ती गर्मी ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिये हैं जो हमारे लिए चौंकारने से ज्यादा गंभीर चिंता की बात है। राजधानी दिल्ली के एक इलाके में



है कि दुनियाभर के देशों को इस पर तुरंत लगाम लगाने की जरूरत है। अगर ऐसा नहीं होता है तो 2030 तक धरती के कई हिस्से रहने लायक नहीं होंगे। रिपोर्ट कहती है कि अगर तापमान 1.5 डिग्री सेल्सियस भी बढ़ता है तो इससे वंचित और कमजोर आबादी सबसे ज्यादा प्रभावित होगी। उन्हें भोजन की कमी, आमदनी, महंगाई, आजीविका के साधन, स्वास्थ्य और जनसंख्या विस्थापन की समस्याएं झेलनी पड़ सकती हैं।

भारत उन देशों की कतार में खड़ा है जो इससे सबसे ज्यादा प्रभावित होंगे। देश की आबादी बढ़ी है और यहां आर्थिक रूप से असमानता ज्यादा है। रिपोर्ट जिस अस्थिरता की बात कर रही है, अगर वो नहीं रोकी गयी तो भारत पर इसका असर विनाशकारी हो सकता है - न केवल सामाजिक रूप से बल्कि राजनीतिक रूप से भी। अगर स्लोबल वार्मिंग की वजह से समुद्र का जल स्तर बढ़ता है तो देश के कई हिस्से बर्बाद हो जाएंगे। तटीय क्षेत्रों में रहने वाले और आजीविका के लिए समुद्र पर निर्भर रहने वाले लोग सबसे ज्यादा प्रभावित होंगे। हालांकि, रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि अभी दर नहीं हुई है। अगर तापमान को बढ़ने से रोका गया तो संभावित क्षति को कम



विडंबना यह है कि ग्लोबल वार्मिंग की दस्तक देने के बावजूद विकसित व संपन्न देश पर्यावरण संतुलन के प्रयास करने तथा आर्थिक सहयोग देने से बच रहे हैं। ऐसा नहीं है कि मौसम की मार से कोई विकसित व संपन्न देश बचा हो, लेकिन प्राकृतिक संसाधनों के क्रूर दोहन से औद्योगिक लक्ष्य पूरे करने वाले ये देश अब विकासशील देशों को बर्बाद दे रहे हैं। निश्चित रूप से बढ़ता तापमान उन लोगों के लिये बेहद कष्टकारी है, जो पहले ही जीवनशैली से जुड़े रोगों एवं समस्याओं से जूझ रहे हैं। जिनकी रोग प्रतिरोधक क्षमता असाध्य रोगों की वजह से चूक रही है। ऐसा ही संकट बुद्धों के लिये भी है, जो बेहतर चिकित्सा सुविधाओं व सामाजिक सुरक्षा के अभाव में जीवनत्यापन कर रहे हैं। वैसे एक तथ्य यह भी है कि मौसम के चरम पर आने, यानी चढ़ावे बाढ़ हो, शीत लहर हो या फिर लू हो, मरने वालों में अधिकांश गरीब व कामगार तबक के लोग ही होते हैं। जिनका जीवन गर्मी में बाहर निकले बिना या काम किये बिना चल नहीं सकता। निष्कर्षतः कह सकते हैं कि उन्हें

किशोरियों के लिए भी जरूरी है खेल का मैदान

हमारे गांव में लड़कियों के खेलने के लिए कोई मैदान नहीं है। जिससे इस क्षेत्र में अपना करियर बनाने का सपना देखने वाली लड़कियों के पास अवसर खत्म हो रहे हैं। पूरे गांव में केवल एक स्कूल है जहां खेलने लायक जमीन उपलब्ध है। लेकिन वहां लड़कों का कब्जा बना रहता है और हम लड़कियां उस मैदान के एक कोने में प्रैक्टिस करने को मजबूर हैं। यहां पर ज्यादातर कबड्डी और खो खो खेलते हैं, जिसमें हमें बहुत अधिक भागदौड़ करनी पड़ती है। लेकिन हमारे लिए मैदान छोटा होने के कारण हम अच्छे से खेल नहीं पाते हैं। जिसका असर हमारे प्रदर्शन पर पड़ता है। यह कहना घड्डीसर गांव की 16 वर्षीय किशोरी सनू का, जो प्रतिदिन अपनी अन्य साथी खिलाड़ियों के साथ गांव में बने एकमात्र उच्च माध्यमिक विद्यालय के मैदान में खो खो का प्रैक्टिस करने आती है।



मीरा जायक

राजस्थान की राजधानी जयपुर से करीब 254 किमी दूर और चुरु जिला के सरदारशहर ब्लॉक से 50 किमी की दूरी पर बसे घड्डीसर गांव की आबादी करीब 3900 है। यहां की पंचायत में दर्ज अंकड़ों के अनुसार गांव में महिला और पुरुष की साक्षरता दर में काफी अंतर है। जहां पुरुषों में साक्षरता की दर 62.73 प्रतिशत के करीब है वहीं महिलाओं में यह मात्र 38.8 प्रतिशत दर्ज की गई है। राजपूत बहुल इस गांव में उच्च और निम्न वर्गों की भी अच्छी आबादी

आरती कहती है कि हमारी टीम खेलने के लिए एक बार सरदारशहर तहसील गई थी और एक बार फोगा गांव गई थी। उसके बाद हम कहीं नहीं गए हैं। हमें कहीं जाने का मौका ही नहीं मिलता है क्योंकि हमारा प्रदर्शन अच्छा नहीं रहता है। जब प्रैक्टिस का उचित अवसर नहीं मिलेगा तो प्रदर्शन अच्छा उपलब्ध नहीं है। वह कहती है कि गांव से बाहर प्रैक्टिस करने के लिए हमारे घर वाले हमें जाने नहीं देते हैं। हम अपनी इच्छा को अपने अंदर मार कर बैठ जाते हैं। हमारी भी बहुत मन करता है खेलने का और खेल की दुनिया में अपना भविष्य बनाने का, परंतु मैदान के बिना हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं। वहीं 10वीं में पढ़ने वाली गांव की एक 15 वर्षीय किशोरी मीनिका का कहना है कि हमारे गांव में खेलकूद के मामले में लड़कियों में काफी प्रतिभाएं हैं। परंतु उनके खेलने के लिए मैदान ही नहीं है। पूरे गांव में केवल स्कूल का एक मैदान है। जिसमें

है। देश को खेती में काम आने वाला खनिज तत्व पोटाश की प्रचुर मात्रा उपलब्ध कराने वाले घड्डीसर गांव की किशोरियों के पास आज भी खेल का अपना कोई मैदान नहीं है। जिससे उनकी प्रैक्टिस छूट रही है और इसका नकारात्मक प्रभाव उनके प्रदर्शनों पर पड़ रहा है।

सोच के साथ खो खो की प्रैक्टिस करने आई एक अन्य खिलाड़ी 17 वर्षीय आरती कहती है कि हमारी टीम खेलने के लिए एक बार सरदारशहर तहसील गई थी और एक बार फोगा गांव गई है। उसके बाद हम कहीं नहीं गए हैं। हमें कहीं जाने का मौका ही नहीं मिलता है क्योंकि हमारा प्रदर्शन अच्छा नहीं रहता है। जब प्रैक्टिस का उचित अवसर नहीं मिलेगा तो प्रदर्शन अच्छा नहीं है। प्रैक्टिस के लिए मैदान का होना जरूरी है, जो हमारे पास उपलब्ध नहीं है। वह कहती है कि गांव से बाहर प्रैक्टिस करने के लिए हमारे घर वाले हमें जाने नहीं देते हैं। हम अपनी इच्छा को अपने अंदर मार कर बैठ जाते हैं। हमारी भी बहुत मन करता है खेलने का और खेल की दुनिया में अपना भविष्य बनाने का, परंतु मैदान के बिना हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं। वहीं 10वीं में पढ़ने वाली गांव की एक 15 वर्षीय किशोरी मीनिका का कहना है कि हमारे गांव में खेलकूद के मामले में लड़कियों में काफी प्रतिभाएं हैं। परंतु उनके खेलने के लिए मैदान ही नहीं है। पूरे गांव में केवल स्कूल का एक मैदान है। जिसमें

आरती कहती है कि हमारी टीम खेलने के लिए एक बार सरदारशहर तहसील गई थी और एक बार फोगा गांव गई थी। उसके बाद हम कहीं नहीं गए हैं। हमें कहीं जाने का मौका ही नहीं मिलता है क्योंकि हमारा प्रदर्शन अच्छा नहीं रहता है। जब प्रैक्टिस का उचित अवसर नहीं मिलेगा तो प्रदर्शन अच्छा उपलब्ध नहीं है। वह कहती है कि गांव से बाहर प्रैक्टिस करने के लिए हमारे घर वाले हमें जाने नहीं देते हैं। हम अपनी इच्छा को अपने अंदर मार कर बैठ जाते हैं। हमारी भी बहुत मन करता है खेलने का और खेल की दुनिया में अपना भविष्य बनाने का, परंतु मैदान के बिना हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं। वहीं 10वीं में पढ़ने वाली गांव की एक 15 वर्षीय किशोरी मीनिका का कहना है कि हमारे गांव में खेलकूद के मामले में लड़कियों में काफी प्रतिभाएं हैं। परंतु उनके खेलने के लिए मैदान ही नहीं है। पूरे गांव में केवल स्कूल का एक मैदान है। जिसमें



लड़कों का कब्जा रहता है। ऐसे में उसी मैदान में हमें खेलने में बहुत दिक्कत होती है। इसलिए हमें लड़कियों के लिए अलग से खेल का मैदान होना चाहिए। वह बताती है कि अभी स्कूल में ग्रीष्मकालीन अवकाश शुरू हो गया है जिससे स्कूल के गेट पर ताला लग गया है। लड़कें अवसर स्कूल की दीवार फांद कर मैदान में खेलने चले जाते हैं लेकिन हम लड़कियां ऐसा नहीं कर सकती हैं। गांव की एक अन्य किशोरी कांता का कहना है कि इस गांव में करीब 800 घर हैं। जिन घरों की लड़कियां खेल के उस स्कूल में पढ़ती हैं उन्हें तो स्कूल के दिनों में फिर भी प्रैक्टिस के अवसर मिल जाते हैं लेकिन जो लड़कियां अब यहां नहीं पढ़ती हैं वह प्रैक्टिस के लिए कहां जाएं? वह कहती है कि लड़कें तो कहीं भी या अन्य गांव में जाकर वहां के मैदान पर खेल सकती हैं लेकिन हमारे घर वाले हमें घर से दूर प्रैक्टिस के लिए नहीं जाने देते हैं। इसलिए हमारे गांव में लड़कियों के लिए खेल का मैदान तो होना ही चाहिए जिसमें वह गांव में खेल सकें। साथ ही उन्हें खेल के

किया जा सकता है। रिपोर्ट में एक उपाय सुझाया गया है कि जिन देशों में कार्बन का उत्सर्जन ज्यादा है, वो इसे कम करने के लिए तकनीक का इस्तेमाल करें। रिपोर्ट का दूसरा महत्वपूर्ण बिंदु यह है कि अगर लक्ष्यों को हासिल नहीं किया गया तो 2050 तक दुनिया को कार्बन का उत्सर्जन रोकना होगा। भारत ने भी यह तय नहीं किया है कि वह कार्बन उत्सर्जन को रोकने से जुड़े लक्ष्यों को कब तक हासिल करेगा। जबकि चीन ने यह लक्ष्य 2030 तय किया है। भारत अभी 2050 की रणनीति विकसित कर रहा है। देश अक्षय ऊर्जा के क्षेत्र में विकास करने की सोच रहा है लेकिन यह आसान नहीं होगा। बड़े स्तर पर अक्षय ऊर्जा को संग्रहित करने के लिए उपायों की जरूरत होगी, जो बहुत महंगी हो सकती है। उदाहरण के लिए बड़े पैमाने पर बैटरी की जरूरत होगी, लेकिन इनकी कीमतों में तेजी से कमी नहीं आने के कारण लक्ष्य आसान नहीं दिख रहे हैं।

भारत पर पर्यावरण के लिए घातक गैसों को रोकने का दबाव है। यहां पानी की समस्या भी बढ़ रही है, यह उसके लिए चुनौती है। देश सूखे, बाढ़, चक्रवात और दूसरी प्राकृतिक आपदाओं से जूझ रहा है। देश के पास एक बेहतर आपदा प्रबंधन की टीम है, लेकिन इसे और मजबूत करने की जरूरत दिख रही है। भारत ने अक्षय ऊर्जा के क्षेत्र में भी अपना लक्ष्य तय किया है। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि ये लक्ष्य हासिल कैसे किए जाएंगे और इस दिशा में अगला कदम क्या होगा। भारत के सामने दूसरी बड़ी चुनौती है परिवहन तंत्र की। इनकी कीमतों में तेजी से कमी नहीं आने के कारण लक्ष्य आसान नहीं दिख रहे हैं।

भारत पर पर्यावरण के लिए घातक गैसों को रोकने का दबाव है। यहां पानी की समस्या भी बढ़ रही है, यह उसके लिए चुनौती है। देश सूखे, बाढ़, चक्रवात और दूसरी प्राकृतिक आपदाओं से जूझ रहा है। देश के पास एक बेहतर आपदा प्रबंधन की टीम है, लेकिन इसे और मजबूत करने की जरूरत दिख रही है। भारत ने अक्षय ऊर्जा के क्षेत्र में भी अपना लक्ष्य तय किया है। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि ये लक्ष्य हासिल कैसे किए जाएंगे और इस दिशा में अगला कदम क्या होगा। भारत के सामने दूसरी बड़ी चुनौती है परिवहन तंत्र की। इनकी कीमतों में तेजी से कमी नहीं आने के कारण लक्ष्य आसान नहीं दिख रहे हैं।

भारत पर पर्यावरण के लिए घातक गैसों को रोकने का दबाव है। यहां पानी की समस्या भी बढ़ रही है, यह उसके लिए चुनौती है। देश सूखे, बाढ़, चक्रवात और दूसरी प्राकृतिक आपदाओं से जूझ रहा है। देश के पास एक बेहतर आपदा प्रबंधन की टीम है, लेकिन इसे और मजबूत करने की जरूरत दिख रही है। भारत ने अक्षय ऊर्जा के क्षेत्र में भी अपना लक्ष्य तय किया है। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि ये लक्ष्य हासिल कैसे किए जाएंगे और इस दिशा में अगला कदम क्या होगा। भारत के सामने दूसरी बड़ी चुनौती है परिवहन तंत्र की। इनकी कीमतों में तेजी से कमी नहीं आने के कारण लक्ष्य आसान नहीं दिख रहे हैं।

मौसम नहीं बल्कि गरीबी मारती है। जलवायु परिवर्तन का असर अब ज्यादा स्पष्ट तौर पर दिखने लगा है। अगर गर्मी पड़ रही है तो पिछले कई दशक के रिकॉर्ड तोड़ रही है। अगर बारिश हो रही है तो कुछ घंटों में ही पूरे मौसम की बरसात के बराबर पानी गिर रहा है। सर्दी भी साल-दर-साल नए रिकॉर्ड बना रही है। कुल मिलाकर हर मौसम अब अप्रत्याशित करूमत रुख दिखा रहा है। वैज्ञानिकों के मुताबिक, अल नीनो और कार्बन ड्रॉऑक्सिड उत्सर्जन की दोहरी मार के कारण धरती के तापमान में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। इससे धरती पर मौजूद सभी जीव-जंतुओं, वनस्पति और इंसानों को भीषण गर्मी का सामना करना पड़ रहा है। अनेक लोगों की भीषण गर्मी में जान चली गयी, बिहार की स्कूली छात्राएं बड़ी संख्या में बेहोश हो गयीं। इन जलिल स्थितियों को देखते हुए गर्मी के मौसम में काम के घंटों का निर्धारण एवं स्कूलों में गर्मी की छुट्टियों की अवधि मौसम की अनुकूलता के अनुरूप ही होनी चाहिए। आसन्न संकट को महसूस करते हुए दीर्घकालीन रणनीति, इस चुनौती से निपटने के लिये बनाने की जरूरत है।

दुनियाभर में अगले 20 साल के भीतर कृत्रिम सिस्टम यानी एयरकंडीशनर की मांग में कई गुना बढ़ी है। युवाधवादी जीवनशैली एवं धाकधकित आधुनिकता ने पर्यावरण के असंतुलन को बेतहाशा बढ़ाया है। तापमान में भी साल-दर-साल बढ़ोतरी दर्ज की जा रही है। जहां तापमान ने नए रिकॉर्ड्स बनाने शुरू कर दिए हैं वहीं, भारी बारिश

साइकिल और रिकॉर दौड़ रहे हैं। लेकिन जैसे ही लोगों की आमदनी बढ़ती है, वो तुरंत मोटर साइकिल और स्कूटर खरीद

कृषि उत्पादन मण्डी समिति, फरुखाबाद रोड में 4 जून को प्रातः 8 बजे से मतगणना प्रारम्भ होगी

अवधानामा व्यूरो

इटावा। जिलाधिकारी/जिला निर्वाचन अधिकारी अवनीश राय ने लोकसभा सामान्य निर्वाचन 2024 की मतगणना संपन्न कराये जाने हेतु 21-मैगपुष्ट लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र में समाविष्ट 199-जसवन्तनगर तथा 41-इटावा(अनु0जा0) लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र के अंतर्गत इस जनपद में समाविष्ट 200-इटावा एवं 201-भरथना (अ0जा0)विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र हेतु समस्त प्रत्याशियों/निर्वाचन अधिकर्ताओं को सूचित किया है कि कृषि उत्पादन मण्डी समिति, फरुखाबाद रोड, इटावा में दिनांक 04.06.2024 को प्रातः

8:00 बजे से मतगणना प्रारम्भ होगी। प्रत्येक विधान सभा क्षेत्र की मतगणना हेतु निर्धारित हॉल में 14 टेबिल लगाई जायेगी इसके अतिरिक्त एक टेबिल सहायक रिटर्निंग आफिसर के लिए रहेगी। डाक मतपत्रों की गणना रिटर्निंग आफिसर की टेबिल पर की जायेगी जिसके लिये अलग से पण्डाल ई0टी0पी0बी0ए0एम0पोस्टल बैलिट के लिये नियत है। इस प्रकार प्रत्याशी/निर्वाचन अधिकर्ता उपरोक्त मतगणना मेजों के लिए अधिकतम 16 गणना अधिकर्ता नियुक्त कर सकते हैं। सभी प्रत्याशियों/निर्वाचन अधिकर्ताओं को पूर्व में सूचना दी जा चुकी है। मतगणना के दिन उन्हीं अधिकर्ताओं को गणना हाल के अन्दर प्रवेश दिया

जायेगा, जिनके पास विधिक रूप से जारी फोटो युक्त परिचय पत्र होंगे। मतगणना अधिकर्ता अपने फोटो परिचय पत्र सहित दिनांक 04.06.2024 को प्रातः7-00 बजे अपनी टेबिल संख्या के पास उपस्थित हो जायें। मतगणना अधिकर्ता की जिस टेबिल के लिए नियुक्ति हुई है वह टेबिल से अन्य किसी टेबिल अथवा अन्य किसी पण्डाल में नहीं जा सकते। बिना फोटो परिचय पत्र के किसी भी व्यक्ति को मतगणना हाल में प्रवेश करने की अनुमति नहीं होगी और उनका प्रवेश सर्वथा वर्जित होगा। कोई भी व्यक्ति, प्रत्याशी/निर्वाचन अधिकर्ता एवं मतगणना अधिकर्ता एवं मतगणना अधिकर्ता, मतगणना हॉल में शस्त्र धूम्रपान

माचिस, बीड़ी, सिगरेट, लाइट, बीफकेस, बैग, मोबाइल, पानी की बोतल इत्यादि वर्जित सामग्री लेकर प्रवेश नहीं करेंगे। पूर्णतया वर्जित है। फोटो परिचय पत्र धारक मतगणना पण्डाल में प्रवेश द्वार गेट न0-01 पर जांच कराने के उपरान्त ही प्रवेश कर सकते। इसके अतिरिक्त मीडिया सेंटर पब्लिक कम्युनिकेशन सेंटर कन्ट्रोल रूम, कम्युनिकेशन सेंटर/शिकायत प्रकोष्ठ आदि की मतगणना स्थल पर व्यवस्था की गयी है। वाहन निर्धारित चिह्नित पार्किंग स्थल पर खड़े किये जायेंगे। अतःसमस्त उम्मीदवार/निर्वाचन अधिकर्ता एवं मतगणना अधिकर्ता द्वारा उपरोक्तानुसार कार्यवाही किया जाना अपेक्षित है।

नौतपा भीषण गर्मी में जगह-जगह निःशुल्क प्याऊ लगाकर लोगों की प्यास बुझाएंगे



अवधानामा संवाददाता

इटावा। नौतपा भीषण गर्मी में लोगों की प्यास बुझाने के लिए तमाम संस्थाएं सामने आ रही हैं इसी क्रम में विल्सन ग्रीन इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड अहमदाबाद तथा जल जीवन मिशन के सौजन्य से जनपद भर में विभिन्न स्थानों पर प्याऊ

लगाकर अब लोगों की प्यास बुझाई जाएगी। शनिवार को इस संस्था के लोगों ने रोडवेज बस स्टैंड रेलवे स्टेशन शास्त्री चौराहा विकास भवन पर निःशुल्क प्याऊ लगाकर इस भीषण गर्मी में लोगों की प्यास बुझाने का काम किया। डीसी मनोज कुमार ने बताया इस समय लोग गर्मी से बेहाल हैं और नौतपा मौसम चल

रहा है जिससे राहत दिलाने के लिए हम लोग जगह-जगह निःशुल्क प्याऊ केंद्र खोल रहे हैं जिससे लोगों को इस भीषण गर्मी में राहत मिल सके। जनपद घर में 45 से 48 डिग्री टेंपरेचर जा रहा है इस स्थिति को देखते हुए शुद्ध पेयजल की व्यवस्था की गई। केंद्र सरकार और राज्य सरकार के शांतिचालय से यह योजना चल रही है। हम लोग जनता को सेवा देने का प्रयास कर रहे हैं। इस दौरान संस्था के एडीपीसी शैलेश कुमार, रणधीर, रंजीत कुमार, कोऑर्डिनेटर राकेश चरण, आकांक्षा, गौतमी, अमर, वीरेंद्र, सुमित, विवेक, मानसी, संतोषी, सोरभ, अमित मौजूद रहे।

बी.एस.ए. इंजीनियरिंग कॉलेज को बीबीए व बीसीए कोर्स की मिली मान्यता

■ ए.आई.सी.टी.ई. से नवीन पाठ्यक्रम की मान्यता वाला जिले का पहला संस्थान

अवधानामा संवाददाता

मथुरा। बी.एस.ए. कालेज ऑफ इंजीनियरिंग एण्ड टेक्नोलॉजी के कॉम्पेंस हॉल में शनिवार को संस्थान के चेयरमैन उमाशंकर अग्रवाल एडवोकेट ने अवगत कराया कि बी.एस.ए. इंजीनियरिंग कॉलेज को ए.आई.सी.टी.ई. से नवीन पाठ्यक्रम बीबीए व बीसीए को मान्यता मिली है। यह पाठ्यक्रम एकेटीयू विश्वविद्यालय लखनऊ से संबंध रहेगा।

यह जानकारी आज बीएसए इंजीनियरिंग एण्ड टेक्नोलॉजी के

कॉम्पेंस हॉल में पत्रकारों से वार्ता करते हुए दी। उन्होंने संस्थान की उपलब्धियों को बताते हुए कहा कि बी.एस.ए. कालेज ऑफ इंजीनियरिंग एण्ड टेक्नोलॉजी तकनीकी प्रबंधन शिक्षा के क्षेत्र में शैक्षिक विकास के लिए स्थापित एक गैर लाभकारी संस्थान है। इसकी स्थापना 1997 में मथुरा के 100 साल पुराने श्रीप्रकाश और लोकतांत्रिक समूह की आग्रहों पर मंडल (पंजीकृत) द्वारा की गई थी। कालेज के छात्र-छात्राओं को इंजीनियरिंग शिक्षा और अनुसंधान की व्यापकता और गहराई का लाभ उठाने के लिए अनुशासित किया जाता है। संस्थान का शैक्षणिक माहौल आधुनिक तकनीक कौशल और ज्ञान प्रदान करने के साथ-साथ छात्रों को अनुशासित कर उच्च उपलब्धियों और नेतृत्व गुणों के

गरीब छात्रों को संस्थान दे रहा है रियायती शिक्षा
संस्थान के चेयरमैन उमाशंकर अग्रवाल एडवोकेट ने कहा कि संस्थान द्वारा गरीब व मध्यम वर्ग के छात्रों को रियायती दर पर बेहतर शिक्षा दी जा रही है। साथ ही लड़कियों को छात्रवृत्ति दी जा रही है।

माध्यम से देश व समाज को गौरवान्वित करना है। उन्होंने बताया कि संस्था ने नवीन पाठ्यक्रम बी.सी.ए. व बी.बी.ए. में प्रवेश प्रारम्भ हो गये हैं। क्षेत्र में यह प्रथम संस्थान है जिसे ए.आई.सी.टी.ई. से बी.सी.ए. व बी.बी.ए. पाठ्यक्रम के लिये मान्यता प्राप्त हुई है। यह पाठ्यक्रम एकेटीयू विश्वविद्यालय लखनऊ से संबन्ध रहेगा। सभी पाठ्यक्रमों की लैब आधुनिक तकनीकी व अनुभव फेकल्टी से सुसज्जित है। उन्होंने बताया कि गत वर्ष कॉलेज

छात्र छात्राओं ने डॉ. एकेटीयू विश्वविद्यालय के प्रदेश स्तर पर बोटिक (ईसी) में दूसरा व छठ स्थान एवं एमसीए में सातवां स्थान प्राप्त किया है। कॉलेज के छात्र-छात्राओं ने देश स्तर पर आयोजित होने वाली गेट परीक्षा में बहुत अच्छे प्रदर्शन किया तथा एक छात्र ने 1107 रैंक प्राप्त की। इसी वर्ष देश विदेश की नामचीन कम्पनियों जैसे जैड स्कैलर, मदर्सन, टी.सी.एस., विप्रो, इफोसिस, मेटाक्वब, एच.सी.एल., ओप्लो, ऐपसीनो आदि कम्पनियों में लगभग 77: छात्र-छात्राये चर्चान्त हुए।

सुबह युवक का शव मिलने से फैल सनसनी

आजमगढ़। देवागांव कोतवाली के नगर पंचायत लालगज स्थित दीनदयाल नगर (मसीरपुर) के एक वगोचे में शनिवार सुबह युवक का शव मिलने से सनसनी फैल गई। वह छः माह पूर्व दूसरी पत्नी के साथ कमाने के लिए दिल्ली गया था। युवक के भाई ने शव की पहचान की। मृतक के जब से जहरीले पदार्थ की डिब्बी मिली है। बरदह थाना के गंगपुर गोहाड़ी निवासी 45 वर्षीय बबलू गौड़ की पहली पत्नी से दो बेटियां हैं। पहली पत्नी की मौत के बाद उसने दूसरी शादी संघ्या से की थी। छह माह पूर्व वह घर से पत्नी संघ्या के साथ कमाने के लिए दिल्ली गया था। शनिवार की सुबह देवागांव कोतवाली के मसीरपुर की बाग में बबलू गौड़ का शव पड़ा था। इसकी जानकारी होने पर स्थानीय लोगों की भीड़ जुट गई। घटना की सूचना पर पहुंची पुलिस ने जांच की।

शिविर में 260 मरीजों का हुआ परीक्षण

वहाज अली निहाल

इटावा। समाजसेवी रामशरण गुप्ता के प्रयास से लोटस टी एम टी मेडिकल बस कैंप शनिवार को सुंदरपुर रोड कोशल्या वाटिका के पास लगाकर रोगियों का चिकित्सकों द्वारा निशुल्क इलाज किया गया। निःशुल्क चिकित्सा लोटस टी एम टी मेडिकल बस कैंप समाजसेवी रामशरण गुप्ता के प्रयास से लगभग एक महीने से शहर के विभिन्न क्षेत्रों में लगाया जा रहा है श्री गुप्ता ने बताया कि जल्द ही अन्य रोगों व दिव्यांगों के लिए स्वास्थ्य शिविर लगाया जाएगा। वहीं सुंदरपुर रोड कोशल्या वाटिका के पास चिकित्सीय संसाधनों के साथ निःशुल्क चिकित्सा शिविर लगाया गया, शनिवार को सुंदरपुर रोड कोशल्या वाटिका के पास लगभग 260 रोगियों की निशुल्क



जांच के साथ दवा वितरित की गई। आज रविवार को कंपनी गार्डन में स्वास्थ्य शिविर का होगा आयोजन। चिकित्सा टीम में डॉ शर्फीकुल इस्लाम नेत्र रोग विशेषज्ञ, डॉ शाहनाराय डेंटिस्ट, डॉ हार्दिक गिलानी फिजिशियन ने परीजों का सफल परीक्षण किया और परामर्श दिया। उन्होंने बताया कि

इस भीषण गर्मी में बुजुर्गों, दिव्यांगों के लिए निशुल्क लाने लेजाने के लिए हेल्पलाइन नम्बर भी 7409491 000 जारी किया गया है। इस अवसर पर मंडी अध्यक्ष सतेंद्र कुशवाहा, रामकिशोर, वेदप्रकाश, बजेंद्र, सचिन, मयंक, राहुल, श्याम आदि मौजूद रहे।

शेरनी नीरजा ने प्रथम बार तीन शावकों को दिया जन्म

■ इटावा सफारी पार्क में शेरों का बड़ा कुनवा

वहाज अली निहाल



इटावा। इटावा सफारी पार्क में शेरों का कुनवा फिर बढ़ा। सफारी पार्क के बब्बर शेर प्रजनन केंद्र में बीते 12 दिसम्बर 2020 को जन्मी शेरनी नीरजा ने प्रथम बार शावकों को जन्म दिया है। उक्त जानकर शेरों के विनय कुमार सिंह उप निदेशक इटावा सफारी पार्क ने दी। उन्होंने बताया कि शेरनी नीरजा की मेटिंग गुजरात से आये नर शेर कान्हा से दिनांक 12 फरवरी से 15 फरवरी 2024 के मध्य हुयी थी। शेरनी नीरजा ने दिनांक 31 मई/01 जून की रात्रि में तीन शावकों को जन्म दिया है। प्रथम शावक रात्रि 09.50 बजे, दूसरा शावक रात्रि 10.51 बजे पर तथा तीसरा शावक आज प्रातः 03.17 बजे पर हुआ। प्रातः 10.50

बजे पर चौथे शावक ने भी जन्म लिया जिसमें कोई हरकत नहीं है। शेरनी नीरजा व तीन नवजात शावक स्वस्थ है। चूँकि शेरनी नीरजा ने पहली बार शावकों को जन्म दिया है इसलिए अभी पूरी तरह से वह शावकों को अपना दूध नहीं पिला पा रही है परन्तु वह सभी शावकों का भरपूर ध्यान रख रही है तथा शावक मां का दूध पीने के लिए निरन्तर प्रयास कर रहे है। उन्होंने बताया कि इससे पूर्व सफारी पार्क की शेरनी नीरजा को मां जैसिका ने वर्ष 2016 में दो नर शावक सिम्बा व सुल्तान, वर्ष 2017 में नर शावक

बाहुबली, वर्ष 2019 में दो मादा व एक नर शावक रूपा, सोना और भारत तथा वर्ष 2020 में दो मादा शावक गार्गी व नीरजा को जन्म दिया है। इसके अतिरिक्त सफारी पार्क की दिवंगत शेरनी जैनफर जो 25 सितम्बर 2020 को गुजरात से लायी गयी थी तथा जिसकी मां जैसिका है ने वर्ष 2020 में नर शावक केसरी तथा अगस्त-22 में एक नर शावक विश्वा को जन्म दिया। यहां पर पैदा हुई बब्बर शेरनी रूपा द्वारा भी सितम्बर 2023 में एक नर शावक को जन्म दिया जा चुका है। इस प्रकार सफारी पार्क में

तीनों नवजात शावकों के अतिरिक्त अब तक कुल 11 शावकों ने जन्म लिया है। तीनों नवजात शावक व मादा बब्बर शेरनी की विशेष देखभाल पशु चिकित्सकों की टीम द्वारा की जा रही है। सीसीटीवी कैमरे के माध्यम से शेरनी नीरजा में नवजात शावकों के स्वास्थ्य एवं व्यवहार पर सफारी पार्क के सलाहकार डा0 सीएन0भुवा, पशुपालन विभाग, उत्तर प्रदेश के उप मुख्य पशु चिकित्साधिकारी डा0आर के0 सिंह एवं सफारी पार्क के पशु चिकित्सक डा0रोबिन सिंह यादव एवं डा0शैलेन्द्र सिंह द्वारा सतत निगरानी रखी जा रही है। सफारी पार्क में नवजात शावकों के जन्म लेने से वर्तमान में बब्बर शेरों की संख्या 16 हो गयी है। जातव्य है कि गुजरात के अतिरिक्त एशियाई बब्बर शेर का एकमात्र प्रजनन केंद्र उत्तर प्रदेश के जनपद इटावा में है, जहां इन्का सफल प्रजनन रहे हो रहा है।

मलेरिया माह मनाना तभी सार्थक होगा जब जनमानस जागरूक हो: सीएमओ

अवधानामा संवाददाता

मथुरा। राष्ट्रीय एंटी मलेरिया माह के प्रथम दिन शनिवार को मुख्य चिकित्सा अधिकारी कार्यालय में एक गोष्ठी का आयोजन मुख्य चिकित्साअधिकारी डॉ. अजय कुमार वर्मा की अध्यक्षता में किया गया गोष्ठी की अध्यक्षता करते हुए

■ राष्ट्रीय एंटी मलेरिया माह के शुभारंभ पर सीएमओ कार्यालय में हुई सगोष्ठी

हेतु प्रोत्साहित किया गया। एसीएमओ डॉ. आलोक कुमार ने कहा कि सभी कर्मचारी गम्भीरता से अपने कर्तव्यों का निर्वाह करें। डिप्टी सीएमओ डॉ. अनुज चौधरी ने कहा कि सभी कर्मचारी तय माइकोप्लान के अनुसार समन्वय बनाकर कार्य करें। पब्लिक हेल्थ एक्सपर्ट डॉ. रोहितारा तैवतिया ने मलेरिया रोग के उन्मूलन हेतु सभी निरोधात्मक गतिविधियों अंतर्विभागीय सहयोग से किये जाने की अपील की गई। संचालन करते

हुए जिला मलेरिया अधिकारी आर.के. सिंह द्वारा मलेरिया से बचाव हेतु उपाय बताए।

उप मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉ. चित्रेश निर्मल ने कहा कि अपने घरों के आसपास साफसफाई रखें पानी एकत्रित न होने दें। गोष्ठी में जिला कुष्ठ अधिकारी, डीसीपीएम, एफ एल सी एन सी डी, समस्त बीसीपीएम, बीपीएम, वरिष्ठ मलेरिया निरीक्षक संतोष कुमार, मलेरिया निरीक्षक अनिल कुमार वर्मा, राहुल सिंह, नितिन रस्तोगी एवं आस्तिक पाण्डेय, मलेरिया पर्यवेक्षक सूरज सैनी, राजेन्द्र शर्मा, हरी चरण मीन, राजीव अग्रवाल आदि कर्मचारी उपस्थित थे।

जिला अस्पताल से भागा लुटेरा दुराचारी मुठभेड़ में ढेर

■ 32 बोर की पिस्टल और बाइक बरामद
■ पुलिस ने पचास हजार का इनाम भी कर दिया था घोषित

अवधानामा संवाददाता

मथुरा। मुठभेड़ में गोली लगने के बाद घायल लुटेरे मनोज के जिला अस्पताल से भागने पर हरकत में आई पुलिस और स्वाट टीम ने रात को थाना शेरगढ़ क्षेत्र में मुठभेड़ के दौरान उसे ढेर कर दिया। पुलिस ने उसके पास से 32 बोर की रिवाल्वर व कारतूस भी बरामद की है। गौरतलब है कि थाना महावन के जगदीशपुर अंडर पास के समीप

पहले भी भाग चुका है अस्पताल से घायल बदमाश
मथुरा। जिला अस्पताल से घायल बदमाशों के पुलिस अभिरक्षा से भागने की यह दूसरी घटना है। इससे पहले भी छाता पुलिस द्वारा मुठभेड़ में गोली लगने से घायल बदमाश इलाज के दौरान पुलिस को चकमा देकर रात के समय भाग निकला था। हालांकि बाद में पुलिस ने घायल बदमाश को एक दूसरी मुठभेड़ में गोली मारकर गिरफ्तार कर लिया था।

महावन, शेरगढ़ व एसओजी की टीम ने मुठभेड़ में घायल हुए बदमाश मनोज उर्फ उत्तम निवासी ग्राम मई थाना शेरगढ़ क्षेत्र में भागी करारा अस्पताल में भर्ती कराया था। उसके दोनों पैरों में तीन गोलायें लगी थी। मनोज उर्फ उत्तम शुक्रवार को जिला अस्पताल के सर्जिकल वार्ड से पुलिस को चकमा देकर फरार हो गया

था। बदमाश के फरार होने पर पुलिस महकमे में हड़कम मच गया था। एसएसपी शैलेश कुमार पांडेय ने इस मामले में लापरवाही बरतने पर दो सिपाहियों को निलंबित कर दिया। साथ ही भागे घायल बदमाश को पकड़ने के लिए पुलिस की कई टीमों को लगाया था। बदमाश की गिरफ्तारी पर पचास हजार रुपये का इनाम भी

घोषित कर दिया। शेरगढ़ थाना प्रभारी सोनू कुमार और एसओजी प्रभारी राकेश कुमार अपनी टीमों के साथ भागे बदमाश को तलाश कर रहे थे। बताया गया कि पुलिस और एसओजी की टीम की दलौता से सेई रोड पर लौहारी माता मंदिर तिहाड़े के समीप अग्रयाला बन्दे की पटरी पर मनोज उर्फ उत्तम से मुठभेड़ हो गई। बदमाश ने पुलिस पर फायरिंग की जवाबी फायरिंग में बदमाश को भी गोलीयें लगी। घायल बदमाश को पुलिस अस्पताल ले गई जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। पुलिस के अनुसार उसके पास से एक 32 बोर की कट्री मेड पिस्टल व मैगजीन के अलावा एक बाइक भी बरामद हुई है।

एनसीसी के बच्चों को यातायात नियमों के प्रति किया जागरूक

प्रयागराज। सेंटजॉस एकेडमी रामपुर में 15 बीएन एनसीसी कैंप के बालक व बालिकाओं को प्रयागराज यातायात निरीक्षक पवन कुमार पाण्डेय द्वारा सड़क सुरक्षा के नियमों के प्रति जागरूक किया। इस अवसर कर्नल पीएस महापात्रा बतौर मुख्य अतिथि मौजूद रहे। मुख्य अतिथि द्वारा पवन पाण्डेय को स्मृति चिन्ह प्रदान कर सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में निरीक्षक पवन पाण्डेय द्वारा बताया कि सड़क दुर्घटना में न जाने कितने लोगों की जान चली जाती है। खासकर सड़किल चालकों के लिए सुरक्षित सफर करना एक बड़ी चुनौती बन गई है। कारण है कि लोग नियमों को लेकर लापरवाही करते हैं।

एनटीपीसी-विंध्याचल द्वारा 09 कर्मचारियों के सेवानिवृत्त होने पर दी गई भावभीनी विदाई



अवधानामा संवाददाता

सोनभद्र/विंध्यनगर। एनटीपीसी-विंध्याचल परियोजना मे दिनांक 31.05.2024 को अपनी दीर्घ सेवा देने के पश्चात कुल 09 कर्मचारी सेवानिवृत्त हुए। सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारी इस प्रकार से हैं: श्यामलाल राम, उप प्रबंधक (एमजीआर), विरेश कुमार दुबे, उप प्रबन्धक (संविदा एवं सामग्री), शाजी जार्ज, सहायक प्रबन्धक (मानव संसाधन), लीलाधर गायकवाड़, अभियंता/एसएलपीएस(प्रचालन), लाल दिवाकर सिंह, अभियंता/एसएलपीएस(प्रचालन), सतीश चन्द्र केशुर, अभियंता/एसएलपीएस(प्रचालन), जगेंद्र प्रसाद दुबे, उप अधिकारी (एफ ई एस), सुनील कुमार अतुलकर, उप अभियंता (बीएमडी) एवं रामलाल बिहार, सहायक ग्रेड-4(एफक्यूए)। एनटीपीसी-विंध्याचल प्रबंधन द्वारा सेवानिवृत्त होने वाले सभी कर्मचारियों का सम्मान परियोजना के उमंग भवन के सभागार में किया गया। कार्यक्रम में परियोजना प्रमुख(विंध्याचल) श्री ई सत्य फणि कुमार एवं मुख्यमहाप्रबंधक(प्रचालन) एवं अनुक्षण) श्री समीर शर्मा ने सभी सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारियों का पुष्पमाला से स्वागत किया। साथ ही परियोजना की युनियन/एसोसिएशन के प्रतिनिधियों ने भी पुष्पमाला

पहनाकर अतिथि कर्मचारियों का स्वागत किया। इस अवसर पर परियोजना प्रमुख(विंध्याचल) ई सत्य फणि कुमार ने सभी सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारियों की सराहना करते हुए कहा कि एनटीपीसी-विंध्याचल में वर्तमान ऊंचाइयों तक पहुंचाने में आपके योगदान को हमेशा याद रखा जाएगा और एनटीपीसी-विंध्याचल सदा ही आपकी सेवा के लिए आपका कृतज्ञ रहेगा। साथ ही महाप्रबंधक(प्रचालन एवं अनुक्षण) राजेश भारद्वाज ने सभी सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारियों को अपने जीवन की नई पारी की नए सिरे से शुरुआत करने हेतु शुभकामनायें दीं तथा सभी के उत्तम स्वास्थ्य की कामना की। इसी कड़ी में विभागाध्यक्षों ने भी सभी सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारियों को अपने जीवन की नई पारी की नए सिरे से शुरुआत करने हेतु शुभकामनायें दीं तथा सभी के उत्तम स्वास्थ्य की कामना की। सम्मानित करते समय उनके परिजनों को आमंत्रित कर इस भावुक क्षण को उनके लिए यादगार बनाने का प्रयास किया गया। इसके अतिरिक्त सभी

सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारियों को एनटीपीसी मे उनके द्वारा दी गई दीर्घ सेवाओं के लिए दीर्घ सेवा प्रमाण-पत्र आदि भी प्रदान किया गया। तत्पश्चात सेवानिवृत्त होने वाले सभी कर्मचारियों ने बाड़ी-बाड़ी से एनटीपीसी से जुड़ी अपनी यादों को साझा किया। सभी ने एनटीपीसी में अपने बिताए समय को अविस्मरणीय कहा। उन्होंने कहा कि उनकी पहचान एनटीपीसी के कारण ही बनी है और वे अपने आप को गौरवान्वित महसूस करते हैं। इसी के साथ सेवानिवृत्त होने वाले सभी कर्मचारियों ने सभी सहकर्मियों को उनके सहयोग एवं सानिध्य के लिए विशेष तौर से धन्यवाद दिया। अभिनंदन समारोह के दौरान विभागाध्यक्ष, युनियन एवं एसोसिएशन के प्रतिनिधियों, सेवानिवृत्त होने वाले विभाग के कर्मचारियों के साथ-साथ एवं उनके परिवार जन भी उपस्थित रहे। अभिनंदन समारोह का संचालन एवं धन्यवाद ज्ञापन वरिष्ठ प्रबंधक (मानव संसाधन) श्रीमती पुर्णिमा चतुर्वेदी द्वारा किया गया। कार्यक्रम के अंत में इस क्षण को अविस्मरणीय बनाने के लिए सेवानिवृत्त होने वाले सभी कर्मचारियों के साथ परियोजना प्रमुख (विंध्याचल) ई सत्य फणि कुमार एवं अन्य महाप्रबंधकगणों के साथ एक सामूहिक एवं सभी सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारियों की व्यक्तिगत फोटोग्राफ भी ली गई।

फिटनेस मंत्रा

गर्मियों में शरीर को ठंडक पहुंचाते हैं ये फूड्स, आप भी डाइट में करें शामिल

मई-जून के महीने में गर्मी अपने चरम पर होती है। इन दिनों कई राज्य भोजन गर्मी के चपेट में हैं। हेल्थ एक्सपर्ट्स के अनुसार, बढ़ता तापमान हमारे स्वास्थ्य के लिए काफी खतरनाक होता है। ऐसे में तेज गर्मी और धूप की चपेट में आने की वजह से हीट स्ट्रोक, हृदय गति में असमानता, डायबिटीज और ब्लड प्रेशर बढ़ने आदि की समस्या होने लगती है। ऐसे में स्वस्थ रहने और तमाम बीमारियों से खुद को बचाने के लिए शरीर के तापमान को कंट्रोल में करते रहने का प्रयास करना चाहिए। ऐसे में आप कुछ चीजों को अपनी डाइट में शामिल कर सकते हैं।



हेल्थ एक्सपर्ट की मानें तो कुछ खाद्य पदार्थों की तासीर ठंडी होती है और इनमें पानी की अधिक मात्रा पाई जाती है। ऐसे में इन चीजों का सेवन करने से शरीर को ठंडक पहुंचाने के साथ गर्मी से होने वाली समस्याओं से बचाने में मददगार होता है। ऐसे में इन चीजों का सेवन करने से शरीर को ठंडा रखने में मदद मिलती है।

बढ़ जाता है शरीर का तापमान
गर्मियों में हीट स्ट्रोक सामान्य समस्या है। इस दौरान शरीर का तापमान 104 डिग्री से

अधिक बना रहता है। ऐसे में शरीर को नेचुरल तरीके से ठंडा रखने वाले पसीने के तंत्र फेल हो जाते हैं। हीट स्ट्रोक की वजह से पाचन में गड़बड़ी, रक्तचाप और चक्कर आने का खतरा होता है। इसलिए गर्मियों में हीट स्ट्रोक से खुद का बचाव करने और शरीर को शीतलता प्रदान करने वाली चीजों को अपनी डाइट का हिस्सा बनाना चाहिए। आइए जानते हैं हीट स्ट्रोक से बचने के लिए किन चीजों का सेवन फायदेमंद होता है।

खीरा-तरबूज
गर्मियों में अधिक से अधिक तरल पदार्थों का सेवन करना चाहिए। ताकि आपका शरीर हाइड्रेट रहे। खीरा में पानी की मात्रा अधिक होती है। ऐसे में इसका सेवन करना आपके लिए लाभकारी हो सकता है। पानी और इलेक्ट्रोलाइट्स से भरपूर तरबूज भी आपके शरीर को ठंडा रखता है। साथ ही खीरा-तरबूज आदि के सेवन से शरीर डिहाइड्रेशन नहीं होता है। इसमें कई तरह के एंटीऑक्सीडेंट्स पाए

जाते हैं, जो शरीर में इन्फ्लामेशन को कम करने के साथ ही गंभीर बीमारियों से बचाने में मदद करता है।

फायदेमंद है पुदीना
पुदीने में मेन्थॉल पाया जाता है, जो शरीर को ठंडक पहुंचाता है। चाय, सलाद, पानी या स्मूदी आदि में ताजी पुदीने के पत्तियों को मिलाकर पीने से आप गर्मी के मौसम में होने वाली बीमारियों से खुद को बचा सकते हैं। साथ ही यह पाचन स्वास्थ्य को भी ठीक रखता है। पुदीने की पत्तियों के सेवन से कब्ज-अपच जैसी दिक्कतों से राहत पाई जा सकती है।

पिपें नारियल पानी
बता दें कि नारियल पानी में भरपूर मात्रा में इलेक्ट्रोलाइट्स पाया जाता है, जो आपके शरीर में पानी की कमी को दूर करता है और तरल पदार्थों के संतुलन को बनाए रखने में सहायक होता है। इसके साथ ही नारियल पानी में पोटेशियम, मैग्नीशियम और सोडियम सहित कई पोषक तत्व पाए जाते हैं। यदि आप रोजाना गर्मियों में नारियल पानी का सेवन करते हैं, तो स्वास्थ्य समस्याओं के जोखिमों को कम किया जा सकता है।

आंखों के लिए बेहद फायदेमंद है यह आयुर्वेदिक तकनीक, एक्सपर्ट से जानें इसके फायदे



शरीर की केयर करने के साथ ही आंखों की केयर करना भी जरूरी होता है। लेकिन कई बार लोग ऐसा करना भूल जाते हैं। लेकिन आंखों का स्वस्थ होना बेहद जरूरी होता है। यदि आंखों के प्रति थोड़ी भी लापरवाही बरती जाती है, तो इसका सीधा असर रोशनी पर पड़ता है। आंखों की रोशनी को बेहतर बनाए रखने के लिए आप नेत्र शुद्ध आसन कर सकते हैं। यह आंखों के लिए बेहद फायदेमंद माना जाता है। ऐसे में आज इस आर्टिकल के जरिए हम आपको नेत्र शुद्धि के प्रोसेस के बारे में बताने जा रहे हैं और साथ ही यह भी जानेंगे कि यह आंखों के लिए कैसे फायदेमंद होती है। दरअसल, यह एक तरह की आयुर्वेदिक तकनीक है। इस तकनीक के जरिए आंखों को रिलैक्स कर शांत किया जाता है। इस प्रोसेस में कप के माध्यम से मेडिटेशन किया जाता है। इस थैरेपी को करने से आंखों की थकान कम होती है। बता दें कि नेत्र शुद्धि का प्रोसेस पूरी तरह से केमिकल फ्री होता है और इसको कोई भी कर सकता है।

फायदे
नेत्र शुद्धि करना आंखों के लिए कई तरह से फायदेमंद होता है। इससे आंखों की थकान दूर होने के साथ आप फेश फील करते हैं। इस प्रोसेस से आई बॉल में होने वाली आई स्ट्रेन की समस्या कम होती है। आंखों में होने वाले दर्द से राहत मिलने के साथ पिंक आई की दिक्कत से भी राहत मिलती है। जिनकी आंखों की रोशनी कमजोर है, वह भी नेत्र शुद्धि कर सकते हैं। इससे आंखों की रोशनी तेज हो सकती है।

इस प्रोसेस का अभ्यास करने से आंखों की ऑप्टिक नर्व तक सुचारु रूप से नर्व का संचार होता है। आंखों की खुजली और सूजन की समस्या कम होती है। नेत्र शुद्धि का सही तरीका इसके लिए सबसे पहले छोटे आकार के प्लास्टिक के दो कप ले लीजिए। फिर इसमें नॉर्मल पानी भरें। अब इसमें आंखें खोलकर डालें या फिर फिट करें। इस प्रोसेस में आपकी आंखें पानी में होंगी चाहिए। अब अपनी पानी के अंदर आंखों में मौजूद बॉल को गोल-गोल घुमाएं।

रोजाना 5 मिनट प्लैंक एक्सरसाइज करने से शरीर को मिलते हैं जबरदस्त फायदे

स्वस्थ रहने के लिए बेहतर डाइट और एक्सरसाइज बहुत जरूरी है। हालांकि, आप सही डाइट और एक्सरसाइज का फायदा तभी है, जब आप इसे अपने डेली रूटीन का हिस्सा बनाएं। कई लोग एक या दो दिन डाइट और वर्कआउट रूटीन फॉलो कर सकते हैं। लेकिन, इससे रिजल्ट न मिलते देख, इसे छोड़ ही देते हैं। वहीं, प्लैंक एक्सरसाइज वजन कम करने में कारगर है। इसे अगर आप रोजाना 5 मिनट वर्कआउट रूटीन में शामिल करेंगी, तो आपकी शरीर में कुछ खास बदलाव देखने को मिल सकते हैं।




रोज करें प्लैंक एक्सरसाइज
- प्रतिदिन आप 5 मिनट के लिए प्लैंक एक्सरसाइज करती हैं, तो इससे मूड बेहतर होता है।
- जो लोग तनाव में रहते हैं या जिन्हें अक्सर चिड़चिड़ापन महसूस होता, उन्हें इसे जरूर करना चाहिए।
- इसे करने से कई स्टिफ हो चुकी मसल्स ठीक होती हैं और उससे स्ट्रेस कम होता है।

- अगर आप रोजाना 5 मिनट इस एक्सरसाइज को करते हैं, तो आपकी तोंद कम होगी।
- अगर आपका पेट लटका हुआ है, तो 1 महीने तक प्लैंक एक्सरसाइज कर, आपको काफी अंतर फील होगा।
- इसे करने से पेट की मांसपेशियों पर दबाव पड़ता है और बेली फैट कम हो सकता है।
- जिन लोगों को बैलेंस बनाने में मुश्किल होती है। इस एक्सरसाइज को रोज करने से, बैलेंस में सुधार हो सकता है।
- इससे कोर मसल्स मजबूत होंगे और फ्लेक्सिबिलिटी में सुधार होगा।
- इसे 1 महीने तक रूटीन में

शामिल करने से, आपको शरीर में ये बदलाव देखने को मिल सकते हैं।
प्लैंक एक्सरसाइज करने का सही तरीका
- सबसे पहले योगा मैट पर पेट के बल लेट जाएं।
- शरीर को एक सीध में रखें।
- हथेलियों और पैरों के पंजों पर दबाव डालें।
- प्लैंक की मुद्रा में आएंगे।
- शरीर को आपको एक सीध में रखना है।
- शरीर को ऊपर उठाएं।
- इस पोजिशन को होल्ड करें।
- इसे आपको रोज 5 मिनट के लिए करना है।

मॉर्निंग वॉक पर जाने के दौरान न करें ऐसी गलतियां, वरना बीमार पड़ सकते हैं आप

बहुत सारे लोग मॉर्निंग वॉक पर जाते हैं। लेकिन मॉर्निंग वॉक का सही तरीका भी जानना बेहद जरूरी होता है। क्योंकि गलत तरीके से सैर करना आपको बीमार कर सकता है। मॉर्निंग वॉक सेहत के लिए फायदेमंद माना जाता है। इससे आपके शरीर को लाभ मिलता है और मांसपेशियां मजबूत होती हैं। साथ ही इससे हड्डियां स्वस्थ रहती हैं, वेट कंट्रोल में रहता है और दिल स्वस्थ रहता है। लेकिन अगर आप सही तरीके से वॉक नहीं करते हैं, तो यह फायदा की जगह आपको नुकसान पहुंचा सकता है।



कुछ लोग मॉर्निंग वॉक पर जाने से पहले नींद पूरी नहीं करते हैं। जिसके कारण बाद में उनको थकान और चिड़चिड़ापन महसूस होता है। साथ ही शरीर को मॉर्निंग वॉक का पूरा फायदा भी नहीं मिल पाता है। इसलिए सही से सुबह की सैर करना बेहद जरूरी होता है। ऐसे में आज इस आर्टिकल के जरिए हम आपको बताने जा रहे हैं कि सुबह की सैर पर जाने से पहले क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए।

पानी जरूर पिएं
सुबह की सैर पर निकलने से पहले थोड़ा सा पानी पीना चाहिए। वॉक के दौरान शरीर में उचित हाइड्रेशन बनाए रखने के लिए पानी पीना चाहिए। सुबह पानी पीने से शरीर की

एनर्जी बढ़ती है और आप ज्यादा सक्रिय रहते हैं। इसलिए सैर पर जाने से पहले पानी पीना जरूरी होता है।
सही शूज का चयन
मॉर्निंग वॉक के लिए सही और आरामदायक फुटवियर का चयन बहुत जरूरी है। आपके शूज पैरों के लिए फिट होने चाहिए। सैर के लिए अच्छी ग्रिप वाले शूज चुनना चाहिए। जिससे कि आप फिसलने से बचें। इसके अलावा शूज का सही साइज का

होना जरूरी है। जिससे कि आपके पैरों को किसी तरह की दिक्कत न हो।

वार्मअप है जरूरी
बता दें कि सुबह की सैर शुरू करने से पहले वार्मअप करना जरूरी होता है। इससे आपके शरीर की गर्मी बढ़ती है और मांसपेशियां वॉक के लिए तैयार होती हैं। सुबह मॉर्निंग वॉक से पहले 5-10 मिनट वार्मअप करना चाहिए। वार्मअप आपके शरीर को तैयार करने के साथ ही चोट की आशंका को कम करता है। सैर से पहले वार्मअप करना सुरक्षित और स्वस्थ सैर के लिए जरूरी माना जाता है।

तेज गति से न करें शुरूआत
हेल्थ एक्सपर्ट के मुताबिक मॉर्निंग वॉक का एक तरीका होता है, जिस पर अधिकतर लोग ध्यान नहीं देते हैं। सुबह वॉक पर जाने से पहले थोड़ा पानी पीना चाहिए। फिर कुछ हल्का-फुल्का नाश्ता जैसे- केला, शकरकंद या ओट्स का सेवन करें। पैरों के मुताबिक शूज का चयन करें, जिससे कि वॉक के दौरान दिक्कत न हो। साथ ही शुरूआत में तेज चलने से बचना चाहिए और दूसरों को देखकर मॉर्निंग वॉक नहीं करनी चाहिए। बल्कि अपनी सुविधानुसार वॉक करें और बाद में थोड़ा सा पानी पिएं।

गर्मियों में डायबिटीज होगी कंट्रोल, बस करें इन चीजों का सेवन



गर्मियों में अक्सर गलत खान पान के कारण शरीर का ब्लड शुगर लेवल बढ़ने लगता है। अगर आप भी वहीं से गलती कर रहे हैं तो अभी से सुधार कीजिए। ब्लड शुगर बढ़ने के कारण डायबिटीज का खतरा कई गुना बढ़ जाता है। डायबिटीज को कंट्रोल करने के लिए आप कुछ चीजों का सेवन कर सकते हैं।

गर्मियों के मौसम में कुछ भी खाने की इच्छा नहीं होती है। कई बार तो खाना ही अच्छा नहीं लगता है, जिसके कारण हम सभी कुछ न कुछ खाते ही रहते हैं। कई बार गलत खानपान के कारण शरीर का ब्लड शुगर लेवल बढ़ने लगता है। डायबिटीज के मरीजों को गर्मियों के दौरान खानपान का विशेष ध्यान रखें। इन चीजों का सेवन करने से डायबिटीज को कंट्रोल किया जा सकता है। चलिए आपको बताते हैं।

यह काफी फायदेमंद हो सकता है।
करेला
गर्मी के दौरान करेला का सेवन करने से ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल करने में मदद मिलती है। करेले में पाए जाते हैं एंटी-ऑक्सीडेंट्स के गुण, जो ब्लड शुगर को कंट्रोल करते हैं। आप रोजाना करेला का जूस पी सकते हैं। यह सेहत के लिए काफी हेल्दी होता है।

सेब
गर्मियों में डायबिटीज के मरीजों सेब जरूर खाएं। सेब शरीर की इम्यूनिटी को बढ़ाने में मदद करता है। इसके साथ ही सेब में विटामिन-सी, विटामिन-ए और फाइबर जैसे पोषक तत्व पाए जाते हैं। यह ब्लड शुगर को कंट्रोल करने में मदद करता है।

पालक
गर्मी के मौसम में पालक का आप जितना सेवन करेंगे उतना ही फायदा मिलेगा। पालक में सबसे ज्यादा आयरन मौजूद होती है। पालक में पाए जाने वाले पोषक तत्व शरीर में इंसुलिन की मात्रा को कम करने में मदद करता है। डायबिटीज के रोगियों को पालक सेवन करना चाहिए। इसके सेवन से शरीर में कभी खून की कमी नहीं होती है।

अमरूद
जिनको डायबिटीज है उनको अमरूद खा सकते हैं। अमरूद में विटामिन-सी, विटामिन-ए, आयरन, पोटेशियम और कैल्शियम पाया जाता है। अमरूद का सेवन डायबिटीज के रोगियों के लिए बहुत ही फायदेमंद है। आप अमरूद के जूस का भी सेवन कर सकते हैं,

ब्रोकली
ब्रोकली का सेवन करने से ब्लड शुगर लेवल कंट्रोल होता है। इसमें कई पोषक तत्व पाए जाते हैं जैसे मिनरल्स और विटामिन होते हैं, जो शरीर के स्वस्थ रखने में मदद कर सकता है।

पाचन शक्ति बढ़ाने से लेकर बवासीर के लिए रामबाण इलाज है यह औषधि



हरड़ एक आयुर्वेदिक जड़ी बूटी है जिसके अनेक स्वास्थ्य लाभ हैं। एक्सपर्ट के मुताबिक, हरड़ पाचन तंत्र को बढ़ावा देती है। मूल त्याग में आसानी होती है और पुरानी कब्ज की स्थिति में मल को आसानी से बाहर करती है। हरड़ के चूर्ण को पानी में मिलाकर दिन में दो बार लेने से एंटीऑक्सीडेंट और इम्यूनोमॉड्यूलेटरी गतिविधियों के कारण कोशिका क्षति को कम करके प्रतिरक्षा प्रणाली को बढ़ावा मिलता है।

त्वचा के संक्रमण को दूर करता
हरड़ के चूर्ण को नारियल के साथ मिलाकर लगाने से पेस्ट के रूप में तेल का उपयोग इसके कसेले गुण के कारण घावों को भरने के लिए किया जाता है। हरण संक्रामक एजेंटों से लड़ने में काफी सहायक होता है और त्वचा के संक्रमण को रोकता है।
नेत्र रोगों के लिए फायदेमंद
हरड़ के अर्क को कुछ नेत्र रोगों

के प्रबंधन के लिए आप इसको पलकों पर लगा सकते हैं। याद रखें कि हरड़ का अधिक सेवन दस्त का कारण बन सकता है। इसके अलावा, आपकी स्किन ज्यादा ही संवेदनशील है तो हरड़ पेस्ट को नारियल तेल के साथ उपयोग करना उचित होगा।
खासी-जुकाम में फायदेमंद
हरड़ में कई फायदे होते हैं। यह कब्ज को नियंत्रित करता है, इसका चूर्ण का सेवन रात में करें। वहीं, हरड़ अपने कफ को संतुलित करने वाले गुण के कारण खांसी और जुकाम को स्वाभाविक रूप से रोकने के लिए अच्छा है।

नारियल का लड्डू दूर करेगा हड्डियों का दर्द, नोट करें आसान रेसिपी

अक्सर होता है कि हमें कुछ मीठा खाने का बहुत ही मन करता है। लेकिन घर पर मीठा खाने का कुछ बेहतर ऑप्शन नहीं होता है। तो ऐसे में हम सभी सोचते हैं कि आखिर क्या खाएं। मगर आप ज्यादा चिंता न करें हम आपके लिए लेकर आए नारियल लड्डू की रेसिपी, जो आयरन, फाइबर, प्रोटीन और कैल्शियम जैसी पोषक तत्वों से भरपूर होते हैं। जो शरीर के लिए काफी सेहतमंद रखने में मदद करते हैं। नारियल के लड्डू में भरपूर मात्रा में कैल्शियम पाया जाता है। जिस वजह से हड्डियों के लिए लाभकारी है और पीठ का दर्द भी दूर करता है। चलिए आपको इसकी रेसिपी बताते हैं।



नारियल लड्डू की सामग्री
- आधा किलो नारियल
- 300 ग्राम बबूल का गोंद
- 100 ग्राम - काजू, बादाम, अखरोट, किशमिश
- आधा किलो गुड़
- आधा किलो घी
नारियल लड्डू बनाने की विधि
- सबसे पहले आधा किलो नारियल लेंगे और ऊपर का ब्राउन पार्ट छीलकर उसे घिस लेंगे या आप इसे ग्राइंडर में पीस भी सकते हैं।
- गैस ऑन कर उस पर कड़ही रखें और उसमें

आधा कप घी डालें। फिर घी में काजू, बादाम, अखरोट, किशमिश को गोल्डन होने तक भूनें। अब इसमें जो कच्चा नारियल ग्राइंडर से ग्राइंड किया है उसे भी हल्का सुनहरा होने भून लें। अब नारियल को कड़ही से बाहर निकालें।
- अब आप 300 ग्राम गोंद और आधा किलो गुड़ डालें और उसे मेल्ट होने दें। दोनों को पिघलने तक पकाएं।
- जब तक गुड़ और गोंद मेल्ट हो रहे हैं तब तक रोस्ट किया हुआ ड्राइफ्रूट्स ग्राइंडर में पीस

लें। जब गुड़ और गोंद अच्छी तरह मेल्ट हो जाए तो इसमें नारियल का भूना हुआ बुरदा और ग्राइंड किया हुआ ड्राइ फ्रूट्स मिलाएं। सब सामग्रियां आपस में अच्छी तरह मिल जाएं तब गैस बंद कर दें।
- लड्डू का मिश्रण हल्का ठंडा हो जाए तब उसे हाथों में लेकर लड्डू बांधना शुरू करें। इसके बाद आप लड्डूओं को कढ़कस किए हुए नारियल के बुरदा में अच्छे से लपेटें। आपका स्वादिष्ट नारियल लड्डू तैयार है।

रात में बार-बार टूटती है नींद तो आप हो सकते हैं अनिद्रा के शिकार, इस तरह से पाएं निजात



कोरोना संक्रमण के बाद लोगों को कई तरह की गंभीर स्वास्थ्य समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। हेल्थ एक्सपर्ट्स के मुताबिक अब लोगों को हृदय और फेफड़ों से संबंधित रोगों का खतरा

अधिक देखा जा रहा है। वहीं लोगों की नींद भी बुरी तरह से प्रभावित हुई है। यही वजह है कि संक्रमण के कारण लोगों में अनिद्रा की समस्या देखने को मिल रही है। बता दें कि अनिद्रा, नींद संबंधी एक विकार है।

क्षमता और जीवन की गुणवत्ता को भी खराब कर सकती है। सभी लोगों को हर रोज पर्याप्त नींद लेना जरूरी होता है। वयस्कों को रोजाना 7-8 घंटे की नींद पूरी करनी चाहिए। यदि आपको नींद नहीं आती है, तो सावधान होने की जरूरत है। आप अनिद्रा का शिकार हो सकते हैं। वैसे तो इस समस्या के कई उपचार हैं। ऐसे में आज इस आर्टिकल के जरिए हम आपको खान-पान की कुछ ऐसी चीजों के बारे में बताने जा रहे हैं। जिनके सेवन से आप अनिद्रा से छुटकारा पा सकते हैं।
हल्दी वाला गर्म दूध
हेल्थ एक्सपर्ट्स के अनुसार, जिन लोगों में नींद से जुड़ी समस्या होती है। उनको रोजाना रात में सोने से पहले हल्दी वाले दूध का सेवन करना चाहिए। यह शरीर और दिमाग को आराम देने में सहायक होता है। दूध में ट्रिपटोफॉन पाया जाता है, जो

नींद को बढ़ावा देने में मदद करता है। वहीं शरीर की कोशिकाओं की हल्की मरम्मत कर शरीर को आराम देता है। रोजाना रात में सोने से पहले एक कप गर्म दूध में आप एक या आधा चम्मच हल्दी पाउडर मिलाकर पीना चाहिए। यह अनिद्रा की समस्या को दूर भगाने का अच्छा उपाय है।
केला
अनिद्रा की समस्या में केले को बहुत प्रभावी माना गया है। केले में मौजूद कैल्शियम, आयरन और पोटेशियम जैसे खनिज अच्छी और बेहतर नींद में सहायक होते हैं। सोने से करीब एक-दो घंटे पहले आप केले का सेवन कर सकते हैं। यह अनिद्रा की समस्या को दूर करने के साथ सेहत को भी लाभ पहुंचाता है। वहीं केले को अपनी डाइट में शामिल करने से आपको कई स्वास्थ्य फायदे हो सकते हैं।
केसर
अच्छी नींद के लिए केसर भी काफी फायदेमंद होता है। केसर में भी कई गुण पाए जाते हैं, जो अनिद्रा जैसी समस्या से राहत देते हैं। इसके लिए एक कप दूध में मिलाकर सोने से पहले पिएं। इससे आपको न सिर्फ बेहतर नींद आएगी, बल्कि आप सुबह उठकर फ्रेश फील करेंगे। यह रिकन और दिमाग के लिए भी लाभकारी होती है।
जायफल
घरों में मसाले के तौर पर जायफल का इस्तेमाल किया जाता है। यह कई औषधीय गुणों से भरपूर होता है। बता दें कि जायफल के इस्तेमाल से अनिद्रा की समस्या खत्म हो सकती है। इसके लिए आप दो चम्मच जायफल पाउडर को एक कप गर्म दूध में मिलाकर सोने से पहले पिएं। यह अनिद्रा के साथ ही अपच और अवदास में भी फायदेमंद है।

कर्नाटक की अदालत ने सिद्धारमैया और डीके शिवकुमार को दी जमानत

माजपा ने दायर किया था मानहानि का केस

बेंगलुरु। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया और उनके डिटी डीके शिवकुमार को भाजपा की तरफ से दायर मानहानि के मामले में अदालत ने जमानत दे दी। रिपोर्ट्स के मुताबिक भगवा पार्टी ने कांग्रेस नेताओं पर तत्कालीन मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई सहित अपनी पार्टी के नेताओं के खिलाफ झूठे विज्ञापन देने का आरोप लगाया था। सिद्धारमैया और शिवकुमार आज व्यक्तिगत रूप से 42वें अतिरिक्त मुख्य मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट के सामने पेश हुए।

कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया और उनके डिटी डीके शिवकुमार को भाजपा की तरफ से दायर मानहानि के मामले में अदालत ने जमानत दे दी। रिपोर्ट्स के मुताबिक, भाजपा ने

कांग्रेस नेताओं पर तत्कालीन मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई सहित



अपनी पार्टी के नेताओं के खिलाफ झूठे विज्ञापन देने का आरोप लगाया था। बता दें कि सिद्धारमैया और शिवकुमार आज व्यक्तिगत रूप से 42वें अतिरिक्त मुख्य मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट के सामने पेश हुए। उनकी दलील सुनने के बाद कोर्ट

ने उन्हें जमानत दे दी। बीजेपी एमएलसी और महासचिव केशव



प्रसाद ने सिद्धारमैया, शिवकुमार और कांग्रेस नेता रहलु गांधी के खिलाफ मानहानि का मुकदमा दायर किया था। वहीं कांग्रेस ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए अखबार में भ्रष्टाचार रेट कार्ड से विज्ञापन प्रकाशित करवाया था।

बता दें कि चुनाव आयोग ने विज्ञापन को आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन बताया था। ये विज्ञापन अखबार में प्रकाशित किए गए थे। इसके बाद कांग्रेस को कारण बताओ नोटिस भी जारी किया गया।

चुनाव आयोग ने कांग्रेस से 7 मई तक इस नोटिस का जवाब भी मांगा था। बता दें लोकसभा चुनाव के शुरू होते ही अचार संहिता लागू हो गई थी। आचार संहिता के प्रावधान 2 के मुताबिक चुनाव प्रचार के दौरान विरोधी पार्टी की वर्तमान और पूर्व नीतियों और मुद्दों पर बात की जा सकती है, लेकिन उन मुद्दों पर कोई बातचीत नहीं होगी, जिससे जनता का कोई लेना-देना न हो। अगर ऐसा होता है तो इसे आचार संहिता का उल्लंघन मान लिया जाता है।

प. बंगाल में मतदान के बाद भी 6 जून तक तैनात रहेंगी केंद्रीय बलों की 400 कंपनियां



कोलकाता (हि.स.)। पश्चिम बंगाल में कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए निर्वाचन आयोग ने यहां छह जून तक केंद्रीय बलों की 400 कंपनियां तैनात रखने का फैसला किया है। एक वरिष्ठ अधिकारी ने शनिवार को यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि चुनाव बाद संभावित हिंसा की खुफिया इनपुट मिलने के बाद यह निर्णय लिया गया है। उन्होंने कहा कि एक जून को मतदान होने के बाद केंद्रीय बल के आधे जवान यहां से चले जाएंगे लेकिन छह जून तक 400 कंपनियां यहां तैनात रहेंगी। अधिकारी ने कहा कि सीमा सुरक्षा बल (बीएसएफ), केन्द्रीय रिजर्व

पुलिस बल (सीआरपीएफ) और सशस्त्र सीमा बल (एसएसबी) की बटालियन यहां तैनात रहेंगी। चुनाव आयोग के सूत्रों ने बताया है कि पश्चिम बंगाल में राजनीतिक हिंसा के लंबे रिकॉर्ड को देखते हुए यह निर्णय लिया गया है। फिलहाल पूरे राज्य में केंद्रीय बलों की 1020 कंपनियां चुनाव के दौरान तैनात की गई थीं। इसके बावजूद कई क्षेत्रों में चुनावी हिंसा की गतिविधियां होती रही हैं। स्थानीय पुलिस पर लोगों को बिल्कुल भी भरोसा नहीं है और सत्तारूढ़ वृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की वजह से उर का माहौल है। कई इलाकों में लोग चुनाव बाद घर छोड़कर चले जाने को मजबूर हो सकते हैं।

बराक घाटी में संभावित बाढ़ का खतरा, एनडीआरएफ की अतिरिक्त टीम हवाई मार्ग से सिलचर भेजी गई

- बराक घाटी का रेल एवं सड़क संपर्क अवरुद्ध
- विशेष सुरक्षा के बीच चलाए जा रहे छोटे वाहन



सिलचर भेजा गया। यह तैनाती क्षेत्र में पहले से ही तैनात एनडीआरएफ टीम के अतिरिक्त है। इस तैनाती का उद्देश्य बराक घाटी में बाढ़ के प्रभावों का कुशलतापूर्वक प्रबंधन करने और तत्काल सहायता और समर्थन प्रदान करना है। एनडीआरएफ हमेशा की तरह

प्लास्टिक मुक्त ब्रह्मपुत्र की अलख जगाने तीन हजार बेकार बोटलों से बनी नाव पर निकले चार युवा

ऊपरी से निचले असम तक की साहसिक यात्रा 13 दिन में करेंगे पूरी

डिब्रूगढ़ (असम) (हि.स.)। डिब्रूगढ़ के चार युवाओं का एक समूह आज ब्रह्मपुत्र नद के बढ़ते जलस्तर की परवाह किये वगैर एक साहसिक यात्रा पर निकला है। डिब्रूगढ़ के बोगोबिल जल के परिसर से ब्रह्मपुत्र के उपनत जल के रास्ते सुदूर गुवाहाटी तक की 13-दिवसीय साहसिक यात्रा आरंभ हुई है। यह यात्रा बांस या केले के पेड़ के तनों से बनी नाव से नहीं बल्कि ब्रह्मपुत्र की तेज लहरों, वरसाती बाढ़, पानी, धूप, बारिश, हवा और तूफान के बीच सिर्फ प्लास्टिक की बोटलों से तैयार की गयी नाव के जरिए आरंभ हुई है।

धीरज विकास गोगोई द्वारा डिब्रूगढ़ में अपशिष्ट जल की बोटलों के साथ विशेष रूप से एक विशेष नाव का निर्माण किया गया है। यह उस बेकार प्लास्टिक की बोटल की नाव के माध्यम से ऊपरी से निचले असम तक की यात्रा है।



यह डिब्रूगढ़ बोगोबिल से गुवाहाटी तक की यात्रा है, जिसमें प्लास्टिक-मुक्त ब्रह्मपुत्र और नदी पर्यटन उनके विषयों के रूप में हैं। ब्रह्मपुत्र की उपनती जलधारा पर पानी की कुल 3,000 बोटलों के साथ तीस फुट लंबी और आठ फुट चौड़ी नाव में चारों युवक हर दिन यात्रा करेंगे। रात ब्रह्मपुत्र के चापरी (नद

के छड़िन वाले इलाके) में बिताएंगे।

उल्लेखनीय है कि इससे पहले विकास गोगोई ने तीन अन्य युवकों के साथ 2021 में प्लास्टिक की बोटलों से बनी नाव के जरिए डिब्रूगढ़ से माजुली की यात्रा की थी। चारों युवक ब्रह्मपुत्र के रास्ते यात्रा अवधि के दौरान विभिन्न स्थानों पर प्लास्टिक के उपयोग के खिलाफ जागरूकता फैलाने का भी कार्य करेंगे। धीरज विकास गोगोई ने आज इसी उद्देश्य और लक्ष्य के साथ इस सफर की शुरुआत की। धीरज विकास गोगोई की यात्रा को आज असम वितरण निगम के अध्यक्ष ऋतुपर्णा बरुवा ने रवाना किया।

विभिन्न शुभचिंतकों और प्रकृति-प्रेमी संगठनों ने नदी पर्यटन के साथ-साथ प्लास्टिक मुक्त ब्रह्मपुत्र के साथ महाबाहु ब्रह्मपुत्र की यात्रा की शुभकामनाएं दी।

प. बंगाल में मतदान के बाद भी 6 जून तक तैनात रहेंगी केंद्रीय बलों की 400 कंपनियां

कोलकाता (हि.स.)। पश्चिम बंगाल में कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए निर्वाचन आयोग ने यहां छह जून तक केंद्रीय बलों की 400 कंपनियां तैनात रखने का फैसला किया है। एक वरिष्ठ अधिकारी ने शनिवार को यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि चुनाव बाद संभावित हिंसा की खुफिया इनपुट मिलने के बाद यह निर्णय लिया गया है। उन्होंने कहा कि एक जून को मतदान होने के बाद केंद्रीय बल के आधे जवान यहां से चले जाएंगे लेकिन छह जून तक 400 कंपनियां यहां तैनात रहेंगी। अधिकारी ने कहा कि सीमा सुरक्षा बल (बीएसएफ), केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल (सीआरपीएफ) और सशस्त्र सीमा बल (एसएसबी) की बटालियन यहां तैनात रहेंगी।

चुनाव आयोग के सूत्रों ने बताया है कि पश्चिम बंगाल में राजनीतिक हिंसा के लंबे रिकॉर्ड को देखते हुए यह निर्णय लिया गया है। फिलहाल पूरे राज्य में केंद्रीय बलों की 1020 कंपनियां चुनाव के दौरान तैनात की गई थीं। इसके बावजूद कई क्षेत्रों में चुनावी हिंसा की गतिविधियां होती रही हैं। स्थानीय पुलिस पर लोगों को बिल्कुल भी भरोसा नहीं है और सत्तारूढ़ वृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की वजह से उर का माहौल है। कई इलाकों में लोग चुनाव बाद घर छोड़कर चले जाने को मजबूर हो सकते हैं। ऐसी खुफिया रिपोर्ट मिलने के बाद ही मतदाताओं की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए यह निर्णय लिया गया है। इस बीच, कोलकाता पुलिस ने शुक्रवार रात हवाइ ब्रिज के पास जांच के दौरान चार बाइक सवार लोगों से 10 लाख रुपये से अधिक नकदी बरामद की। पुलिस ने बताया कि उन्हें हिरासत में ले लिया गया है। उल्लेखनीय है कि लोकसभा चुनाव के सातवें और अंतिम चरण के तहत एक जून को पश्चिम बंगाल की दमदम, बारासत, बर्हीसदर, जयनगर, मथुरापुर, डायमंड हाबर, जादवपुर, कोलकाता दक्षिण और कोलकाता उत्तर सीट पर मतदान जारी है।

नेपाल में कई जगहों पर 4 जून को भाजपा की जीत का जश्न मनाने की तैयारी

काठमांडू (हि.स.)। भारत में लोकसभा चुनाव के मतों की गिनती 04 जून को होनी है। नतीजे भी उसी दिन आ जाएंगे। भाजपा और नरेन्द्र मोदी की जीत सुनिश्चित मान कर अभी से पड़ोसी देश नेपाल में जश्न मनाने की तैयारियां शुरू हो गई हैं। मतगणना वाले दिन देश के कई हिस्सों में अलग-अलग कार्यक्रम रखे गए हैं। फ्रेड्स ऑफ बीजेपी ने काठमांडू में चार जून को रात्रिभोज का आयोजन किया है। इसमें नेपाल के प्रधानमंत्री, कई मंत्रियों, सभी राजनीतिक दल के शीर्ष नेताओं, सांसदों, सेना और पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों, पूर्व न्यायाधीश, सामाजिक कार्यकर्ता, फिल्मी सितारों सहित कई देशों के राजनियों को आमंत्रित किया गया है। इसी तरह नेपाल के लगभग सभी बड़े शहरों में चार जून की शाम को कार्यक्रम का आयोजन किया गया है।

नेपाल में प्रचंड से ओली नाराज, सहयोगी दलों से बिना सलाह के ही बजट लाने का आरोप

काठमांडू (हि.स.)। नेपाल में सीपीएन (एमसी) के नेतृत्व वाले सत्तारूढ़ गठबंधन के घटक दलों का कोई न कोई विवाद हर रोज सामने आने लगा है। सत्तारूढ़ दल के एक वरिष्ठ नेता के विपक्षी गठबंधन की बैठक में शामिल होने की खबर आती है तो कभी संसदीय समिति के गठन को लेकर विवाद की बात सुर्खियां बन जाती हैं। ताजा विवाद सत्तारूढ़ गठबंधन के घटक दल सीपीएन (यूएमएल) के अध्यक्ष केपी शर्मा ओली के एक बयान के बाद सामने आया है। ओली ने हाल में पेश किए गए आम बजट को लेकर प्रधानमंत्री पुष्पकमल दाहाल प्रचंड पर अपनी नाराजगी सार्वजनिक रूप से जाहिर की है। ओली ने शनिवार को काठमांडू में आयोजित एक कार्यक्रम में कहा कि सरकार की तरफ से बजट को लेकर घटक दलों के साथ कोई विचार-विमर्श नहीं किया गया। उन्होंने बजट

पर अपनी प्रतिक्रिया में कहा कि बजट पर क्या अच्छा है और क्या बुरा, इस बात का विश्लेषण तो बाद



में होगा लेकिन सबसे अहम बात यह है कि गठबंधन सरकार होने के बावजूद सबसे बड़े दल के नेता के रूप में बजट पर ना तो मुझसे और ना मेरी पार्टी के किसी भी साथी से कोई विचार-विमर्श किया गया। उन्होंने कहा कि गठबंधन में कोई भी दल गठबंधन धर्म का निर्वाह नहीं कर रहा है। माधव कुमार नेपाल का उल्लेख किए बिना ओली ने कहा कि

सत्ताधारी एक दल का अध्यक्ष ही जब विपक्षी गठबंधन की बैठक में शामिल होने लगे तो इस गठबंधन



का क्या काम? ओली ने कहा कि इस तरह से गठबंधन आगे नहीं बढ़ सकता है। इस विषय पर गठबंधन की बैठक में गाम्भीरता से चर्चा करने की आवश्यकता है। सबसे बड़ी पार्टी होने के बावजूद संसद की तीसरी बड़ी पार्टी के नेता को प्रधानमंत्री त्वांकार कर गठबंधन को लंबे समय तक चलाने की सोच को धका लगा है।

नेपाल में दरबार हत्याकांड के 23 वर्ष बाद भी हैं कई अनुत्तरित सवाल

काठमांडू (हि.स.)। नेपाल के शाही परिवार में हुए सामूहिक हत्याकांड के 23 वर्ष पूरे हो रहे हैं लेकिन आज भी इससे जुड़े कई सवाल अनुत्तरित रह गए हैं।

एक जून, 2001 को काठमांडू के नारायणहिटी राजदरबार में हर शुक्रवार की तरह उस दिन भी रात्रिभोज का आयोजन किया गया था। इस बार का आयोजन युवराज दीपेन्द्र वीर विक्रम शाह के महल में किया गया था। इस भोज के लिए तत्कालीन राजा बीरेन्द्र वीर विक्रम शाह, रानी ऐश्वर्या राज्यलक्ष्मी शाह, अधिराज कुमार श्रुति, पूरे परिवार के साथ, अधिराजकुमार निराजन, पूर्व राजा ज्ञानेंद्र के अलावा उनकी पत्नी कोमल, उनके बेटे पारस, बहु हिमानी, उनकी बेटियां आदि मौजूद थे। रात करीब 9 बजे पूरे राजपरिवार के हत्याकांड की खबरें छन-छन कर बाहर आने लगीं। देर रात पूरे राजपरिवार के मारे जाने की खबर की पुष्टि हो गई। पूरा देश सदमें में चला गया। इस हत्याकांड के युवराज दीपेन्द्र के द्रव्य अंजाम दिए जाने बात सामने आई लेकिन इस पर जनता को आज भी भरोसा नहीं हो रहा

है। लोगों का तर्क है कि एक युवराज अपने ही मां-बाप, भाई-बहन की हत्या कैसे कर सकता है? अगर इनकी



दुश्मनी या गुस्सा अपने पिता या माता से था फिर अपनी बहन और छोटे भाई को क्यों मारा? अगर इनको भी मार दिया तो यह एक बार को मान भी लिया जाए तो फिर उसने अपने नाबालिग भाजे-भाजियों की जान क्यों ली? उस समय यह भी कहानी बताई गई कि अपने पूरे परिवार को गोलीयों से भून कर खत्म करने वाले दीपेन्द्र ने आत्महत्या कर ली। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में यह लिखा है कि दीपेन्द्र को पीठ में गोली लगी थी। अगर कोई व्यक्ति आत्महत्या करता है तो वह

अपनी पीठ में गोली मारना या कनपटी पर? पहले जिन खबरों ने उनके पीठ में गोली लगने की बात कहकर इलाज



की थी उन्हीं खबरों ने चार दिन बाद बताया कि उनके सिर में गोली लगने से उनकी मौत हो गई। गोली उनके बाईं कनपटी पर लगी थी जबकि युवराज दीपेन्द्र दाहिने हाथ से काम करते थे तो फिर उन्हीं को क्यों बाईं हाथ से कैसे गोली मारी होगी? इनमें सबसे चौंकारने वाली बात यह है कि वहां मौजूद एक भी शाही परिवार का सदस्य नहीं बचा। यानी कि राजा बीरेन्द्र के परिवार के सभी सदस्य मारे गए। यहां तक कि छोटे बच्चे भी उस परिवार के नहीं बचे। वहां मौजूद बीरेन्द्र

के छोटे भाई धीरेन्द्र की पत्नी, उनके बेटे-बेटियां भी नहीं बच सके। सब के सब मारे गए लेकिन आश्चर्यजनक ढंग से उसी स्थान पर मौजूद ज्ञानेन्द्र की पत्नी, उनके बेटे पारस, बहु हिमानी, इनके तीन बच्चे, इनकी बेटियां एवं दामाद में से किसी को खरोंच तक नहीं आई। सभी राजपरिवार के सदस्यों की अनिवार्य उपस्थिति वाले इस भोज में आखिर ज्ञानेन्द्र क्यों नहीं पहुंचे?

ऐसे कई सवाल हैं जो आज भी अनुत्तरित हैं। आखिर पूरे परिवार की हत्या के बाद किसी भी सदस्य का पोस्ट मार्टम क्यों नहीं कराया गया? दरबार से सबसे पास में रहे बीरेन्द्र अस्पताल में इलाज कराने के बदले 8 किमी दूर आर्मी कैंट के अस्पताल तक ले जाने का फैसला किसका था? खबरों में कभी कोई आवश्यक जानकारी क्यों नहीं दिया? ज्ञानेन्द्र के परिवार के सभी सदस्यों के वहां मौजूद रहने के बाद भी उनके परिवार को खरोंच तक क्यों नहीं आया? राजदरबार के टीक सामने रहे अमेरिकी दूतावास में हलचल तेज रहने की जानकारी क्यों नहीं ली गई?

भारत-अमेरिका संबंध समान दृष्टिकोण पर आधारित, शांगरी ला डायलॉग में बोले अमेरिकी रक्षा मंत्री

सिंगापुर। अमेरिका के रक्षा मंत्री लॉयड जे आर्स्टिन ने शनिवार को कहा कि अमेरिका-भारत संबंध एक समान दृष्टिकोण और मूल्यों पर आधारित हैं। रिश्ते में गति न केवल जारी रहेगी बल्कि इसमें तेजी आएगी। आर्स्टिन द्विपक्षीय संबंधों के बारे में शांगरी ला डायलॉग में एक प्रतिनिधि के सवाल का जवाब दे रहे थे। सिंगापुर में प्रतिवर्ष आयोजित होने वाला शांगरी ला डायलॉग एशिया का प्रमुख रक्षा शिखर सम्मेलन है।

अमेरिका के रक्षा मंत्री लॉयड जे आर्स्टिन ने शनिवार को कहा कि अमेरिका-भारत संबंध एक समान दृष्टिकोण और मूल्यों पर आधारित हैं। रिश्ते में गति न केवल जारी रहेगी, बल्कि इसमें तेजी आएगी।

आर्स्टिन द्विपक्षीय संबंधों के बारे में शांगरी ला डायलॉग में एक प्रतिनिधि के सवाल का जवाब दे रहे

थे। सिंगापुर में प्रतिवर्ष आयोजित होने वाला शांगरी ला डायलॉग



एशिया का प्रमुख रक्षा शिखर सम्मेलन है। उन्होंने कहा कि हम भारत के साथ बख्तरबंद वाहनों का सह-उत्पादन कर रहे हैं। परियोजना पर अच्छी प्रगति हुई है। आर्स्टिन ने कहा कि हिंद प्रशांत क्षेत्र में अमेरिका महत्वपूर्ण भूमिका निभाता रहेगा। क्षेत्र में हम अपने मित्रों के साथ

मिलकर राष्ट्रीय बंधनों को तोड़ रहे हैं और बेहतर तरीके से रक्षा क्षेत्र में



जुड़ रहे हैं। उन्होंने कहा कि हम उन क्षमताओं में निवेश कर रहे हैं जो क्षेत्र में सुरक्षा और स्थायित्व लाएंगे। साथ ही हम यह सुनिश्चित कर रहे हैं कि हिंद प्रशांत क्षेत्र सुरक्षित रहे। उन्होंने इस दौरान यह जानकारी दी कि आखिर अमेरिका क्यों क्षेत्र में उपस्थित बनाए हुए है। उन्होंने जोर देकर कहा

अमेरिका सिर्फ तभी सुरक्षित रह सकता है, जब एशिया सुरक्षित रहे।

हिंद-प्रशांत क्षेत्र के अंतर्गत हिंद महासागर और दक्षिणी चीन सागर समेत ताइवान, फिलीपींस, बुनेई, मलयेशिया और वियतनाम शामिल है। आर्स्टिन ने प्रतिनिधियों को बताया कि अमेरिकी रक्षा अद्योग को जापान समेत अन्य कई देशों के साथ एकीकृत किया जा रहा है। उन्होंने कहा, हम साथ मिलकर उन क्षमताओं में निवेश कर रहे हैं, जो स्थायी सुरक्षा और स्थिरता को बढ़ावा देता है।

लॉयड ने बताया, हम अपने निवेश को अपनी रणनीति से जोड़ते हैं। उन्होंने कहा कि अमेरिका तभी सुरक्षित रह सकता है जब एशिया सुरक्षित रहेगा। इसी वजह से अमेरिका लंबे समय से ही एशियाई क्षेत्रों में अपनी उपस्थिति बनाए हुए है।

अफगानिस्तान में नाव पलटने से बड़ा हदसा, पानी में डूबने से 20 लोगों की मौत

जलालाबाद। अफगानिस्तान के पूर्वी प्रांत नांगरहार में नाव पलटने से दर्दनाक हादसा हो गया। यहां नदी में एक नाव पलट गई जिसमें 20 लोगों की मौत हो गई है। अलजजोरा की रिपोर्ट के मुताबिक नांगरहार प्रांत के सूचना विभाग के प्रमुख कुरेशी बडलून ने एक्स पर एक पोस्ट में कहा महिलाओं और बच्चों से भरी एक नाव सुबह 7 बजे मोमंद दारा जिले के बसावुलु क्षेत्र की नदी में डूब गई।

अफगानिस्तान के पूर्वी प्रांत नांगरहार में शनिवार को नाव पलटने से दर्दनाक हादसा हो गया। यहां नदी में एक नाव पलट गई, जिसमें 20 लोगों की मौत हो गई है। अलजजोरा की रिपोर्ट के मुताबिक, नांगरहार प्रांत के सूचना विभाग के प्रमुख कुरेशी बडलून ने एक्स पर एक पोस्ट में कहा, महिलाओं और बच्चों से भरी एक नाव सुबह 7 बजे मोमंद दारा जिले के बसावुलु क्षेत्र की नदी में डूब गई।

भारतीय मूल की सुनीता विलियम्स तीसरी बार करेंगी अंतरिक्ष की सैर

वाशिंगटन (अमेरिका)। भारतीय मूल की अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम्स एक बार फिर अंतरिक्ष में उड़ान भरने जा रही हैं। वह नासा के स्टारलाइनर से शनिवार को अंतरिक्ष में उड़ान भरेंगी, जो पत्तोरीडा के केनेडी स्पेस सेंटर से आज रात 10 बजे उड़ान भरेंगी। इससे पहले अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा और विमान निर्माता कंपनी बोइंग के संयुक्त मिशन में कुछ दिक्कतें आई थीं।

सात मई को अंतरिक्ष यान के ऑक्सिजन वाल्व में तकनीकी खामी के कारण उनकी उड़ान को रोक दिया गया था। मिशन को लेकर अमेरिका के स्पेस एजेंसी नासा ने कहा, अगर सब सही रहा तो स्टारलाइनर अंतरराष्ट्रीय स्पेस स्टेशन पर डॉक कर जाएगा, जिसके बाद सुनीता विलियम्स और बुच विल्मोर अपने साथियों के साथ स्टारलाइनर अंतरिक्ष यान और उसके उप-

प्रणालियों का परीक्षण करने के लिए लगभग एक सप्ताह तक स्टेशन पर रहेंगे।

नासा के अनुसार, परिक्रमा कर रहे अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन (आईएसएस) के लिए उड़ान आज भारतीय मानक समय के अनुसार रात 10 बजे पत्तोरीडा के केनेडी स्पेस सेंटर से उड़ान भरने वाली है। विलियम्स और नासा के साथी अंतरिक्ष यात्री बुच विल्मोर अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी के वाणिज्यिक चालक दल कार्यक्रम के हिस्से के रूप में स्टारलाइनर अंतरिक्ष यान पर सवार होने वाले पहले इंसान होंगे।

स्टारलाइनर अंतरिक्ष यान को रॉकेट कंपनी यूनाइटेड लॉन्ज अलॉयर्स (यूएलए) के एटलस 5 रॉकेट पर अंतरिक्ष में भेजा जाएगा। यह रविवार को आईएसएस से डॉक करेगा और अंतरिक्ष यात्री लगभग एक सप्ताह तक आईएसएस से कई तरह के परीक्षण करेंगे। नासा ने कहा

कि इसके बाद स्टारलाइनर आईएसएस से अलग होकर पृथ्वी के वायुमंडल में वापस आएगा और 10 जून को दक्षिण-पश्चिमी संयुक्त राज्य अमेरिका में पैराशूट और एयरबैग की सहायता से लैंडिंग करेगा।

यदि यह मिशन सफल होता है, तो नासा स्टारलाइनर और इसकी प्रणालियों को अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन के लिए चालक दल रोटेशन मिशन के लिए प्रमाणित करने की अंतिम प्रक्रिया शुरू कर देगा। स्टारलाइनर कैम्पूल चार अंतरिक्ष यात्रियों या चालक दल और कार्गो के मिशन को नासा मिशन के लिए पृथ्वी की निचली कक्षा में ले जाएगा। बता दें कि सुनीता विलियम्स अंतरिक्ष में रिकॉर्ड 322 दिन बिता चुकी हैं और उनके पास सबसे ज्यादा घंटे तक स्पेसवॉक करने वाली महिला वैज्ञानिक होने का रिकॉर्ड है।

काम से घर लौट रहे युवक को मारी गोली

अवधनामा संवाददाता

प्रयागराज। गांजा गांव में बाइक हटाने-बढ़ाने को लेकर हुए विवाद के बाद जैनैंद्र सिंह को गोली मार दी गई। जख्मी जैनैंद्र सिंह को स्वरूपरानी नेहरू अस्पताल में भर्ती कराया गया है। मामले में पीड़ित के चाचा राम बहादुर सिंह ने एयरपोर्ट थाने में मोनू सिंह, कल्लू सिंह, अंश सिंह व दो अज्ञात के खिलाफ हत्या की कोशिश समेत अन्य धाराओं में मुकदमा दर्ज कराया है। पुलिस अब तक एक भी अभियुक्त को गिरफ्तार नहीं कर सकी है। एयरपोर्ट थाना क्षेत्र के गांजा गांव निवासी राम बहादुर सिंह का आरोप है कि 24 मई की रात उसका भतीजा जैनैंद्र रात करीब 10 बजे बाइक

आगे-पीछे करके खड़ी कर रहा था। इसी को लेकर मोनू सिंह से झगड़ा हो गया, लेकिन बुजुर्गों ने शांत करवा दिया था। मगर उसी रोज़श को लेकर 26 मई की शाम जब उनका भतीजा जैनैंद्र अपने काम से पावर हाउस की तरफ जा रहा था, तभी पहले से घात लगाए बैठे मोनू, उसके भाई कल्लू और अंश ने घेर लिया। कहते लगे कि मांरो बचकर जाने न पाए। तब मोनू ने तमंचे से फायरिंग कर दी और गोली जैनैंद्र को लग गई। फायरिंग की आवाज सुन आसपास के लोग पहुंचे तो हमलावर जान से मारने की धमकी देते हुए भाग निकले। राम बहादुर जब मौके पर पहुंचे तो भतीजा खुन से लथपथ जमीन पर तड़प रहा था, जिसे अस्पताल में भर्ती कराया।

प्रो. मनोज बने संकायाध्यक्ष



जौनपुर। वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय की कुलपति प्रो. वंदना सिंह ने जनसंचार विभाग के अध्यक्ष प्रो. मनोज मिश्र को वरिष्ठता के आधार पर अनुसूचित सामाजिक विज्ञान एवं मानविकी संकाय का नया संकायाध्यक्ष नामित किया है। कुलसचिव महेंद्र कुमार ने शनिवार को पत्र जारी करते हुए मई 2027 तक तीन साल का कार्यकाल निर्धारित किया है। विदित है कि डॉ. मिश्र का 25 वर्षों से अधिक का शिक्षण तथा शोध का अनुभव है। प्रो. मिश्र कार्यपरिषद-विद्या परिषद, अध्ययन परिषद एवं परीक्षा समिति के सम्मानित सदस्य रहे हैं। उत्तर प्रदेश शासन के उच्च शिक्षा विभाग द्वारा प्रवेश सेंटर आफ एक्सीलेंस-अनुवाद एवं उ.प्र. संस्कृति विभाग से आच्छादित कलचल क्लब के समन्वयक तथा विज्ञान प्रसार, भारत सरकार, नई दिल्ली के प्रकाशन विभाग द्वारा हिंदी में अनुवादित पुस्तकों के सम्पादक भी रह चुके हैं। विज्ञान संचार, साहित्य, शिक्षा एवं लोक संस्कृति के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान के लिए डॉ. मिश्र को राष्ट्रीय मंचों पर कई बार सम्मानित किया गया है। संकायाध्यक्ष नामित होने पर प्रो. बीबी तिवारी, प्रो. अविनाश पाथरीकर, प्रो. अजय प्रताप सिंह, प्रो. संदीप सिंह, प्रो. देवराज सिंह, प्रो. मानस पांडेय, डॉ. अमित वत्स, प्रो. अशोक श्रीवास्तव, प्रो. रजनीश भास्कर, प्रो. मुराद अली, प्रो. प्रमोद यादव, डॉ. दिग्विजय सिंह राठौर, डॉ. सुनील कुमार, डॉ. पुनीत धवन, प्रो. गिरिधर मिश्र, डॉ. सुधीर उपाध्याय, कर्मचारी संघ के अध्यक्ष नन्द किशोर सिंह सहित परिसर के शिक्षकों एवं शिक्षणोत्तर कर्मियों ने प्रो. मिश्र को बधाई

अतीक अहमद के शूटों को शस्त्र लाइसेंस देने के मामले में शुरु हुई जांच

अवधनामा संवाददाता

प्रयागराज। बसपा के पूर्व विधायक राजू पाल हत्याकांड के आरोपी शूटर अब्दुल कवि के मुकदमे के मामले में कौशांबी के सीओ चावल, थाना प्रभारी और चौकी प्रभारी के विरुद्ध अब एंटी करप्शन टीम ने जांच शुरु कर दी है। घटना के बाद से फरारी काटने वाले आरोपियों के बने शस्त्र लाइसेंस बना का हर वर्ष नवीनीकरण किया गया। जिसका खुलासा अब जांच में सुलभर सामने आया है। इस मामले में जल्द ही कुछ पुलिस कर्मियों पर गाज गिर सकती है।

पूर्व विधायक राजू पाल हत्याकांड मामले में लगभग दो दशक तमक फरार रहा अतीक अहमद हर खास शूटर

अब्दुल कवि पर कौशांबी की पुलिस काफी मेहरबान रही। पुलिस ने न केवल उसका शस्त्र लाइसेंस जारी किया था बल्कि उस लाइसेंस का हर साल नवीनीकरण भी किया जाता रहा। इस मामले में शासन के आदेश पर प्रयागराज एंटी करप्शन टीम ने अब जांच शुरू कर दी है। इसमें सीओ, थाना प्रभारी, चौकी प्रभारी समेत कुछ अन्य पुलिसकर्मियों की भूमिका संदिग्ध है। जिसकी जांच की जा रही है।

उमेश पाल हत्याकांड के बाद पत्नी पूजा पाल नर अब्दुल कवि के खिलाफ शिकायत की थी। जिसके बाद मामले में एस्पी कौशांबी बृजेश श्रीवास्तव ने अब्दुल कवि के खिलाफ सच्य आरोपण नमाले हुए उसके से भर्खंदा गांव में छापामारी की

सीओ सहित कई पुलिसकर्मियों पर गिरेगी गांज

थी। उस दौरान उसके घर से भस्मी मात्रा में असलहों की जखीरा बरामद किया गया था। जिसके बाद अब्दुल कवि ने कोर्ट में सरेंजर कर दिया। पुलिस की पूछताछ में यह बात सामने आई थी कि पूर्व विधायक राजू पाल की हत्या के बाद कौशांबी से उसे शस्त्र लाइसेंस जारी किया गया था। जिसका नवीनीकरण थाने की पुलिस हर साल करती थी।

इस मामले की जांच पहले पुलिस ही कर रही थी। मामले में लीपापोती होने के बाद इस जांच को शासन के आदेश पर भ्रष्टाचार निवारण समंठन को जांच सौंप दिया गया था। इसके

बाद प्रयागराज यूनिट टीम ने सीओ चावल श्यामकान्त, थानाध्यक्ष संदीपनचाट राकेश कुमार राय, चौकी प्रभारी हरियापुर कृष्ण कुमार यादव के खिलाफ जांच शुरु की है। फिलहाल अब टीम इस मामले में पुलिसकर्मियों का बयान दर्ज कर रही है। शुरुआती जांच में यह बात सामने आई है कि पुलिस ने अब्दुल कवि को वांटेड घोषित कर के थाने पर रिपोर्ट नहीं भेजी थी। अतीक अहमद का करीबी शूटर अब्दुल कवि काफी समय तक पुलिस के नासूर बना रहा। अतीक के इशारे पर कवि ने राजू पाल पर गोलियां बरसाई थीं। जिसमे कवि को भी गोली लगी थी। जिसके बाद उसका इलाज प्राइवेट अस्पताल में कराया गया था। घटना में राजू पाल की पत्नी पूजा पाल ने केस दर्ज

कराया था लेकिन अब्दुल कवि साफ बच गया था। बाद में जांच में उसका नाम सामने आया लेकिन वह पुलिस की पकड़ से बाहर रहा। मामले की जांच जब सीबीआई को दी गयी तो अब्दुल को मोस्ट वांटेड किया गया। इसके बाद भी वह गिरफ्तार नहीं हो सका। राजूपाल हत्याकांड के मुख्य गवाह उमेश पाल की 24 फरवरी 2023 को उसके घर के पास ही गोली और बम मारकर हत्या कर दी गयी। जिसके बाद फिर एक बाद पुलिस को अब्दुल कवि की याद आ गयी और उसकी तलाश तेज कर दी गयी। सीबीआई की जांच में भी उसे वांटेड किया गया है। अब्दुल पर एक लाख का इनाम भी घोषित किया गया है। जिसकी तलाश में ताबड़तोड़ छापामारी की गई।

भूमि/बीज शोधन अवश्य करें किसान

अवधनामा संवाददाता

जौनपुर। जिला कृषि रक्षा अधिकारी ने अगवत कराया है कि बीज जनित/भूमि जनित रोगों से आगामी बोई जाने वाली फसल के बचाव हेतु बीज शोधन का अत्यधिक महत्व है। बीज शोधन द्वारा फसल की रोगों से सुरक्षा कर अधिक पैदावार ली जा सकती है जिससे कृषकों की आर्थिक स्थिति भी सुदृढ़ होगी। इसी प्रकार अनेक प्रमुख कीटों की प्रावस्थायें व भूमिजनित रोगों के कारक भूमि में पाये जाते हैं जो फसलों को विभिन्न प्रकार से क्षति पहुंचाते हैं प्रमुख रूप से दीमक, सफेद गिडार, भास्कर, प्रो. मुराद अली, प्रो. प्रमोद यादव, डॉ. दिग्विजय सिंह राठौर, डॉ. सुनील कुमार, डॉ. पुनीत धवन, प्रो. गिरिधर मिश्र, डॉ. सुधीर उपाध्याय, कर्मचारी संघ के अध्यक्ष नन्द किशोर सिंह सहित परिसर के शिक्षकों एवं शिक्षणोत्तर कर्मियों ने प्रो. मिश्र को बधाई

बन हानि पहुंचाते हैं। इन कीट व्याधियों की रोकथाम हेतु कृषि रक्षा रसायनों का आवश्यकतानुसार प्रयोग करना पड़ता है। फलस्वरूप अधिक हान्य हो जाने के कारण उत्पादन लागत में वृद्धि होती है। बीज बोने व पौधरोपण के पूर्व समय से संस्तुत कृषि रसायनों तथा जैविक रसायनों (बायोपेस्टी साइड्स) से बीजशोधन/भूमिशोधन द्वारा कीट/ रोगों की सम्भावित क्षति प्रारम्भ में ही रोककर स्वस्थ फसल से भरपूर फलवातयुक्त उत्पादन प्राप्त होगा। गुणात्मक उत्पादन लागत भी कम होगी। जिला कृषि रक्षा अधिकारी विवेक कुमार ने जनपद के किसान भाइयों को सलाह दी है कि फसलों में लगने वाले विभिन्न रोगों से बचाव हेतु निम्न विवरण के अनुसार भूमि शोधन/बीजशोधन कार्य करें। भूमिगत कीटों दीमक, सफेद गिडार, सूत्रकृमि, पाये जाते हैं, जो अनुकूल परिस्थितियों में पौधे की विभिन्न प्रावस्थाओं को संक्रमित कर फसल उत्पादन में बाधक

हेतु ब्यूवेरिया बैसियाना 1 प्रतिशत 2.5 कि०ग्रा० अथवा फेनबेलेरेट 0.4 प्रतिशत 25 किग्रा अथवा क्लोरोपाइरीफॉस 20 प्रतिशत 2.5 लीटर अथवा मेटारहाइजिम एनीसोप्ली 1.15 प्रतिशत 2.5 किग्रा अथवा काभेप्रॉनरान 3जी अथवा फोरेट 10जी 25-30 किग्रा प्रति हेक्टेयर के दर से प्रयोग करें। भूमि जनित रोगों जीवाणु झुल्ला/पत्तीधारी रोग,फाल्स स्टेम/शीथ ब्लाइट, उकटा, रूट रोट, स्टेम कैंडर, कॉलर रोट, बैक्टीरियल ब्लाइट, डैमिंग ऑफ एवं डान्डी मिल्ड्यू आदि की रोकथाम जैविक रसायन सूत्रकृमिनास फ्लोरिसेन्स 0.5 प्रतिशत 2.5 किग्रा अथवा ट्राइकोडरमा 2 प्रतिशत 2.5 किग्रा प्रति हेक्टेयर के दर से प्रयोग करें। उक्त की अधिक जादकारी हेतु अपने निकटतम कृषि रक्षा इकाई के प्रभारी, किसान सहायक, एडीओ (एजो) या जनपद मुख्यालय पर जिला कृषि रक्षा अधिकारी से सम्पर्क करें।

पैसे के लेन-देन में टेंट हाउस संचालक ने रची लूट की साजिश

अवधनामा संवाददाता

सुडथाकला, जौनपुर। मंगलवार देर शाम थाना क्षेत्र निवासी टेंट हाउस संचालक एक युवक से हुई लूट व रांदारी को लेकर गोली मारने की धमकी के मामले में पुलिसिया सख्ती के बाद मामला लेन देन का निकला। तब जाकर पुलिस रहत की सांस ली। गौरतलब हो कि थाना क्षेत्र के गैरवाह रकबा निवासी अंगद कुमार पुत्र जीत बहादुर सुल्तानपुर जनपद के अखण्ड नगर थाना क्षेत्र के मेवा नगर में टेंट हाउस संचालक का काम करता है। आरोप था कि मंगलवार को देर शाम दुकान से घर वापसी के दौरान रास्ते में उसके साथ कार और पल्सर सवार लगभग आधे दर्जन बदमाशों ने उसे रोक कर असलहे के बट से मारते हुए कार में बैचकर सूतसान जाहद पर ले जाकर मारे पीटे और पैसे की मांग करने लगे। पास में पैसा न होने की

बात पर तगादे में मिले अट्टरह हजार नकदी और एक अंगुठी व चैन समेत जबरदस्ती आनलाइन चार हजार रूपए दूसरे की खाते में डलवाये। इधर पुलिस मिली तहरीर के आधार पर छानबीन करते हुए शुक्रवार की शाम जब पीड़ित और आरोपियों को आमने-सामने कर पूछताछ शुरू की तो मामला महमदपुर सुल्तानपुर निवासी आरोपी सौरभ तिवारी से पैसे के लेन-देन का निकला। दो तीन महीने पूर्व सौरभ तिवारी गुजरात के सूरत शहर से वापसी के दौरान उक्त संचालक को बीस हजार नकदी उधार दिया था। पैसे की वापसी को लेकर मांग करने पर उसने लूट, रांदारी और गोली मारने की धमकी का आरोप लगाते हुए आधे दर्जन लोगों के विरुद्ध तहरीर दी। मामले में थानाध्यक्ष त्रिदिवी सिंह ने बताया कि शिकायतकर्ता को कड़ी चेतावनी देते

साइबर अपराध बन गया है अंतरराष्ट्रीय समस्या



99 यू पी० पी० बटालियन एन०सी०सी० के वार्षिक प्रशिक्षण शिविर में साइबर सुरक्षा पर हुआ विशेष व्याख्यान

अवधनामा संवाददाता

आजमगढ़। 99 यू पी० बटालियन एन सी सी, आजमगढ़ के तत्वावधान में सर्वोदय पब्लिक स्कूल घोरठ में आयोजित वार्षिक प्रशिक्षण शिविर(सी ए टी सी-312) में कैडेटों के साइबर जागरूकता के लिए शनिवार को साइबर सुरक्षा विषयक विशेष व्याख्यान का आयोजन किया गया। बतौर मुख्य वक्ता साइबर क्लब के नोडल अधिकारी एवं वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय जौनपुर के पत्रकारिता विभाग के असिस्टेंट प्रो. डॉ. दिग्विजय सिंह राठौर ने विविध प्रकार के साइबर अपराधों पर विस्तार से चर्चा की। उन्होंने कहा कि साइबर अपराध अंतरराष्ट्रीय समस्या बन चुका है। साइबर अपराधियों द्वारा प्रतिदिन नए तरीके अतंरराष्ट्रीय लोगों के साथ उगी की जा रही है। कभी पुलिस बनकर तो कभी कॉल सेंटर के एजेंट बनकर लोगों के साथ साइबर अपराधी धोखाधड़ी कर रहे है।

उन्होंने महिला कैडेटों को संबोधन में कहा कि अपनी निजता की रक्षा स्वयं करें और सोशल मीडिया पर निजी जानकारी देने से परहेज करें। उन्होंने कहा कि साइबर अपराध दर्ज कराने के लिए भारत सरकार के साइबर क्राइम पोर्टल और मोबाइल और व्हाट्सएप्प से आने वाले संदिग्ध काल और संदेश की शिकायत संचार साथी डॉट जीओवी डॉट इन पर करें। वित्तीय प्राप्त होने की दशा में 1930 पर तुरंत फोन कर शिकायत दर्ज करें। कैडेटों ने बड़े उत्साह के साथ व्याख्यान को सुना और साइबर सुरक्षा से जुड़े अपनी शंकाओं का समाधान भी पाया। कैम्प कमाण्डेंट ने स्मृति चिन्ह भेंट कर डॉ दिग्विजय को सम्मानित किया। कार्यक्रम का संचालन डॉ ए वी पी जी कॉलेज के ए० ए० १० ओ० लेफ्टिनेंट डॉ फाल्क सिंह ने किया। व्याख्यान में ए एन ओ प्रो० इंद्रजीत,प्रो० डी० के० मिश्रा, सुवेदार मेजर,पी० आई० स्टाफ और विभिन्न कॉलेजों के कैडेट्स मौजूद रहे।

विद्युत कटंट की वपेट में आये व्यक्ति की मौत

आजमगढ़। जनपद के रौनापार थाना क्षेत्र के ग्राम पंचायत पहाडपुर के सकत रोडवार मक्कापुर गांव निवासी रामकुवर पटेल उम्र 48 वर्ष पुत्र स्वर्गीय रामहंस पटेल की सुबह 7:00 बजे घर में पंखे का पलक निकालते समय बिजली के कटंट के चपेट में आने से उसकी मौत हो गई। बता दें कि मृतक रामकुवर खेत में धान का बीज डाल रहा था। परिजन भी साथ ही थे खेत से घर आया और पंखे के प्लग को निकलते समय वह बिजली के चपेट में आ गया। परिजन गांव के पलक परिजन दौड़ते हुए घर आए और उसे बह घर में गिरा देह चिल्ला चिल्ला कर रोने लगे। ग्रामीण व परिजन उसे लेकर सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र लाटघाट पहुंचे। जहां डॉक्टर ने मृत घोषित कर दिया मृतक ई-श्रम काई धारक था बिजली आदि का काम करता था।

डॉ. आलोक ने शुरू की ओपीडी

भीषण गर्मी व शहर में जाम से बचने के लिये लोगों को दी सुविधा

अवधनामा संवाददाता

जौनपुर। उमानाथ सिंह राज्य चिकित्सा महाविद्यालय सिद्धीकपुर मेडिकल कॉलेज के सामने जाने-माने आर्थो विशेषज्ञ डॉ. आलोक कुमार यादव मरीज देखेंगे जिससे इस भीषण गर्मी में व शहर जाम से बचने से लोगों को निजात मिलेगी। बता दें कि इस समय भीषण गर्मी में लोग शहर में जाम से होकर नईगंज स्थित उपचार के लिए जाते थे। लोगों की मांग पर डॉक्टर आलोक कुमार ने इस समस्या से निजात देने के लिए उमानाथ सिंह राज्य चिकित्सा महाविद्यालय मेडिकल कॉलेज सिद्धीकपुर के सामने दुर्गा डायनोस्टिक सेंटर पर एक जून से



सुबह 8 से 10 बजे तक ओपीडी शुरू कर दिए हैं। सुबह के समय मौसम भी ठंड रहता है और शहर में लोगों को जाना नहीं पड़ेगा। यहीं मरीज देखने के बाद जरूरत की दवाई उपलब्ध कराई जायेगी। पहले दिन भारी भीड़ लगी रही, लोगों को बजट पर भी काफी सहूलियत दी गई है। आर्थो विशेषज्ञ डॉ. आलोक कुमार यादव ने बताया कि शाहगंज, अम्बेडकरनगर,

आजमगढ़, खुटहन, खेतासराय, केराकत, गुरैनी मानी, जमुआही, वरदह, मार्टिंगन, दुबरा के कोरीडीहा सरयख्वाजा के काफी लोग उनके यहां उपचार के लिए जाते थे। वह जाम की समस्या और भीषण गर्मी में शहर से बाहर क्षेत्रीय इलाकों में सुबह की पाली में ओपीडी की मांग कर रहे थे। जिसे उनकी समस्याओं को देखते हुए यह सुविधा दी जा रही है।

राष्ट्रीय कुडो कप प्रतियोगिता में मेडलिस्ट खिलाड़ियों का स्वागत

अवधनामा संवाददाता

आजमगढ़। छ: दिवसीय द्वितीय राष्ट्रीय कुडो कप प्रतियोगिता का आयोजन हिमाचल प्रदेश के सोलन के ग्रीन हिल्स इंजीनियरिंग कॉलेज में कुडो इंटरनेशनल फेडरेशन आफ इंडिया के तत्वधान में आयोजित हुआ। 25 से 30 मई तक चले इस प्रतियोगिता की अध्यक्षता हर्सी मेहुल वारा के द्वारा किया गया। इस प्रतियोगिता में भारत के विभिन्न राज्यों से लगभग 900 कुडो खिलाड़ियों ने प्रतिभाग किया। कुडो स्पॉर्ट एसोसिएशन उत्तर प्रदेश से 20 खिलाड़ियों ने भी प्रतिभाग किया।



जिसमे कुडो उत्तर प्रदेश सचिव संजय कुमार यादव के नेतृत्व में आजमगढ़ से भी 11 खिलाड़ियों ने शानदार प्रदर्शन करते हुए सभी मेडलिस्ट हुए हैं। प्रतियोगिता में माधव प्रताप यादव, अंशुमान, आराध्या मौर्य (स्वर्ण पदक),

प्रियांशुी केशव, अंसल मिश्रा, श्रीजा चौबे, आशुष अग्र, आराध्या यादव, हर्ष सिंह (रजत पदक), विशेष सिंह, श्रीजश सरोज (कांस्य पदक) प्राप्त कर जिले का नाम रोशन किया। शनिवार को खिलाड़ियों के जपपद आगमन पर

रोडवेज पर ही अभ्यर्थियों और परिजनों ने मिठाई खिलाकर पूरमालाओं से लादकर इनाम स्वागत किया है। इस दौरान सर्वोदय रूप ऑफ एजुकेशन के प्रबंधक राजेन्द्र प्रसाद यादव, माहसचिव देवेन्द्र कुमार वर्मा, संयुक्त सचिव नीतिका सिंह, कोषाध्यक्ष हिमांशु यादव, प्रशिक्षक नवदीप सिंह, विनोद कन्नौजिया, लक्ष्मीकांत मिश्रा और अभिभावकों में केशव प्रसाद, रमेश मिश्रा, मीरा सिंह, अरुण कुमार चौबे, अरविन्द कुमार यादव, चंद्रजीत मौर्य, राजेश्वर यादव, पिंटू सरोज, राजन सिंह, जयनारायण, प्रदीप कुमार मौजूद रहे।

कांस्टेबल की तत्परता से बची रेल यात्री की जान

अवधनामा संवाददाता

प्रयागराज। रेलवे सुरक्षा बल यात्रियों को सुरक्षित यात्रा देने के लिए निरंतर प्रयासरत है। आपरेशन नन्हे फुरिश्ते, आपरेशन सेवा, आपरेशन रक्षा, मेरी सहेली, आपरेशन डिनिटी, आपरेशन उपलब्ध जैसे कई अभियानों के माध्यम से रेल यात्रियों को सुरक्षित यात्रा प्रदान करती है और लोगों के जीवन भी बचाती है। इसी क्रम में कल शुक्रवार को रेलवे सुरक्षा बल प्रयागराज के कांस्टेबल मान सिंह प्रयागराज जंक्शन पर ड्यूटी पर तैनात थे। गाड़ी संख्या 14117, प्रयागराज-शिवानी कालिंदी एक्सप्रेस 15:50 बजे

प्रयागराज जंक्शन के प्लेटफार्म संख्या 6 से गंतव्य के लिए रवाना हुई। चलती गाड़ी में चढ़ने के प्रयास में एक पुरुष एवं एक महिला यात्री गाड़ी और प्लेटफार्म के बीच में आ गये। कांस्टेबल मान सिंह ने त्वरित प्रयास कर अपनी सूझ बूझ और बहादुरी से यात्रियों को प्लेटफार्म की ओर खींचकर उनकी जान बचा ली। इसी दौरान किसी यात्री ने चैन पुलिंग कर गाड़ी को रोक दिया। महिला यात्री प्रयागराज से कन्नौज के लिए जा रही थी। दोनों यात्रियों को किसी प्रकार की कोई चोट नहीं आयी और उन्होंने अपनी यात्रा जारी रखी। पूरी घटना स्टेशन पर लगे सीसीटीवी में कैद हो गयी।

संक्षिप्त समाचार



प्रयागराज। इविंग क्रिश्चियन कालेज भौतिकी विभाग में राष्ट्रीय स्नातक भौतिकी परीक्षा में प्रथम दस में स्थान प्राप्त करने वाले स्नातकों को प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया गया। जिसमें ज्ञान प्रकाश ने टॉप टेन में अपना स्थान बनाया है। ज्ञान प्रकाश ई सी सी बीएससी तृतीय वर्ष के छात्र हैं। मुख्य अतिथि एयू में भौतिक विज्ञान विभाग के अध्यक्ष प्रो. केएन उत्तम ने विद्यार्थियों को इस सफलता को आगे बढ़ाते हुए भौतिकी के क्षेत्र में शोध करने का आह्वान किया। महाविद्यालय की उम प्राचार्य प्रो. ज्योतिका राय ने विद्यार्थियों की सफलता पर प्रशंसा व्यक्त करते हुए विभाग के विद्यार्थियों एवं शिक्षकों को शुभकामनाएं प्रदान कीं। विभागाध्यक्ष प्रो. अशोक कुमार पाठक ने बताया कि सफल विद्यार्थी आगे लक्ष्य की परीक्षा पास करने के बाद इंटरशिप करने आइआइटी में जाते है। परीक्षा प्रभारी डा. प्रेम प्रकाश सिंह ने अतिथियों का धन्यवाद ज्ञापित किया। कार्यक्रम में प्रो. सोनली चतुर्वेदी, डा. थामस अब्राहम, डा. अंकिता कुशावाहा उपस्थित रहीं।

कायस्थ पाठशाला को पूरे अंक

प्रयागराज। कायस्थ पाठशाला ने फरहत अली क्लब को 21 से हराकर रेलगांव टॉफी अंडर-16 क्रिकेट प्रतियोगिता में पूरे अंक प्राप्त किये। सूबेदारगंज स्थित रेलगांव मैदान पर शनिवार को खेले गए मैच में टॉस जीतकर कायस्थ पाठशाला ने 27.3 ओवर में 128 रन (सचिन मिश्र 37, मोहम्मद अली 19 नाबाद, सयंक 19, हर्षित तिवारी 3/22, रोशन कुशवाहा 2/06, सानिध्य श्रीवास्तव 2/19) बनाये। जवाब में फरहत अली क्लब की टीम 30 ओवर में 9 विकेट पर 107 रन (शिवांश पाण्डेय 31, शादान अब्बास रिज्वी 22, शनि द्विवेदी 3/17, सचिन मिश्र 2/06) ही बना सकी। प्रतियोगिता में अगला मुकाबला सोमवार को होगा।

गोल्डन गर्ल अध्यापिका पूनम गुप्ता दौड़ेंगी देश के लिए

प्रयागराज। प्रयागराज जिले के बेसिक शिक्षा विभाग की अध्यापिका पूनम गुप्ता जिन्हे गोल्डन गर्ल के नाम से भी जाना जाता है का चयन मार्स्टर्स एथलेटिक्स एसोसिएशन उत्तर प्रदेश की तरफ से देश में होने वाले पहले अंतर्राष्ट्रीय एथलेटिक मीट प्रतियोगिता के लिए किया गया है। स्व पं० दीनदयाल उपाध्याय स्मारक अंतर्राष्ट्रीय इन्व्तिशन मार्स्टर्स एथलेटिक्स भारत प्रतियोगिता 2024 का आयोजन डॉ भीमराव अंबेडकर, इंटरनेशनल स्पोर्ट्स स्टेडियम, डाभा सेमर, अयोध्या, उत्तर प्रदेश में दिनांक 05 से 07 जून 2024 में किया जा रहा है। जिसमे एशिया के कई देश के खिलाड़ी प्रतिभाग करने वाले है। इस प्रतियोगिता के लिए उत्तर प्रदेश के प्रयागराज जिले की धाविका अध्यापिका पूनम गुप्ता का आधिकारिक रूप से चयन भारतीय टीम में किया गया है। उनके चयन से उनके विभाग के कई साथी, कई समाज सेवी संस्थाएं, उनके परिवारजन ने खुशी जताई है और बधाई देने वालों का ताता लगा गया है और जीत के लिए शुभकामनाएं दी जा रही है। एक बार फिर इस अध्यापिका ने अपने विभाग और जनपद और प्रदेश का नाम रोशन किया।



कृषि महाविद्यालय ने विश्व मे रचा इतिहास: प्रो. सिंह



अवधनामा संवाददाता

आजमगढ़। कोटवा कृषि महाविद्यालय ने रचा इतिहास (नैक) मूल्यांकन में। पांचे वाला देश का पहला बना महाविद्यालय आचार्य नरेंद्र देव कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय कुमांगर अयोध्या के नेशनल असेसमेंट एंड एक्कीडिटेशन काउंसलिंग नेक के मुल्यांकन मे। रैक मे मिली अगले5 साल के लिए मंय्य होगा। विश्वविद्यालय बना 22 से 24 अप्रैल व दिनांक 27 से 29 मई मूल्यांकन एवं प्रत्यायन परिषद टीम द्वारा कृषि विश्वविद्यालय एवं कृषि महाविद्यालय कोटवा आजमगढ़ में विजित के दौरान एलिवेशन किया गया था जिसमे 6सदस्यीय टीम ने विश्वविद्यालय व कृषि महाविद्यालय आजमगढ़ में गहनता विभिन्न पहलुओं से जांच एवं गुणवत्ता परखा विश्व स्तरीय शिक्षा व्यवस्था स्थानीय राष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय शोधकर प्रसार कृषि शिक्षा अनुसंधान बुनियादी ढांचा और छात्र सहायता की सेवाएं सेमिनार कॉन्फ्रेंस

वर्कशॉप आज विभिन्न पहलुओं पर कॉलेज के प्रभावी कार्य की सराहना एवं प्रसन्नता व्यक्त किया नैक ग्रेडिंग टीम ने विश्वविद्यालय के प्रत्येक खंड का मूल्यांकन किया इसमें प्रशासनिक ब्लॉक लाइब्रेरी छात्रावास सेक्टर शामिल थे विश्वविद्यालय के कुलपति डॉम श्रेय कूलपति व कृषि महाविद्यालय आजमगढ़ के अधिष्ठाता प्रोफेसर धीरेंद्र सिंह को बधाई दिया कृषि महाविद्यालय के अधिष्ठाता ने इसके लिए विश्वविद्यालय की कुलपति का

दृढ़ संकल्प से बालक ध्रुव को मिले थे भगवान

अवधनामा संवाददाता

भेंटुआ (अमेठी)। क्षेत्र के सेमरा गांव में श्रीमदभागवत कथा के दूसरे दिन कथा व्यास ने सती चरित्र और बालक ध्रुव की कथा सुनाई। शनिवार को कथा व्यास पंडित गंगा सागर तिवारी ने सती चरित्र की कथा प्रसंग को सुनाते हुए कहा कि अपने पिता श्वके द्वारा भगवान शिव के अपमान को न सहकर उन्होंने पतिव्रता नारी शक्ति का अभूत पूर्व परिचय दिया। उन्होंने उस देह का ही त्याग कर दिया जिसका संबंध दश से था। इसके बाद यज्ञ विध्वंस आदि प्रसंग विस्तार पूर्वक सुनाया। व्यास ने आगे बालक ध्रुव चरित्र की कथा सुनाते हुए कहा कि महज पांच साल की उम्र में ही भक्त ध्रुव ने भगवान को कीर्तना तलाश में अनेकों कष्ट सहन किए। बालक ध्रुव के जंगल में जाते हुए अनेकों यानाओं को सहते हुए आगे बढ़ते रहने पर देवर्षि नाद ने उन्हें लौटाने का भरसक प्रयास किया लेकिन बालक ध्रुव के मजबूत संकल्प के सामने उन्हें निराश होना पड़ा। व्यास ने कहा कि आज भी हम सबको



बालक ध्रुव के दृढ़ विश्वास को याद करते हुए और उसे अपने जीवन में उतारते हुए धर्म मार्ग पर आने वाले संकटों को सहन करते हुए आगे बढ़ते रहना चाहिए। धर्म मार्ग में आने वाले संकट हमें मजबूत बनाते हैं। कथा यजमान पंडित बाबू लाल तिवारी एवम राम राज त्रिपाठी ने आए हुए श्रोताओं का स्वागत किया। पंडित अवधेश तिवारी के साथ आचार्य अनिल पांडेय ने विधि विधान से पूजन कराया। संगीत टोली में अधिनी कुमार अविनाश ने अपने भजनों से लोगों का मन मोह लिया। इस मौके पर साधु तिवारी जगत नारायण मिश्र हरि शंकर मिश्र राम मणि त्रिपाठी कामता मणि त्रिपाठी श्याम मणि त्रिपाठी विष्णु मणि दीपक तिवारी सहित तमाम श्रद्धालु मौजूद रहे।

राजमाता अहिल्याबाई होल्कर ने साधारण मनुष्य रूप में असाधारण कार्य किया: अजय सोनी

सकिपा की मासिक बैठक में राजमाता अहिल्याबाई होल्कर की मनाई गई जयंती

अवधनामा संवाददाता

कौशांबी। किसान पार्टी के तत्वावधान में एक जून शनिवार को पार्टी के जिला कार्यालय मंडनपुर में मासिक बैठक का आयोजन हुआ। मासिक बैठक में पार्टी के तमाम कार्यकर्ता शामिल हुए। इस अवसर पर पार्टी कार्यालय में राजमाता अहिल्याबाई होल्कर की जयंती की वधाई दी।

सबसे पहले पार्टी कार्यकर्ताओं ने राजमाता अहिल्याबाई होल्कर की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उद्दे मनन किया और एक दूसरे को मिठाई खिलाकर राजमाता अहिल्याबाई होल्कर की जयंती की वधाई दी। साथ ही इस अवसर पर उनके द्वारा राज्य की रक्षा एवं प्रजा के हित में किए गए कार्यों को याद किया गया। साथ ही पूरे देश भर में उनके द्वारा धर्महित में किए गए कार्यों को लेकर परिचर्चा हुई। इस अवसर पर



पार्टी नेता अजय सोनी ने कहा कि राजमाता अहिल्याबाई होल्कर जन जन में लोकप्रिय थीं। उन्होंने राज्य की प्रजा के हित में और धर्म हित में अनेकों अनेक कार्य किया। साथ ही अपने राज्य का सकुशल संचालन करते हुए

राज्य की बाहरी अक्रमणकारियों से रक्षा की और राज्य विस्तार कर एक मजबूत राज्य का नवनिर्माण किया। आगे कहा कि साधारण मनुष्य रूप में होकर राजमाता अहिल्याबाई होल्कर ने असाधारण कार्य किया। इस अवसर पर

श्रद्धांजलि सभा का हुआ आयोजन



अमेठी अवधनामा संवाददाता। पूर्व माध्यमिक शिक्षक संघ के प्रथम जिला अध्यक्ष रहे जगदीश प्रसाद तिवारी की स्मृति में श्रद्धांजलि सभा का आयोजन हुआ। श्रद्धांजलि सभा में स्वर्गीय तिवारी की शैक्षिक और सांस्कृतिक सेवाओं का स्मरण करते हुए उद्दे भावभीनी श्रद्धांजलि दी गई। पूर्व माध्यमिक शिक्षक संघ के महामंत्री राजकांत मोर्य ने कहा कि स्वर्गीय जगदीश प्रसाद तिवारी हमारे संगठन की नींव के पत्थर थे। उनके मार्गदर्शन में ही अमेठी जनपद में संगठन का विस्तार हुआ है। पूर्व माध्यमिक शिक्षक संघ के मंत्री गुरुचरण गौतम ने कहा कि स्वर्गीय जगदीश प्रसाद तिवारी सरल और विनम्र स्वभाव के धनी थे। उन्होंने संगठन में ईमानदारी और निष्ठा से काम करने की सीख दी है। पूर्व माध्यमिक शिक्षक संघ के अध्यक्ष अब्दुल रसीद उत्तर प्रदेशीय प्राथमिक शिक्षक संघ के जिला अध्यक्ष धीरेन्द्र प्रताप सिंह अशोक कुमार वर्मा मीरा गुप्ता राम बख्श प्रजापति अरविंद तिवारी रवि शंकर सिंह अशोक सिंह आदि ने भी दिवांगत आत्मा के प्रति श्रद्धा सुमन अर्पित किए हैं।

आयोग के गाइडलाइन की अधिकारियों को दी जानकारी



फर्रुखाबाद अवधनामा संवाददाता। निर्वाचन आयोग की गाइडलाइंस के निर्देशानुसार जिलाधिकारी डा0 वीके0 सिंह द्वारा मतगणना प्रशिक्षण में पोस्टल बलेट सिस्टम की जानकारी एवं आवश्यक निर्देश दिए। इस दौरान उपस्थित अधिकारी एवं कर्मचारियों को मतगणना को सकुशल संपन्न कराए जाने के संबंध में आवश्यक निर्देश दिए।

85वां सुंदरकांड व हनुमान चालीसा पाठ हुआ सम्पन्न



उरई (जालौन) अवधनामा संवाददाता। नमो नमो सनातन हिन्दू महासभा के तत्वावधान में धर्मेंद्र द्विवेदी के निवास के समीप स्थित श्री शिव मंदिर मो काशीनाथ में 85 वां सुंदरकांड व हनुमान चालीसा पाठ सम्पन्न हुआ। सर्वप्रथम हनुमानजी महाराज के पूजन के उपरान्त सुंदर कांड व हनुमान चालीसा पाठ किया गया। तदुपरान्त हनुमानजी महाराज की आरती व पुष्पांजली के बाद प्रसाद वितरित किया गया। इस अवसर पर भगवती प्रसाद मिश्रा वाचस्पति मिश्रा त्रिलोकी नाथ गुप्ता अवध किशोर त्रिवेदी इंद्रजीत सिंह गुर्जर निष्क मिथलेस मिश्रा महेंद्र कौशल के सी पाठकार अतुल द्विवेदी सुशील कुमार बाजपेई गोपाल जी गुप्ता शशिकांत वर्मा राहुल यादव पप्पू पाठकार महेंद्र पाठकार धर्मेंद्र द्विवेदी तरुण सक्सेना हर्ष तिवारी रामकुमार चन्द्रप्रकाश श्रीवास्तव शशपाल सिंह विपिन सोनी मोनू राजकुमार सोनी राममोहन कुशल मुकेश राजावत नीरज कुमार पाठकार रामेंद्र कुमार अशोक श्रीवास्तव चंद्रप्रकाश सोनी अंजनी पुरवात श्रेयांश द्विवेदी कुलदीप राठौर मोहनदास शिवहरे प्रयांशु द्विवेदी शुभम द्विवेदी आदि उपस्थित रहे।

गर्मी से निजात पाने के लिए मरिजद में दुआ मांगी गई



महमूदाबाद (सीतापुर) अवधनामा संवाददाता। आज मरिजद में नमाज के बाद मौलाना सैयद सज्जाद हुसैन ने दुआ करवाई और अल्लाह से दुआ मांगी कि इस भयावक गर्मी से जल्द से जल्द सभी इंसान और बरिद परिंदे को राहत मिले मरिजद में मौलाना के साथ और भी लोग दुआ में शामिल हुए इस भयावक गर्मी में इंसान ही नहीं जानवर भी परेशान हैं सुबह से ही चिलचिलाती धूप निकल आती है पूरा दिन जलती धूप में मजदूरी कर पाना मुश्किल होता है मजदूरी कर रहे मोहम्मद विलात रमेश कुमार मोहम्मद फालक सतीश कुमार ने बताया कि इतनी ज्यादा गर्मी पड़ रही है कि मजदूरी करने की हिम्मत नहीं पड़ती है लेकिन मजदूरी में काम करना पड़ रहा है तपती धूप में काम करते-करते चक्कर आने लगता है रिसावा चलाने वालों ने बताया कि तेज धूप और चिल्लाती गर्मी की वजह से सवारी कम मिलती है लेकिन पूरा दिन सड़क पर ही रहना पड़ता है जिससे बहुत परेशानी होती है इस बार गर्मी सारे रिकार्ड तोड़ रही है बंदलाल ने कहा की उपर वाले का सहारा है जल्दी बारिश हो जाए तो कुछ राहत मिल जायेगी।

नींद की छपकी आने से बाइक खंदक में गिरी, मां की मृत्यु, पुत्र घायल

उरई (जालौन)। शादी समारोह में शामिल होकर मध्य प्रदेश भिंड वापस जा रहे मां बेटे की बाइक खंदक में गिरने से दोनों गंभीर रूप से घायल होने पर राहगीरों की मदद से उन्हें अस्पताल पहुंचाया गया, जहां इलाज के दौरान मां की मृत्यु हो गई। मध्य प्रदेश के भिंड से जालौन एक शादी समारोह में शामिल होने आई सोमवती उम्र लगभग 42 वर्ष अपने बेटे शनि के साथ सुबह बाइक से घर वापस जा रहे थे शादी में रात भर जागने के बाद उन्हें नींद भी आ रही थी इसके बावजूद भी दोनों बाइक से सुबह-सुबह घर के लिए निकल पड़े जैसा ही वह सुबह के पास पहुंचे थे की सनी जो बाइक चला रहा था नींद के चलते उसकी आंखें मिच गईं और उसकी मोटरसाइकिल सड़क किनारे खंदक में जा गिरी जिससे वह दोनों लोग गंभीर रूप से घायल हो गए वहां से निकल रहे राहगीरों ने इसकी सूचना एंबुलेंस को दी एम्बुलेंस मदद से दोनों घायलों को अस्पताल पहुंचाया गया जहां उपचार के दौरान मां सोमवती की मृत्यु हो गई।

चुनाव में बेहतर कार्य करने वाले तीन थाना प्रभारियों को एसपी ने किया सम्मानित



दृष्टिगत विभिन्न जनपदों से आये पुलिस बल हेतु दिनांक 25.05.2024 (चुनाव के दिन) चुनाव ड्यूटी में तैनात पुलिस बल को अच्छी गुणवत्ता, स्वास्थ्यवर्धक एवं लजीज लंच पैकेट उपलब्ध करने को लेकर सिद्धार्थ नगर जनपद के तीन थाना प्रभारियों को सम्मानित किया है, जिसमें प्रभारी निरीक्षक कपिलवस्तु को प्रथम, थानाध्यक्ष देबरू आ को द्वितीय तथा प्रभारी निरीक्षक शोहरतगढ़ को तृतीय नकद पुरस्कार व प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया है। पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थ नगर प्राची सिंह ने मीडिया को बताया कि लोकसभा सामान्य निर्वाचन-2024 चुनाव के

हर-हर शंभू फेम अभिलिप्सा पांडा का नया एल्बम

अवधनामा संवाददाता

लखनऊ। हर-हर शंभू फेम अभिलिप्सा पांडा ने अपना नया शिव भजन 'बम-बम बोल रहा जग सारा लखनऊ के मशहूर बीबी स्टूडियो में रिकार्ड किया है। इस ऑडियो-वीडियो एल्बम के म्यूजिक डायरेक्टर और लिरिकस राइटर बंदा बैरागी श्याम जी के हैं जबकि इसके म्यूजिक अरेंजर सुनील यादव हैं। इसके वीडियो डायरेक्टर रजत शर्मा हैं। विकास नगर के 1/123 स्थित बीबी स्टूडियो में रिकार्ड हुए इस एल्बम को लेटेस्ट डिजिटल म्यूजिक इफेक्ट्स से सजाया गया है। इस एल्बम को आध्यात्मिकता के साथ-साथ युवाओं को ध्यान में रख कर तैयार किया गया है। बीबी स्टूडियो की ओर से इसे सावन पर वलड्ड वाइड रिलीज किया जाएगा। अभिलिप्सा



पांडा ने बताया कि वह केवल शैकिया या प्रोफेशनली ही शिव भजन नहीं गाती हैं बल्कि वास्तव में वह शिव भक्त हैं इसलिए उन्हें आजकल के फिल्मी गाने आकर्षित नहीं करते हैं। उन्होंने हिन्दी के साथ-साथ अन्य भारतीय भाषाओं में भी शिव भजन गाए हैं। उसमें बंगाली भाषा में गाया उनका शिव भजन खासा लोकप्रिय हो रहा है। अभिलिप्सा ने बताया कि बम-बम बोल रहा जग सारा म्यूजिक

खेत से तरबूज तोड़ने को लेकर दो पक्षों में चले लाठी-डंडे, दो घायल, फायरिंग का आरोप

अवधनामा संवाददाता

फर्रुखाबाद। जनपद के गांव भटपुर में खेत से तरबूज तोड़ने को लेकर बटाईदार व ग्रामीणों के बीच विवाद हो गया। देखते ही देखते दोनों पक्षों में मारपीट और लाठी-डंडे के साथ ईंट पत्थर चलने लगे। घायल ने फायरिंग करने का भी आरोप लगाया है। मारपीट में 2 लोग घायल हुए। सीओ ने अस्पताल पहुंचकर घायलों से पूछताछ की। कमालगंज थाना क्षेत्र के गांव महमदपुर अचला निवासी इकबाल उम्र 50 वर्ष परिवार के साथ ग्राम भटपुर में महेश दुबे के निर्माणाधीन कोल्ड स्टोरेज में रह रहा है। वह कोल्ड में मजदूरी करने के साथ ही पास के खेत को बटाई पर लेकर तरबूज की फसल किए है। इकबाल खेत से तरबूज तुड़वा कर बेचने के लिए ट्रक पर लाद रहा था। इसी दौरान आजाद नगर भटपुर गांव के कुछ लड़के खेत में पहुंचे और तरबूज तोड़ने लगे। इकबाल का पुत्र अद्वित उम्र 20

वर्ष विरोध करने पहुंचा। जिस पर गाली-गलौज के बाद विवाद हो गया। झगड़े की जानकारी होते ही दोनों पक्षों के लोग आमने-सामने आ गए और दोनों पक्षों के बीच जमकर लाठी-डंडे चलने के साथ ही ईंट पत्थर चलने लगे। इस दौरान फायरिंग भी की गई। घटना में दो लोग घायल हो गए। ग्रामीण घायलों को लेकर आनन-फानन में थाने पहुंचे। पुलिस घायलों को सीएचसी कमालगंज लेकर गई। घायल इकबाल व अद्वित की हालत गंभीर होने पर उन्हें जिला अस्पताल लोहिया के लिए रेफर कर दिया। घायल इकबाल ने दूसरे पक्ष पर फायरिंग करने का आरोप लगाया। पुलिस ने दूसरे पक्ष से एक युवक को हिरासत में ले लिया है। सीओ अमृतपुर रविंद्र नाथ राय ने अस्पताल पहुंचकर घायलों से घटना के सम्बंध में जानकारी ली घ घ थानाध्यक्ष राजेश राय ने बताया कि तरबूज तोड़ने के विवाद में मारपीट हुई है। फायरिंग का आरोप मलत है। तहरीर मिलने पर कार्रवाई की जाएगी।

प्रचंड धूप और गर्मी से मचा हाहाकार

अमेठी। जिले में प्रचंड धूप और गर्मी से हाहाकार मचा है।आसमान से आग बरस रही है शनिवार को तापमान 44 डिग्री के पार रहा। भीषण गर्मी और तेज धूप के कारण जनजीवन बेहाल हो गया है। नौतपा का आज आखिरी दिन है जिसमें सूर्य से निकलने वाली तेज किरणों से धरती तपने लगती है। नौतपा 24 मई से लेकर 1 जून तक रहने वाला है। यानी पूरे 9 दिनों तक सूर्य की किरणें सीधे पृथ्वी पर पड़ती हैं। प्रचंड गर्मी और कड़ी धूप अपने शिवाय पर है आसमान से आग बरस रही है तपती सड़कों पर आवागमन दुश्कर हो गया है। सड़कों आग उगल रही हैं जिसकी तपिश में राहगीर झुलस रहे हैं।चिलचिलाती धूप और गर्मी हवाओं ने जनजीवन बेहाल कर दिया है।पिछले कुछ दिनों से चल रहे तेज लू के थपेड़े राहगीरों को झुलसा रहे हैं।चिलचिलाती धूप भीषण गर्मी और लू से जन जीवन त्रस्त है।सड़कों आग उगल रही है सुबह 9 बजे के बाद से शाम के 6 बजे तक सड़कों पर निकलना दूषर हो गया है। गर्मी हवा और लू के थपेड़े राहगीरों को बेहाल करने लगे हैं।

नौतपा को ही कहते है हिट वेब सूर्यदेव रोहणी नक्षत्र में किए है प्रवेश

अवधनामा ब्यूरो

कुरीनगर। हिंदू धर्म में नौतपा का खास महत्व बताया गया है। इस दौरान भयानक गर्मी पड़ती है। वहीं ज्योतिष में ज्ञान रखने वालों ने भी संभावना जताई है कि इन नौ दिनों में सूर्य आग उल्लेगा और पृथ्वी भयानक तपेगी, बरदहा पांडेय के ज्योतिषशास्त्री पं. आशुतोष प्रताप पांडेय बताते हैं कि सूर्य 25 मई को ही प्रातः 7 बजकर 5.4 मिनट पर रोहणी नक्षत्र में प्रवेश किए है। सूर्य के रोहणी नक्षत्र में प्रवेश करने के साथ ही नौतपा शुरू हो जाता है। इस दौरान पूरे 9 दिनों तक सूर्य की किरणें सीधे पृथ्वी पर पड़ती है, जिससे तापमान गर्मी के रिकार्ड तोड़ सकता है। भठही बुजुर्ग के पं. परमेश्वर शुक्ल ने ह्दधिकेस पंचांग के हवाले से बताया कि नौतपा की शुरुआत 25 मई से हो चुकी है। उन्होंने बताया कि नौतपा के दिनों में



भगवान सूर्य की पूजा का बड़ा महत्व शास्त्रों में बताया गया है, सूर्य देव की आराधना से व्यक्ति के तेज में वृद्धि होती है, जीवन में संपन्नता आती है, इसके साथ ही नौतपा के दौरान जल दान से पितृ प्रसन्न होते हैं, इसलिए कोई प्यासा हो तो उसे पानी जरूर पिलाना चाहिए, नौतपा में जल के साथ ही अन्य चीजों का दान करने से भी आरोग्यता की प्राप्ति होती है।

जलदान करने से प्रसन्न होते हैं पितर

अहलादपुर के ज्योतिषाचार्य पं. अनिल कुमार उपाध्याय ने बताया कि पूर्व से अस्त चल रहे देवगुरु बुधस्मृति 3 जून को सुबह 7 बजे पूर्व दिशा में उदित होगे किंतु दैत्यगुरु शुक्राचार्य अभी अस्त ही रहेंगे इसलिए विवाह आदि शुभ कार्यों के लिए मुहूर्त हैं, इस पक्ष में दसमी तिथि का क्षय है जिससे यह पक्ष 14 दिनों का होगा, कृष्ण पक्ष में तिथि का क्षय होना शुभफलकारी माना गया है। गर्मी खूब पड़ेगी और 3 जून के आसपास आंधी-पानी के साथ वर्षा होने का योग बन रहा है, 22 जून को ज्येष्ठ माह समाप्त होने के बाद गर्मी से राहत मिलेगी। उस समय सूर्य आद्रा नक्षत्र में प्रवेश कर जाएगा और धरती पर बारिश की बूँदें गिरने लगेगी। इस नौ दिनों में सूर्यदेव, पृथ्वी के सबसे निकट

नौतपा लगने के फायदे

1-2 दिन लू ना चली तो चूहे बहुत हो जाएंगे। तीसरे-चौथे दिन लू ना चली तो टिड्डियों के उठे नष्ट नहीं होंगे जो खेतों को नष्ट कर देंगे। 5वे-6वे दिन ना चली तो आंधियां इतनी अधिक हो जाएंगी की फसलें नष्ट हो जाएंगी। सातवे-आठवे दिन ना चली तो सांप- बिच्छू नियंत्रण से बाहर हो जाएंगे। नौवे दिन ना चली तो बुखार व फसलों को नुकसान पहुंचाने वाले किट नष्ट ना होंगे। हर नियम के पीछे कोई ना कोई कारण होता है।

संदिग्ध परिस्थितियों में सीने में गोली लगने से दुकानदार की हुई मौत

फर्रुखाबाद। संदिग्ध परिस्थितियों में दुकानदार के घर पर उसके सीने में गोली लगने से उसकी मौत हो गयी। सूचना पर पहुंची पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जांच के बाद शव का पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। मोहम्मदाबाद कोतवाली क्षेत्र के ग्राम नगला स्वामी निवासी 42 वर्षीय बुजवासी पुत्र रोशन लाल घर मर परचून की दुकान चलाता था। वह शराब पीने का भी आदी था। जिसके चलते उसका उसकी पत्नी रजनी के साथ विवाद होता रहता था। शुक्रवार को सुबह बुजवासी व उसकी पत्नी रजनी के बीच विवाद हुआ। रजनी ने बताया कि विवाद के चलते वह अपने मायके बराकेशवा चली गयी। पत्नी ने बताया उसने खेत बचा था और खेत की बिक्री का रुपया भी बुजवासी के पास ही था। शराब पीकर बुजवासी ने पहले घर में रखे सामान की तोड़फोड़ की और घर के बाहर रखे कोकेगा सामान भी फेंक दिया। उधर घर के भीतर बुजवासी की सीने में गोली लगने से मौत हो गयी। उसका शव चारपाई पर पड़ा मिला।

प्रथम बार वोटों में दिखा मतदान के प्रति उत्साह चार जून का बेसब्री से इंतजार, कैद हुई प्रत्याशियों की किस्मत इवीएम में

अवधनामा संवाददाता

भाटपार रानी, देवरिया। लोकसभा चुनाव के सातवें यानी अंतिम चरण में सलेमपुर संसदीय क्षेत्रान्तर्गत भाटपार रानी विधान सभा क्षेत्र में शनिवार को शांतिपूर्ण तरीके से मतदान हुआ कहींभी तीखी झड़पें व नोक-झोंक की खबरें नहीं आईं। मतदान को लेकर सुबह सात बजे से ही मतदाता बूथों पर पहुंचने लगे थे। युवा मतदाताओं में खासा उत्साह देखने को मिला। इसके साथ ही सलेमपुर संसदीय क्षेत्र के चुनाव में डटे दो बार से लगातार जीतते आ रहे भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी रविंद्र कुशवाहा, इंडी समर्थित स प प्रत्याशी, रमाशंकर राजभर बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी भीम राजभर सहित नव प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला इवीएम में बंद हो गया। सलेमपुर लोक सभा के भाटपार रानी विधानसभा क्षेत्र में सभी मतदान केंद्रों पर निर्धारित समय प्रातः सात बजे से मतदान शुरू हो गया। सभी मतदान केंद्रों पर सुबह 12 बजे तक मतदाताओं की कतारें देखी गयीं। लेकिन 12 बजे के बाद इन मतदान

केंद्रों पर मतदाताओं की लंबी कतारें देखने को नहीं मिली। मतदान केंद्र पर इक्के-दुक्के मतदाता आते रहे और अपने



मतदाताओं का प्रयोग किया। दोपहर दो बजे के करीब कई मतदान केंद्रों पर तो मतदाताओं की संख्या नगण्य दिखी। अपराह्न 4 बजे के बाद से पुनः मतदाताओं के आने की गति बढ़ती नजर आई। मतदान की प्रक्रिया के दौरान क्षेत्र के विभिन्न मतदान केंद्रों पर चुनावी मैदान में डटे सभी दलीय-निर्दलीय प्रत्याशियों के मतदान अभिकर्ता मतदाता पच्ची बनाने में सक्रिय दिखे। हालांकि जसि स्तर पर पच्ची बांटने को लेकर

काउंटर लगा था, उस अनुपात में मतदाताओं की संख्या इन काउंटरों पर काफी कम देखी गयी। ऐसे तमाम मतदाता देखे गए जिनका नाम मतदान सूची में नहीं था।

गौ माता को राष्ट्रीय पशु घोषित करने के लिए चलेगा अभियान

प्रदेश ही नहीं पूरे देश में राष्ट्रीय गौ रक्षा वाहिनी गौ सेवा सच का होगा संगठन मजबूत: जिला महामंत्री

अवधानामा संवाददाता

सुल्तानपुर। गर्मी की तेज तपन से जहाँ पशु रक्षे रहे पेड़ सहित मानव जीवन पर गहरा संकट छा रहा है वही बेजुबान जानवरों- पशुओं की देखभाल करने के लिए जनपद में इकलौता राष्ट्रीय गौ रक्षा वाहिनी गौ सेवा सच के पदाधिकारी व कार्यकर्ताओं ने जमीन पर उतरकर पशु सेवा प्रेम करते दिखाई दे रहे हैं।



राष्ट्रीय और रक्षा वाहिनी गौ सेवा सच के प्रदेश प्रभारी सर्वेश कुमार सिंह व जिला महामंत्री जयशंकर दुबे के संयुक्त तत्वाधान में संगठन को

खंड विकास अधिकारी को दी भावभीनी विदाई

अवधानामा संवाददाता

सुल्तानपुर, बल्दीराय। खंड विकास कार्यालय सभागार में विदाई समारोह में खंड विकास अधिकारी सत्य नारायण सिंह को उनके सहकर्मियों व ग्राम प्रधानों द्वारा भावपूर्ण विदाई दी गई।बीडीओ को अंग वस्त्र, धार्मिक पुस्तक व स्मृति चिह्न आदि वस्तुएं देकर उनके उज्वल भविष्य की कामना की गई।बीडीओ सत्य नारायण सिंह ने कहा कि बल्दीराय का कार्यकाल काफी यादगार रहा।निवृत्ति एवं सेवानिवृत्ति सतत प्रक्रिया है।उन्होंने अपने कार्यकाल के दौरान विभिन्न अनुभवों को भी लोगों के बीच साझा किया। एडीओ पंचायत दयावंत सिंह ने कहा कि सेवा निवृत्त बीडीओ श्री सिंह उनके लिए प्रेरणा स्रोत हैं।और उनके कार्यकाल की प्रशंसा कर कहा कि श्री सिंह ने पूरी निष्ठा और ईमानदारी से कार्य कर एक मिशाल कायम की है। एडीओ आईएम्बी



शिवकुमार ने कहा कि जब कोई भी अपने बीच का व्यक्ति जाता है तो दुख को सहन करना पड़ता है। ब्लाक कर्मियों ने श्री सिंह को माला पहना कर उन्हें विदाई दी।

इस मौके पर जिला पंचायत अध्यक्ष प्रतिनिधि श्याम प्रीत, लेखाकार सत्य नारायण गौतम, जेई शेष कुमार पांडेय, सचिव रवि कुमार राय, घनश्याम यादव, बिंदु सिंह, रोहित चंद्रा, एडीओ समाज कल्याण अभिषेक गिरी, प्रिंस सिंह, प्रदीप कुमार सिंह, एपीओ सिमता सिंह, मनोज यादव, प्रमोद कुमार यादव, राहुल यादव, लवकुश गुप्ता, सुनील

विभिन्न बिमारियों से हुई है, 17 मौतें

अवधानामा संवाददाता

सुल्तानपुर। बीते वृहस्पतिवार को स्वशासी राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय एवं जिला चिकित्सालय में 17 मौतें की खबरें सोशल प्लेटफॉर्म पर वायरल हुई थीं।जिसका संज्ञान मुख्य चिकित्साधिकारी डॉ.ओम प्रकाश चौधरी द्वारा त्वरित लेते हुए स्वशासी राजकीय महाविद्यालय का दौरा किया गया।ईमरजेंसी के सारे रिक्तों की बारीकी से निरीक्षण करते हुए इमरजेंसी के ड्यूटी पर रहे डॉक्टरों से जानकारी लेने के पश्चात मुख्य चिकित्साधिकारी डॉ.ओम प्रकाश चौधरी ने मेडिकल कॉलेज में बीमारी से मरने वालों की लिस्ट जारी की है।सीएमओ डॉ.चौधरी द्वारा जारी लिस्ट

गर्मी के साथ ही बिजली महकमे के खिलाफ पब्लिक का चढ़ा पारा

अवधानामा संवाददाता

सुल्तानपुर। शहर के केएनआई फोर्ड से विनोबापुरी, सिविल लाइन, एमजीएस फील्ड, हथिया नाला मोहल्ले में भी अघोषित कटौती व फाल्ट से आम नागरिक बेहद त्रस्त हैं। प्रशासनिक अफसर की लापरवाही से बिजली विभाग के कर्मचारी बेलागम हो गए हैं। जो कर्मचारी सब स्टेशन पर तैनात हैं। उसमें से अधिकतर रतन में निवास नहीं करते हैं। यहां पर तैनात जेई रवि मोर्य रोझाना अपने गृह जनपद अयोध्या चले जाते हैं।केप्लेट पर समस्याएं दूर करना महज रजिस्टर तक सीमित रह गया है। नागरिकों की समस्याओं पर बिजली इंजीनियर अभद्र भाषा का

केएनआई के जेई अयोध्या में करते है रात्रि निवास, एसडीओ, ईई नहीं उगतते फोन

जनता गर्मी से बेहाल कभी भी फूट सकता है बिजली महकमे के खिलाफ आक्रोश, जिले के जिम्मेदार अफसर व सांसद, विधायक बने मौन

इस्तेमाल करते हैं और विरोध करने पर मुकदमा दर्ज करने की धमकी देते हैं।लगातार बढ़ रही सवेदनहीनता से लोगों में आक्रोश बढ़ता जा रहा है। हद तो तब हो जाती है जब दिन में फाल्ट होता है तो कब बनेगा पता नहीं, यदि शाम को ही फाल्ट हुआ तो दूसरे दिन यानी कई घंटे बाद आपूर्ति बहाल होती है। जबकि सीएम समेत उच्चाधिकारियों का निर्देश है कि 24 घंटे जेई, एसडीओ, अधिशाषी

व्या कहते हैं मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी

मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर अशोक कुमार तिवारी ने बताया अब तक जनपद में कुल 44 गौशालाओं का निर्माण कराया गया है। जिनका तकरीबन निर्माण पूरा हो गया है हर गौशाला में पशुओं के रहने खाने पीने की की व्यवस्था की गई है। उनकी देखभाल के लिए गौ सेवक तैनात किए गए हैं। उन्होंने यह भी बताया कि गर्मी में चारे, व प्यास से कोई पशु परेशान ना हो इसके लिए समय-समय पर इसका निरीक्षण किया जाता है।

बताया कि जिले में लगभग 44 गौशालाओं का निर्माण सरकार द्वारा कराया गया है। मानवीयता की पराकाष्ठा को देखते हुए संगठन के पदाधिकारी प्रत्येक गौशाला का भ्रमण कर सरकार द्वारा चलाये जा रहे समुचित सुविधाओं को परखने का काम कर रहे हैं। चाहे वह पशुओं को पीने के लिए पानी का जल भराव,

खानपान चारे, गर्मी से निजात दिलाने के लिए टिनसेट में लगे हवा दार पंखे, जानवरों को धूप से बचने के लिए छाया दार जाली, शामिल है। संगठन के प्रदेश प्रभारी सर्वेश कुमार सिंह ने बताया कि गौ माता को राष्ट्रीय पशु घोषित करने के लिए अभियान के अंतर्गत प्रत्येक जनपद के जिलाधिकारी को ज्ञापन देते हुए प्रदेश

मेडिकल कॉलेज की व्यवस्था देखने पहुंचे सीडीओ



सुल्तानपुर। पूरे देश में हीट वेव को लेकर सरकार और जिला स्तर के अधिकारी सचेत हैं। उत्तर प्रदेश के कई जिलों में हीट वेव से हुई मौतों और मौसम विभाग द्वारा लगातार अलर्ट जारी होने के बाद जिले के मुख्य विकास अधिकारी अंकुर कौशिक ने शनिवार को सुल्तानपुर मेडिकल कॉलेज का निरीक्षण किया।हीट वेव से ग्रस्त मरीजों के प्राथमिक उपचार की व्यवस्था देखने के लिए आकरमिक कक्ष पहुंचे। उनके साथ प्रधानाचार्य डॉक्टर सलिल श्रीवास्तव व सीएमएस एमके कौशल भी मौजूद रहे। सीडीओ ने आकरमिक कक्ष का निरीक्षण करने के बाद चिकित्सा से जुड़े जिले के आला अधिकारियों के साथ बैठक कर चिकित्सीय व्यवस्थाओं पर चर्चा की और आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए।

खटीक मौसम में फसलों से वांछित पोषक तत्वों को करें संतुलित

ललितपुर। कृषि विज्ञान केंद्र के विषय वस्तु विशेषज्ञ सस्य विज्ञान डॉ. दिनेश तिवारी ने कृषकों सुझाव देते हेतु बताया की जल, खरपतवार, कीट एवं बीमारियों का समुचित प्रबंधन हेतु खेतों की प्रत्येक तीन वर्ष में एक बार 20 से.मी. तक मृदा की गहरी जुताई अवश्य करें, फसलों के अवशेष से गुणवत्तायुक्त खाद तैयार कर अथवा सीधे खेत में गहरी जुताई कर मिला दें, खरीफ मौसम में फसलों से वांछित पोषक तत्वों के संतुलित प्रबंधन हेतु मृदा परीक्षण उपरान्त प्राप्त संस्तुत के आधार पर खाद एवं उर्वरक का प्रयोग करने की योजना बनाये।

वाणिज्य विभाग और रेलवे सुरक्षा बल की संयुक्त टीम ने 1815 बोतलों को जब्त किया

अवधानामा संवाददाता

दुंडला। वाणिज्य विभाग और रेलवे सुरक्षा बल की संयुक्त टीम द्वारा चलाये गए अभियान के तहत सीमांचल एक्सप्रेस में बेचे जा रहे। वस्तु मानक के अनुरूप ना पाये जाने पर खानपान के स्टालों और रेल गाड़ियों में घेन्टी कर से सामान जब्त कर लिया जाता है। और जिम्मेदार लोगों के विरुद्ध कार्यवाही भी की जाती है। इसी क्रम में वाणिज्य विभाग और रेलवे सुरक्षा बल की संयुक्त टीम द्वारा चलाये गए अभियान में गाड़ी

परिवारिक कलह के चलते अथेड़ ने ख्याय जहरीला पदार्थ

पुरा। थाना क्षेत्र के सरसई गांव में परिवारिक कलह के चलते 45 वर्षीय अथेड़ ने जहरीला पदार्थ खा लेने पर परिजन उपचार के लिए जिला अस्पताल ले गए जहां हालत नाजुक देखकर प्राथमिक उपचार करने के बाद कानपुर हेल्ट के लिए रेफर कर दिया जहां उपचार के दौरान मौत हो गई। थाना क्षेत्र के सरसई गांव निवासी नरेंद्र (45) पुत्र शिवप्रसाद ने बीते गुरुवार की शाम साढ़े 6 बजे अज्ञात कारणों के चलते जहरीला पदार्थ का सेवन कर लिया जिसे परिजन आनन फानन उपचार के लिए जिला अस्पताल लेकर गए जहां प्राथमिक उपचार करने के बाद चिकित्सकों ने कानपुर हेल्ट अस्पताल के लिए रेफर कर दिया जहां उपचार के दौरान मौत हो गई वही मौत की खबर मिलते ही परिवार में कोहराम मच गया, ग्राम प्रधान प्रतिनिधि रामबाबू ने बताया कि मृतक का देहाद कर कंपनी में काम करता था, अपने पोछे एक पुत्री व दो पुत्र छोड़ गया है।

सरकार से गौ माता को राष्ट्रीय पशु घोषित करने की मांग मजबूत से किया जाएगा। बात अगर नहीं बनी तो संगठन पूरी मजबूती के साथ प्रदेश भर की जिला इकाई के माध्यम से एकसाथ दबाव बनाने के लिए सरकार का धेराव किया जाएगा। गाय को माता कहते हैं तो गऊ को राष्ट्रीय पशु घोषित करने में क्या गुरेज है। जिला महामंत्री ने बताया कि जनपद की नगर इकाई ने पशुओं को शीतल जल पिलाने के संकल्प को लेकर कटिबंध है, इसके तहत स्वयं संगठन की तरफ से चौराहे मोहल्ले के नुककरों पर सीमेंटेड हौज में जलभराव कर रखने का काम तेजी से किया जा रहा है। संगठन के प्रवक्ता रवि दुबे ने इस मानवता के कार्य में लोगों से बढ़-चढ़कर हिस्सा लेने की अपील की है।

जिपलाइन का लुप्त उठाएं सिर्फ और सिर्फ शार्क दा वॉटर वर्ल्ड में

अवधानामा संवाददाता

शिकोहाबाद। इस उमस भरी गर्मी में बच्चे व बड़ों को वाटर पार्क में नहाना खूब भा रहा है आगर ग्वालियर रोड पर शार्क दा वाटर पार्क में जाने की होड़ ही लगी है वाटर पार्क में हरियाली ही हरियाली देखने को मिलती है वाटर पार्क के ऑनर मनमोहन सिंह व जिंदेर सिंह ने बताया कि आगरा क्षेत्र में पहली बार जिपलाइन का लुप्त उठाएं सिर्फ और सिर्फ शार्क दा वॉटर वर्ल्ड में तथा हमारे यहां 20 से ज्यादा राइड्स हैं। 40 फुट टावर से न्यू थ्रिल राइड्स लगी है वेल पूल में आकर्षक फुब्बों लगे हुए हैं जिसमें एक बालू में 1500 से ज्यादा लोग समुद्र जैसी लहरों का म्यूजिक के साथ मजा लेते हैं। रैन डांस में आधुनिक टाइट की म्यूजिक सुविधा भी है वाटर पार्क के



ऑनर जसवंत सिंह व मनोज कुमार ने बताया कि खाने के लिए स्टैंडों के उतम व्यवस्था है। जिसमें फास्ट फूड, कोल्ड ड्रिंक्स एवम शाकाहारी खाना उचित मूल्यों पर मिलता है। गाड़ी पार्क करने के लिए अलग से पार्किंग की सुविधा है। फेलिंग की सुरक्षा के लिए दिल्ली की हाई क्लास सिक्वोरिटी और बाउंडर की सुविधा भी है।मैनेजमेंट डायरेक्टर अमित कुमार ने बताया कि वाटर पार्क के

कोने कोने पर सीसीटीवी कैमरे से 247 निगरानी रखी जाती है।ताता सामान को रखने के लॉकर की उतम व्यवस्था है।स्टाइड पर राइड करने के लिए नायलॉन कपड़े के बने हुए कॉस्ट्यूम की सुविधा अलग से है। बच्चों के लिए अला से दो पूल बनाए गए हैं और उनके लिए ट्यूब की व्यवस्था की गई है। पूरे वाटर पार्क प्रोफेशनल मैनेजर के द्वारा संचालन किया हुआ है।

सनी, राहुल को 15-15 वर्ष कारावास व 60-60 हजार का जुर्माना

फिरोजाबाद। पुलिस महानिदेशक महोदय उत्तर प्रदेश द्वारा प्रदेश में चलाये जा रहे ऑपरेशन कनिक्शन अभियान के अंतर्गत वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक फिरोजाबाद के निदेशन में मॉनिटरिंग सेल द्वारा प्रभावी पैरवी करते हुये ठोस साक्ष्य संकलन के आधार पर थाना लाइनपार पर पंजीकृत मु0अ0सु0-238/17 धारा 326(ए), 506 भादवि में अभियुक्तगण 01.सनी पुत्र कुंवर पाल, 02.राहुल पुत्र चन्द्र पाल निवासीगण आजाद नगर थाना लाइनपार को प्यारवण एफटीसी-01 द्वारा दोषी पाते हुए 15-15 वर्ष कारावास एवं 60-60 हजार रुपये के जुर्माने से दण्डित किया गया है। अभियुक्तों को सजा दिलाने में अभियोजक श्री अरवेश शुकल, पुलिस मॉनिटरिंग सेल एवं कोर्ट पैरोकार हे0का0 विनोद कुमार का विशेष योगदान रहा है।

सांक्षिप्त समाचार

72 घंटे बाद भी ट्रांसपोर्ट नगर क्षेत्र में नहीं आई सल्लाई

सुल्तानपुर। तापमान में बढ़ोतरी के साथ बिजली इंजीनियर भी बेलागम हो गए हैं। 72 घंटे से ट्रांसपोर्ट नगर की सल्लाई प्रभावित चल रही है। पूरी रात बिजली कटौती का सामना कर रहे ट्रांसपोर्ट नगर से जुड़े 50,000 संख्या के नागरिक। समस्या दूर करने के बजाय ट्रांसपोर्ट नगर समेत शहर के बिजली अफसर ने सीजूजी फोन उठाना बंद कर दिया है। वही जिला प्रशासन भी मामले में मुकदशक बना हुआ है। बड़ी संख्या में नागरिकों ने जिलाधिकारी से संपर्क करने का प्रयास किया, लेकिन कलेक्ट्रेट के जिलाधिकारी कार्यालय में समस्या बताने का नागरिकों का प्रयास सिफर रहा। शायद बिजली विभाग के इंजीनियर लक्ष्मणपुर, दुर्गापुर, नारायणपुर, रेलवे कालोनी, प्रयाग अयोध्या राष्ट्रीय राजमार्ग पर बसे नागरिकों के आकर्षित होने और बड़े आंदोलन छेड़ने का इंतजार कर रहे हैं।

बस स्टेशन परिसर में अज्ञात प्रोढ़ का मिला शव

सुल्तानपुर। शनिवार सुबह बस स्टेशन परिसर में एक प्रोढ़ व्यक्ति का शव देखा गया, कर्मचारियों ने तत्काल इसकी सूचना पुलिस को दी। सूचना पाकरओके पर पुलिस पहुंच गई। आसपास के लोगों ने बताया कि वह बस स्टेशन परिसर में अंडरविवर और शर्ट पहनकर एक बैग लेकर आया था और पंखे के नीचे सो रहा था। सोते समय कब उसकी जान निकल गई, यह किसी को मालूम नहीं है। पुलिस ने कंट्रोल रूम को सूचना दे दी है। शव को कब्जे में लेने के लिए स्थानीय पुलिस मौके पर पहुंच चुकी है। यात्री के पास एक खाली पिड्ड बैग और हवाई चप्पल पाया गया है। स्टेशन इंचार्ज नानू राम सरोज ने बताया कि मृत व्यक्ति की पहचान का प्रयास किया जा रहा है। पुलिस ने शव का पंचनामा बनाकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया।

कोतवाल और दरोगा ने दिया दिवंगत चौकीदार को

कंधा, अंतिम विदाई दोस्तपुर, सुल्तानपुर। जिले के दोस्तपुर थाने में तैनात रहे चौकीदार सीताराम यादव पुत्र स्वर्गीय सूरज प्रसाद यादव निवासी गोपालपुर खुर्द थाना दोस्तपुर उर करीब 80 वर्ष की इलाज के दौरान मौत हो गई। दोस्तपुर थानाध्यक्ष/ इंसपेक्टर राम आशीष उपाध्याय, थाने में तैनात उप निरीक्षक समेत सिपाहियों ने कंधा दामक कारीकाओं को भावभीनी अंतिम विदाई दी।

84 घंटे बाद भी पट्टी पर नहीं लौटी ट्रांसपोर्ट नगर की सल्लाई

सुल्तानपुर। शहरी क्षेत्र में अघोषित बिजली कटौती और ट्रांसपोर्ट नगर उप केंद्र से 84 घंटे बाद भी बिजली आपूर्ति सामान्य नहीं होने को शासन ने संज्ञान लिया है। बिजली इंजीनियरों की खराब परफॉर्मिस को देखते हुए मुख्य विकास अधिकारी अंकुर कौशिक की तरफ से शनिवार की शाम बिजली इंजीनियरों की बैठक बुलाई है। बैठक में अब तक किए गए कार्य और खामियों पर पृष्ठाख की जाएगी। ट्रांसपोर्ट नगर से 84 घंटे बाद भी बिजली आपूर्ति सामान्य नहीं हो सकी है। नारायणपुर, लक्ष्मणपुर, रेलवे कालोनी और दुर्गापुर मोहल्ले में रात भर लाइट गायब रहने से लोगों में ख़ास रोष देखा जा रहा है। उपभोक्ता आंदोलित है बिजली इंजीनियरों की लापरवाही के खिलाफ। मुख्य विकास अधिकारी अंकुर कौशिक ने बताया कि शाम की बैठक में समीक्षा की जाएगी। शहरी क्षेत्र की बिजली आपूर्ति जल्द दुरुस्त कराई जाएगी।

तेज रफ्तार बाइक ने मारी टक्कर, घायल

करौंदीकला, सुल्तानपुर। विकास क्षेत्र के भटौता तुलसी पट्टी में तेज बाइक सवार ने मारी टक्कर साइकिल सवार गंधीरू रूप से घायल हो गया। सुभाष यादव पुत्र विश्वनाथ यादव निवासी भटौता तुलसी पट्टी थाना करौंदीकला शाम को सामन लेकर लगभग 8 बजे सायकिल से घर आ रहे थे। निर्माणाधीन प्रतापपुर रबनिया मार्ग पर हरिश्याम के घर के सामने से तेज स्पीड से आ रही अनियंत्रित बाइक सवार पंकज पुत्र मिठाई लाल ने सुभाष यादव को टक्कर मार दिया। बाइक की टक्कर से घायल सुभाष यादव को उपचार हेतु अस्पताल ले जाया गया। वहीं दूसरी तरफ निर्माणाधीन प्रतापपुर रबनिया मार्ग पर भटौता तुलसी पट्टी गांव में निपाद बस्ती के मोड़ के पास आनंद प्रकाश तिवारी पुत्र कपिल देव तिवारी को रात्रि में अज्ञात वाहन ने टक्कर मार कर घायल कर दिया। निर्माणाधीन प्रतापपुर रबनिया मार्ग का कार्य जब तक पूरा नहीं हो जाता तब तक ऐसे हादसे होते रहेंगे। निर्माणाधीन प्रतापपुर रबनिया मार्ग गांव को जोड़ने के कारण सड़क पर ब्रेकर बनाने की अति आवश्यकता है। तभी इस प्रकार की दुर्घटना रोकी जा सकती है।

प्रेक्षक, डीएम व एसपी ने मतगणना स्थल की देखी तैयारियां

अवधानामा संवाददाता

ललितपुर। लोकसभा सामान्य निर्वाचन के अंतर्गत 4 जून को संपन्न होने वाली मतगणना की तैयारियों का जायजा लेने के उद्देश्य से मतगणना पर्यवेक्षक जैसमिन बी., जिला निर्वाचन अधिकारी, जिलाधिकारी अक्षय त्रिपाठी, पुलिस अधीक्षक मोहम्मद मुरताक ने संयुक्त रूप से मतगणना स्थल अमरपुर मण्डी का निरीक्षण किया, उन्होंने दोनों विधानसभाओं के लिए बनाये गए स्ट्रॉग रूम, मतगणना चबूतरों, राजनैतिक दलों के बैठने हेतु टेबलों व मीडिया सेंटर की व्यवस्थाओं को देखा। जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि नवीन कृषि उत्पादन मण्डी समिति, अमरपुर में प्रातः 8 बजे से मतगणना का कार्य प्रारंभ कराया जाना है, चार जून को राजनैतिक दलों के

त्रिस्तरीय सुरक्षा व्यवस्था में रहेगा सम्पूर्ण मतगणना स्थल

अमरपुर मण्डी में 4 जून को प्रातः 8 बजे शुरु होगी मतगणना

मतगणना हेतु प्रत्येक विधानसभावार लगेगी 21-21 टैबिल

मीडियाकर्मी अपने मोबाइल फोन मीडिया सेंटर तक ही ले जायेंगे

मतगणना स्थल पर शरभ, मोबाइल, ज्वलनशील पदार्थ व बीड़ी-माविस ले जाना रहेगा प्रतिबन्धित



प्रतिनिधियों की उपस्थिति में प्रातः 6:30 मतगणना स्थल पर दोनों विधानसभाओं के स्ट्रॉग रूम खोले जायेंगे, इसके पश्चात प्रातः 8 बजे से मतगणना प्रारंभ हो जाएगी, ललितपुर की मतगणना चबूतरा संख्या 1 तथा महरोनी की मतगणना चबूतरा संख्या 2 पर सम्पन्न होगी, मतगणना हेतु प्रत्येक विधानसभा हेतु 22-22 टैबल लगायी

गई हैं, जिसमें 21 टैबिल मतगणना हेतु एवं 1 टैबिल एआरओ के लिए निर्धारित हैं, प्रत्येक टैबिल पर 4-4 कार्मिक रहेंगे, जो आरओ, एआरओ, दूसरे बैरियर, चेकपोस्ट से पुनः तलाशी उपरान्त चबूतरा संख्या 1 के पास बने बैरियर, चेकपोस्ट पर तलाशी देते हुए तदोपरान्त निर्दिष्ट विधानसभा के मतगणना पण्डाल पर पहुंचेंगे और पुनः

खुलता है, जिसमें वन वे व्यवस्था बनाई जाएगी, गेट की तरफ का रोड रिजर्व रहेगा, मतगणना हाल में मोबाइल फोन, अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण, कैमरा, माफिस, ज्वलनशील, धूम्रपान सामग्री लेकर प्रवेश वर्जित है, मीडिया सेंटर के अलावा मतगणना स्थल पर, कहीं भी मोबाइल ले जाने की अनुमति नहीं होगी। पुलिस अधीक्षक मोहम्मद मुरताक ने सुरक्षा व्यवस्था के बारे में विस्तार से अवगत कराते हुए बताया कि सुरक्षा व्यवस्था के दृष्टिगत मतगणना स्थल के मुख्य द्वार पर बने बैरियर, चेकपोस्ट से सघन तलाशी के उपरान्त ही प्रवेश की अनुमति होगी, दूसरे बैरियर, चेकपोस्ट से पुनः तलाशी उपरान्त चबूतरा संख्या 1 के पास बने बैरियर, चेकपोस्ट पर तलाशी देते हुए तदोपरान्त निर्दिष्ट विधानसभा के मतगणना पण्डाल पर पहुंचेंगे और पुनः

मतगणना पण्डाल के मुख्य द्वार पर सघन तलाशी के उपरान्त ही मतगणना हॉल के निर्दिष्ट टैबिल पर उपस्थित होंगे, प्रत्याशी, उनके निर्वाचन अधिकर्ता, मतगणना अधिकर्ता प्रवेश करते समय अपना मतगणना पास, परचय पत्र लगाकर ही प्रवेश करेंगे, स्ट्रॉग रूम तथा मतगणना स्थल के प्रवेशद्वार पर पुलिस बल की तैनाती रहेगी। निरीक्षण के दौरान अपर जिलाधिकारी वित्त एवं राजस्व अंकुर श्रीवास्तव, अपर पुलिस अधीक्षक अनिल कुमार, उप जिलाधिकारी सदर चन्द्रधरप्रण प्रताप, उप जिलाधिकारी महारौनी राजबहादुर, डिट्टी कलेक्टर श्रीराम यादव, सीओ सिटी अभयनारायण राय, जिला खनन अधिकारी अमितोष वर्मा, सहायक निदेशक सूचना सुरजीत सिंह सहित अन्य अधिकारीगण उपस्थित रहे।

मतगणना केन्द्र की सम्पूर्ण प्रक्रिया सीसीटीवी की निगरानी होगी

अवधानामा संवाददाता

हमीरपुर। जिलाधिकारी/जिला निर्वाचन अधिकारी राहुल पाण्डेय की अध्यक्षता एवं पुलिस अधीक्षक दीक्षा शर्मा की उपस्थिति में दिनांक 04.06.2024 की मतगणना के संबंध में राजनैतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक का आयोजन डॉ 04पी0जे0 अखिल कलाम सभागार में आयोजित की गयी।

बैठक में जिलाधिकारी/जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि 47-हमीरपुर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के अन्तर्गत समाविष्ट 228-हमीरपुर एवं 229-राठ (अ0जा0) की मतगणना दिनांक 04.06.2024 को

प्रातः 08-00 बजे से कृषि उत्पादन मण्डी स्थल भरुआ सुमेरपुर में, 230-महोबा एवं 231-चरखारी की मतगणना राजकीय पालीटेक्निक महोबा में एवं 232-तिन्दवारी की मतगणना कृषि उत्पादन मण्डी समिति, तिन्दवारी रोड, बाँदा में होगी। मतगणना केन्द्र में प्रवेश केवल वैध पास धारकों को ही दिया जायेगा। मतगणना एजेण्टों की नियुक्ति किये जाने हेतु फार्म-18 भरकर प्रत्येक प्रत्याशी द्वारा जमा करने के उपरान्त उसका पुलिस वेरिफिकेशन किया जायेगा एवं आयोग द्वारा निर्धारित समस्त मानक पूर्ण करने के उपरान्त ही उसका पास जारी किया जायेगा। मतगणना एजेण्ट प्रवेश के समय अपना पास अवश्य साथ रखेंगे बिना



उसके मतगणना हॉल में प्रवेश नहीं दिया जायेगा। निर्धारित विधानसभा के जिस टेबिल/संख्या पर मतगणना एजेण्ट की नियुक्ति की जायेगी वह उसी विधानसभा की उसी संख्या की टेबिल पर उपस्थित रहकर मतगणना प्रक्रिया का अवलोकन करेगा। समस्त पोस्टल बैलट कोषागार, हमीरपुर स्थित डबल लॉक में रखे गये हैं जोकि दिनांक 04.06.2024 को मतगणना

दिवस पर प्रातः 05:00 बजे मजिस्ट्रेट एवं पुलिस बल की उपस्थिति में कोषागार से निकाले जायेंगे तथा मजिस्ट्रेट एवं पुलिस अभिरक्षा में जी0पी0एस0 युक्त बन्द कृषि उत्पादन मण्डी स्थान भरुआ जायेंगे। कोषागार डबल लॉक खोलते समय अपेक्षित है कि प्रत्याशी स्वयं अथवा अपने प्रधिकृत प्रतिनिधि के माध्यम से उपस्थित रहकर अवलोकन

कुरारा के तीन वार्डों में पीने के पानी का संकट

कुरारा हमीरपुर। कस्बा में तीन वार्डों में छाया पेयजल का संकट, वार्ड वासी दूर दराज से रिक्रो में ड्रामों में पानी भरकर ला रहे हैं। कस्बा के कालपी हमीरपुर हाईवे के किनारे जल संस्थान की पुराई पाइपलाइन नाला की मिट्टी की पुराई के दौरान टूट जाने से बीते दो दिनों से भीषण गर्मी में पेयजल आपूर्ति न होने से लोगों को रिकशा में ड्रामों में पानी भर कर लाना पड़ रहा है, कस्बा के वार्ड नंबर 3, 9, 4 वार्डों में पानी की आपूर्ति बीते दो दिनों से न होने से हैंडपंपों में पहले पानी भरने के लिए आपस में झगड़ रहे हैं, वार्ड के योगराज, राम विजय आदि ने बताया कि 2 दिनों से पेयजल आपूर्ति बाधित होने से इस भीषण गर्मी में दूर दराज में शॉर्ट सर्किट होने से आग लग गई है, जल संस्थान के लिपिक राजेंद्र प्रसाद ने बताया कि सामान हमीरपुर से आने के बाद पाइप लाइन सही कर आपूर्ति शुरू की जाएगी।

भीषण गर्मी में धमाके साथ एसी ब्लास्ट

अवधानामा संवाददाता

राठ (हमीरपुर)। भीषण गर्मी के चलते शॉर्ट सर्किट से एसी ब्लास्ट होकर फट गई और मकान की दीवार में दरारे आ मकान क्षतिग्रस्त हो गया। आग लगने पर मकान में मौजूद लोगों ने बाहर निकलकर अपनी जान बचाई। दमकलकर्मियों व पड़ोसियों की मदद से आग पर पानी डालकर काबू पा लिया गया। राजस्वकर्मियों के साथ पुलिस ने घटनास्थल का निरीक्षण किया। नगर के बुधौलिया मुहल्ला स्थित गुरुद्वारा के समीप रहने वाले राजबहादुर सिंह उर्फ राजू सरदार ने बताया कि उनके मकान की दूसरी मंजिल पर एसी लगा है। शुक्रवार की रात करीब एक बजे स्टेपलाइजर में शॉर्ट सर्किट होने से आग लग गई थोड़ी ही देर में आग ने विकराल रूप धारण कर लिया। आग लपटे देख कमरे में सो रहा उनका पुत्र ईशू, बहू नवजीत कौर बाहर भागे। इसी दौरान

संख्या-02 में व 229-राठ (अ0जा0) के ईवीएम में पड़े मतों की गणना शेड संख्या-03 में होगी। प्रत्येक चक्र की गणना के उपरान्त टेबल पर पड़े मतों की संख्या के गणना प्रपत्र 17 सी भाग-2 पर भरकर समस्त काउंटिंग एजेण्ट के हस्ताक्षर कराये जायेंगे एवं उसकी उल्लापत्रिया समस्त एजेण्ट की उपस्थिति में प्रारंभ करायी जायेगी। मा0 प्रेक्षक महोदय एवं समस्त प्रत्याशियों की उपस्थिति में प्रातः 06:00 बजे स्ट्रग रूम को खोला जायेगा। इसके अतिरिक्त मतगणना समाप्ति के उपरान्त श्रेणी एवं श्रेणी बी को मशीनों को कृषि उत्पादन मण्डी स्थल, भरुआ सुमेरपुर से कलेक्ट्रेट कैम्पस में स्थित वीवीपैट वेयरहाउस में रखा जायेगा।

करंट की चपेट में आया लाइनमैन इलाज के दौरान मौत

अवधानामा संवाददाता

कुरारा-हमीरपुर। कस्बा के बड़े देव बाबा के पास सविदा कर्मी की खरौंज विद्युत लाइन में करंट की चपेट में आने से 30 वर्षीय लाइनमैन की उपचार के दौरान मौत हो गई। कस्बा के मंडी समिति के आगे नई बस्ती निवासी योगेंद्र कुमार उर्फ रिकू (30) पुत्र भगवान दास धुरिया सविदा में विद्युत विभाग में लाइनमैन के पद पर कार्यरत था, शनिवार की दोपहर डेढ़ बजे शटडाउन लेकर खरौंज विद्युत लाइन में काम कर रहा था अचानक करंट की चपेट में आ जाने से नीचे गिरकर घंटों अचेत पड़ा रहा वहीं शटडाउन वापस न होने पर विभाग के अन्य लाइनमैन मृतक को

दुबड़े दुबड़े खरौंज विद्युत लाइन के पास पहुंचे तो देखा कि मृतक घायल अवस्था में जमीन में अचेत पड़ा हुआ था वहीं आनन फानन घायल को लेकर स्थानीय सीएचसी लेकर आए जहां चिकित्सकों ने प्राथमिक उपचार करने के बाद हालत नाजुक देख जिला अस्पताल के लिए रेफर कर दिया जहां जिला अस्पताल में उपचार के दौरान प्रथम मृतक की विद्युत विभाग के अवर अभियंता अभिषेक साहू ने बताया कि मृतक लाइनमैन ने नमामि गंगे की लाइन का शटडाउन लिया था लेकिन यह समझ में नहीं आ रहा है कि खरौंज लाइन में काम करने कैसे चला गया वहीं मृतक अविवाहित है इस घटना से मृतक की बहन व मां का रो रो कर बुरा हाल है।

ऑडियो वायरल करने की धमकी देकर किया दुष्कर्म

भरुआ सुमेरपुर। एक माह पूर्व बातचीत का ऑडियो वायरल करने की धमकी देकर एक युवक ने युवती के साथ उसके घर में घुसकर दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया। पुलिस ने युवती की तहरीर पर आरोपी के खिलाफ दुष्कर्म का मुकदमा दर्ज किया है। मुकदमा दर्ज होते ही युवक भूमिगत हो गया है। कस्बा के बांकी मार्ग निवासी एक युवती ने बताया कि पड़ोस में रहने वाला प्रद्युम्न उर्फ पंकज यादव ने बीते 30 अप्रैल को बातचीत का ऑडियो वायरल करने की धमकी देकर रात में 12:00 बजे घर में घुस आया और तमंचा लगाकर जबरिया दुष्कर्म किया और अपने मोबाइल से दुष्कर्म का वीडियो बना लिया। बताया कि जान से मारने की धमकी देकर कहा कि यदि युवती न मानेगी तो ऑडियो, वीडियो वायरल करके बदनाम कर देगा और चला गया। पुलिस ने युवक के खिलाफ दुष्कर्म का मुकदमा दर्ज करके युवती को डाक्टर परीक्षण के लिए भेजा है।



आग से कमरे में लगी एसी जोरदार धमाके के साथ ब्लास्ट हो गई। मकान में मौजूद सभी परिजन बाहर निकल गये। शोर मचाने व ब्लास्ट की आवाज सुनकर पड़ोसी भी मौके पर पहुंच गये। गृहस्वामी ने बताया कि आग की चपेट में वहां रहे इन्वर्टर, बैट्री, एलईडी टीवी, कपड़े की झाल, वाशिंग मशीन जलकर पूरी तरह खाक हो गई। आग ने मकान को अपनी आगोश में ले लिया और छत व दीवारों पर दरारें आ पड़े गईं तथा खिड़किया टूट गईं। इस आगजनी में गृहस्थी का

सामान जल गया। इस दौरान पुलिस और दमकल कर्मी मौके पर पहुंच गये पड़ोसियों की मदद से आग पर काबू पा लिया गया। तब तक मकान की दरवाजे, खिड़कियाँ और गृहस्थी का सामान जलकर राख हो गया था। शनिवार सुबह लेखपाल रामगोपाल ने घटनास्थल का निरीक्षण किया। पीड़ित ने बताया कि आग से उसका करीब 3 लाख रुपए का नुकसान हो गया है। थाना प्रभारी निरीक्षक उमेश कुमार सिंह ने बताया कि शॉर्ट सर्किट के चलते मकान में आग लगी है।

चुनाव ड्यूटी न करने वाले कर्मचारियों के वेतन रोकने का आदेश

अवधानामा संवाददाता

हमीरपुर। मुख्य विकास अधिकारी / प्रभारी अधिकारी कार्मिक, हमीरपुर चंद्रशेखर शुक्ला ने जारी प्रेम विज्ञापन में बताया कि लोक सभा सामान्य निर्वाचन-2024 में मतदान कार्मिक यथा-पीठसीन अधिकारी, मतदान अधिकारी प्रथम, मतदान अधिकारी द्वितीय एवं मतदान अधिकारी तृतीय ड्यूटी जिला निर्वाचन अधिकारी के स्तर से लगायी गयी थी। दिनांक 19-05-2024 को मण्डी स्थल सुमेरपुर में ड्यूटी पत्र प्राप्त करने के बाद मतदान कार्मियों द्वारा स्वैच्छाचारिता अपनाते हुये स्थल पर ड्यूटी करने नहीं गये जिससे मतदेय स्थल पर पोलिंग पार्टियों को रवाना किये जाने में अनावश्यक परेशानी का सामना

करना पड़ा तथा विलम्ब से पोलिंग पार्टियों को रवाना किया जा सका। अतः निर्वाचन जैसे महत्वपूर्ण कार्य में लापरवाही बरते जाने के दृष्टिगत पवन कुमार गुप्ता, प्र.अ. प्रा.वि. ददरी-कुरारा, अजय सिंह सहा.अ. कृषक भारती उच्च माध्यमिक विद्यालय उजनेड़ी सुमेरपुर, कृष्ण कुमार दीक्षित सहा.अ. प्रा.वि. बंगरा - सरौला, रवि शंकर पटेल सहा.अ. प्रा.वि. बांधर खुर्द मुस्करा, अर्चना कुमारी स.अ. उ.प्रा.वि. टेढ़ा (1-8)- सुमेरपुर, गीता प्रजापति स.अ. उ.प्रा.वि. बाँक (1-8)- सुमेरपुर, रबी गुप्ता प्र.अ. प्रा.वि. नैठी-कुरारा, विनीता शिवहरे स.अ.प्रा.वि. काछिन डेरा-मौदा, सैय्यद इरफान अली सहा.अ. इस्लामिया इण्टर कॉलेज हमीरपुर, महबूब अली सहा.अ. फैज ए आम इण्टर कॉलेज राठ, श्रद्धा अग्रवाल

स.अ. रा.हाई स्कूल टोला रावत-राठ, अर्चना श्रीवास्तव स.अ. इस्लामिया इण्टर कॉलेज हमीरपुर, शिवांगी स्वर्णकार स.अ. राजकीय बालिका इण्टर कॉलेज हमीरपुर, हरचरन सफाई कर्मी जिला पंचायत राज अधिकारी, हरी सिंह सफाई कर्मी जिला पंचायत राज अधिकारी, सविता बुधौलिया क्लर्क नगर पालिका राठ, कलिया सफाई कर्मी नगर पालिका राठ, सतीश कुमार क.सहा उअ निबन्धक सदर हमीरपुर एवं लालू बेलदार अधिशाषी अभियन्ता प्राचीन खण्ड लोक निर्माण हमीरपुर (19 मतदान कार्मिक) का दिनांक 19-05-2024 व 20-05-2024 का वेतन/मानदेय अग्रिम आदेशों तक अवरूद्ध किये जाने हेतु संबंधित विभाग के, विभागाध्यक्ष को निर्देश प्रदान किये गये हैं।

जनपद के चारों विधानसभा क्षेत्र में निर्वाचन शान्तिपूर्ण ढंग से संपन्न

मतदान समाप्ति 5 बजे तक 54.25 प्रतिशत मतदाता मतधिकार का प्रयोग किये

अवधानामा व्यूरो

सोनभद्र। लोकसभा सामान्य निर्वाचन-2024 के तहत 80-रावर्टसंग संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के विधानसभा क्षेत्र घोरावल, रावर्टसंग, ओबरा दुद्धी एवं उप निर्वाचन विधान सभा दुद्धी में मतदान प्रक्रिया बहुत ही शान्तिपूर्ण ढंग से सम्पन्न हुई। मतदान समाप्ति तक का जो आंकड़ा प्राप्त हुआ है उसके अनुसार जनपद में कुल 54.25 प्रतिशत मतदान हुआ जिसमें सर्वाधिक मतदान का प्रतिशत 57.32 घोरावल क्षेत्र का रहा, जहां 57.32 प्रतिशत, रावर्टसंग विधानसभा क्षेत्र में 54.07 प्रतिशत,



ओबरा विधानसभा क्षेत्र में 41.41 प्रतिशत, दुद्धी विधानसभा एवं उप निर्वाचन दुद्धी क्षेत्र में 54.48 प्रतिशत मतदान हुआ। लोकसभा सामान्य निर्वाचन-2024 के सम्बन्ध में प्राप्त सूचना अनुसार मतदान पूरी तरीके से शान्तिपूर्ण ढंग से सम्पन्न हुआ और कहीं से भी मतदान में किसी व्यवधान की खबर नहीं है। जिलाधिकारी/जिला निर्वाचन अधिकारी चन्द्र

विजय सिंह, पुलिस अधीक्षक डॉ. यशवीर सिंह के अलावा मा. सामान्य प्रेक्षक जया लक्ष्मी के निगरानी में सकृशल सम्पन्न कराया गया। इस दौरान जिलाधिकारी/जिला निर्वाचन अधिकारी व पुलिस अधीक्षक डॉ0 यशवीर सिंह ने ध्रमणशील रहकर मतदान केन्द्रों का निरीक्षण कर स्थिति का जायजा लेते रहे। इस दौरान जिला निर्वाचन अधिकारी ने मतदान केन्द्रों



में तैनात पीठसीन अधिकारी व मतदान कार्मिकों को चुनाव प्रक्रिया को पारदर्शी व शांतिपूर्ण ढंग से सम्पन्न हो, इसके लिए आवश्यक दिशा-निर्देश देते रहे। इस दौरान जिला निर्वाचन अधिकारी व पुलिस अधीक्षक ने भी सुरक्षा व्यवस्था बेहतर हो, के दृष्टिगत सुरक्षा का जायजा लेते रहे। इस दौरान जिला निर्देश प्रदान किये गये हैं।

निर्वाचन अधिकारी पुलिस अधीक्षक ने प्राथमिक विद्यालय सलखन के मतदान केन्द्र व राजा बलदेव दास बिड़ला सोन घाटी इंटर कॉलेज सलखन सोनभद्र का भी जायजा लिये, इस मौके पर जिलाधिकारी ने मतदाताओं से वार्ता मतदान प्रक्रिया के सम्बन्ध में जानकारी प्राप्त की और मतदाताओं को किसी प्रकार समस्या न हो, इस सम्बन्ध में भी जानकारी

प्राप्त की, जिस पर मौके पर मौजूद मतदाताओं द्वारा बताया गया कि मतदान के दौरान के किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं हुई है। लोकसभा सामान्य निर्वाचन व विधान सभा दुद्धी, उप निर्वाचन की मतदान प्रक्रिया सकृशल, निष्पक्ष व शांतिपूर्ण ढंग से सम्पन्न हो सके, इसके लिए जिलाधिकारी/जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा कलेक्ट्रेट सभागार में स्थापित एकीकृत कन्ट्रोल रूम से जनपद के चारों विधान सभाओं में स्थापित मतदान केन्द्रों में हो रहे मतदान प्रक्रिया का जायजा लेते रहे। इस दौरान किसी प्रकार की मतदान केन्द्रों में मतदाताओं व मतदान कार्मिकों को किसी प्रकार की समस्या उत्पन्न न हो, इसके सम्बन्ध में लगातार नजर रखी जा रही थी और सम्बन्धितों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिया जा रहा था।

अज्ञात वाहन ने बाइक सवार को मारी टक्कर, युवक की मौत

अवधानामा संवाददाता

राठ, हमीरपुर। कोतवाली क्षेत्र के मुस्करा रोड पर स्थित श्यामला देवी गेट के पास तेज रफ्तार अज्ञात वाहन ने एक बाइक में जोरदार टक्कर मारी दी जिससे बाइक पर सवार युवक की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। घटना की जानकारी लगते ही मृतक के परिवार में कोहराम मच गया। सूचना पर पहुंची पुलिस के द्वारा मृतक के शव का पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम को भेजा दिया है। जानकारी के अनुसार राठ क्षेत्र के उपरहंका गांव का निवासी प्रदीप पुत्र कडोरा जो कि अपने चचेरे भाई भूपेंद्र पुत्र हरिचंद्र के साथ उसके टैक्टर की रिपैरिंग करने के लिए कस्बा राठ आया हुआ था। तथा राठ से वापस लौटने के दौरान विपरीत



दिशा से आ रहे तेज रफ्तार अज्ञात वाहन ने उनकी बाइक में जोरदार टक्कर मारी दी। जिससे हुए हादसे में बाइक चला रहा युवक भूपेंद्र मामूली रूप से घायल हो गया। तथा बाइक पर पीछे बैठे प्रदीप की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। मृतक के परिजनों ने बताया कि मृतक प्रदीप किसी किसानी और पशुपालन आदि कर अपने परिवार का भरण पोषण करता था। जो कि अपने पीछे पत्नी रमा देवी व 5 वर्षीय पुत्री गौरी के अलावा बड़े भाई अरविंद और छोटे भाई धर्मेंद्र को रोता बिलखता हुआ छोड़ गया है। मामले में राठ कोतवाली के प्रभारी इस्पेक्टर ने बताया कि मृतक के शव का पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम कराया आ रहा है तथा टक्कर मारने वाले वाहन की तलाश की जा रही है।

जुआ खेलते चार जुआरी गिरफ्तार एनटीपीसी-विंध्याचल ने 09 सेवानिवृत्त कर्मचारियों को दी विदाई

अवधानामा संवाददाता

राठ। पुलिस अधीक्षक जनपद हमीरपुर के निर्देशन में अपराध नियन्त्रण व अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे गिरफ्तारी अभियान के क्रम में आज दिनांक 01.06.2024 को थाना राठ पुलिस द्वारा अभियुक्तगण 1 सूरजपाल पुत्र शंकर लाल निवासी ग्राम बकराई थाना मझगाव जनपद हमीरपुर 2 इशरत पुत्र रऊ निवासी मोहल्ला पठनऊ कस्बा व थाना राठ जनपद हमीरपुर 3 संतोष कुमार पुत्र करण सिंह निवासी चरखारी रोड कस्बा व थाना राठ जनपद हमीरपुर 4 अनिल कुमार पुत्र संतोष कुमार निवासी उई स्टैंड



कस्बा व थाना राठ जनपद जनपद हमीरपुर जीतू के मकान के पास खाली जगह फरसौलिया थाना राठ जनपद हमीरपुर को जुआ खेलते हुए गिरफ्तार कर नियमानुसार थाना

स्थानीय पर मुकदमा अपराध संख्या 241/24 थारा 13 सर्वजनिक जुआ अधिनियम बनाम सूरजपाल आदि 04 नफर उपरोक्त के विरुद्ध पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जाएगी।

अवधानामा संवाददाता

सोनभद्र/विंध्यनगर। एनटीपीसी-विंध्याचल परियोजना में दिनांक 31.05.2024 को अपनी दीर्घ सेवा देने के उपचार कुल 09 कर्मचारी सेवानिवृत्त हुए। सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारी इस प्रकार से हैं - श्यामलाल राम, उप प्रबंधक (एमजीआर), विरोश कुमार दुबे, उप प्रबंधक (सविदा एवं सामग्री), शाजी जार्ज, सहायक प्रबंधक (मानव संसाधन), लीलाधर गायकवाड़, अभियंता /एसएलपीएस (प्रचालन), लाल दिवाकर सिंह, अभियंता/ एसएलपीएस (प्रचालन), सतीश चन्द्र ठाकुर, अभियंता /एसएलपीएस (प्रचालन), जागेंद्र

प्रसाद दुबे, उप अधिकारी (एफ ई एस), सुनील कुमार अतुलकर, उप अभियंता (बीएमडी) एवं रामलाल विचार, सहायक ग्रेड-4 (एफक्यूए)।

एनटीपीसी-विंध्याचल प्रबंधन द्वारा सेवानिवृत्त होने वाले सभी कर्मचारियों का सम्मान परियोजना के उमंग धवन के सभागार में किया गया। स्वागत की कड़ी में परियोजना प्रमुख (विंध्याचल) श्री ई सत्य फणि कुमार एवं मुख्यमहाप्रबंधक (प्रचालन) एवं अनुक्षण) श्री समीर शर्मा में सभी सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारियों का पुष्पमाला से स्वागत किया। साथ ही परियोजना की यूथियन/एसोसिएशन के प्रतिनिधियों ने भी पुष्पमाला पहनाकर अतिथि कर्मचारियों का स्वागत किया।



इस अवसर पर परियोजना प्रमुख (विंध्याचल) ई सत्य फणि कुमार ने सभी सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारियों की सराहना करते हुए कहा कि एनटीपीसी-विंध्याचल को वर्तमान ऊंचाइयों तक पहुंचाने में आपके योगदान को हमेशा याद रखा जाएगा और एनटीपीसी-विंध्याचल सदा ही आपकी सेवा के लिए आपका कृतज्ञ रहेगा। साथ

हि महाप्रबंधक (प्रचालन) एवं अनुक्षण) राजेश भारद्वाज ने सभी सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारियों को अपने जीवन की नई पारी की नए सिरे से शुरुआत करने हेतु शुभकामनायें दीं तथा सभी के उत्तम स्वास्थ्य की कामना की। इसी कड़ी में विभागाध्यक्षों ने भी सभी सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारियों को अपने जीवन की नई पारी की नए

सिरे से शुरुआत करने हेतु शुभकामनायें दीं तथा सभी के उत्तम स्वास्थ्य की कामना की। सम्मान की कड़ी में सेवानिवृत्त होने वाले सभी कर्मचारियों का मुख्य परियोजना प्रमुख (विंध्याचल) ई सत्य फणि कुमार एवं अन्य महाप्रबंधकगणों द्वारा फल, शाल एवं स्मृति-चिन्ह से सम्मानित किया। साथ ही सभी सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारियों को सम्मानित करते समय उनके परिजनों को आमंत्रित कर इस भावुक क्षण को उनके लिए यादगार बनाने का प्रयास किया गया। इसके अतिरिक्त सभी सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारियों को एनटीपीसी में उनके द्वारा दी गई दीर्घ सेवाओं के लिए दीर्घ सेवा प्रमाण-पत्र आदि भी प्रदान किया गया।

आम जनमानस की समस्यायें सुलझाने खुद मैदान मे उतरे मुख्य अभियंता

अवधानामा संवाददाता

बाँदा। चिलचिलाती धूप में जहां तापमान 45/46 डिग्री पर पहुंच रहा है वहीं लगातार विद्युत कटौती और स्थानीय फाल्ट बढ़ने से स्थितियां बहुत बदतर हो रही हैं, अवधानामा ने कल ही बिजली विभाग की लापरवाही से पूरे शहर में त्राहीमाम नामक शीर्षक से खबर प्रकाशित की थी जिसके परिणाम स्वरूप दक्षिणांचल विद्युत वितरण के प्रबंध निदेशक अमित किशोर जी ने बाँदा आकर यहां की स्थितियों का बारीकी से निरीक्षण कर जिलाधिकारी और अन्य अधिकारियों के साथ साथ सदर विधायक प्रतिनिधी रजत सेठ के साथ

दूसरी ओर से सदर विधायक प्रतिनिधी रजत सेठ ने सम्माली कमान दक्षिणांचल विद्युत वितरण के प्रबंध निदेशक भी आज बाँदा आये



और आते ही उन्होंने शहर वासियों के दर्द को समझते हुये स्वयं ही मडियानाके मे कार्य करवाने मे जुट गये, वहीं दूसरी तरफ से सदर विधायक के प्रतिनिधी रजत सेठ ने भी मैदान मे उतर आये और जनता से

सामंजस्य बैठकर जल्द से जल्द कार्य करने मे जुट गये। पिछले हफ्तों से बिगडी व्यवस्था को बनाने के लिये जैसे पूरे विभाग ने कमर कस ली सभी एकदूसरे के साथ मिलकर फाल्टों को बनाने मे जुट गये। बैठक में प्रबन्ध

निदेशक दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम श्री अमित किशोर ने कहा कि विद्युत विभाग द्वारा पुराने एवं जर्जर तारों को बदलने की कार्यवाही की जा रही है। उन्होंने कहा कि सभी उद्यमी एवं संगठन विद्युत सुरक्षा से सम्बन्धित एनओसी निवेश मित्र पोर्टल में ऑनलाइन एप्लाइ कर प्राप्त कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि विद्युत सार्ट सर्किट होने से भी अग्नि दुर्घटनायें होती हैं इसलिए व्यवसायिक संगठन एवं उद्यमी अपने विद्युत लोड के अनुसार उसी क्षमता का विद्युत कनेक्शन प्राप्त करें, जिससे सार्ट सर्किट जैसी दुर्घटनाओं से बचाव हो सके। उन्होंने विद्युत विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिये कि

बिजली की समस्याओं के निस्तारण हेतु सभी अधिकारी शिकायत प्राप्त होने पर तत्काल फोन रिसीव करें और उनका प्राथमिकता पर निस्तारण कराना सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा कि ट्रांसफार्मरों को सुरक्षित रखने के लिए उनके चारों ओर साफ-सफाई रखी जाए एवं कूड़ा एकत्र न होने पाये, जिससे कि गर्मी के मौसम में किसी प्रकार की दुर्घटना होने से बचाव हो सके। उन्होंने बताया कि विद्युत सम्बन्धी शिकायत को 1912 एवं कन्ट्रोल रूम नम्बर 9415909206 तथा 9511143 1985 पर भी दर्ज करा सकते हैं, जिसमें उनकी समस्याओं का शीघ्र निस्तारण किया जायेगा।

डीएम-एसपी नें स्ट्रांग रूम का किया मुआयना

अवधानामा संवाददाता

हमीरपुर। जिलाधिकारी जनपद हमीरपुर व पुलिस अधीक्षक जनपद हमीरपुर के द्वारा नवीन गल्ला मंडी सुमेरपुर में जाकर स्ट्रांग रूम व मतगणना बैरिक्लेटिंग व्यवस्था का निरीक्षण किया गया। स्ट्रांग रूम सुरक्षा में लगे पुलिस कर्मियों को सतर्कता से ड्यूटी करने संबंधी आवश्यक दिशा-निर्देश दिए गए। इस अवसर पर



अन्य संबंधित अधिकारी/कर्मचारी मौजूद रहे।

